



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2014—ज्येष्ठ 30, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2014

संशोधन

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के
समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2014, जिसके द्वारा श्री नीरज
दुबे, आय.ए.एस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन को एक दिन का
अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश की
कंडिका-1 में उल्लेखित “दिनांक 15-5-2014” के स्थान पर
“दिनांक 15-4-2014” पढ़ा जाये।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2014

क्र. ई-5-880-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहनलाल
मीणा, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला सतना को समसंख्यक आदेश
दिनांक 22 मई 2014 द्वारा दिनांक 26 मई 2014 से 7 जून 2014
तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में
आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 29 मई से 7 जून
2014 तक, दस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 जून 2014 का
सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2014 की शेष कंडिकाएं
यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2014

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ 1(ए) 196-1991-ब-2-दो.—श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से., महानिरीक्षक (अअवि-प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष-2014-17 के प्रथम ब्लॉक वर्ष-2014-15 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत लद्दाख की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. श्रीमती अनुराधा शंकर | स्वयं |
| 2. अदिति सिंह | पुत्री |
| 3. जनमेजय सिंह | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से., को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (अअवि-प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अअवि-प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1(ए) 253-1988-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 29 एवं 6 जुलाई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. के. माथुर, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

क्र. एफ 1(ए) 168-1989-ब-2-दो.—श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, एवं दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ 1(ए) 197-1991-ब-2-दो.—श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 16 जून 2014 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कोडाईकनाल (तमिलनाडू) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. डॉ. जी. आर. मीणा—स्वयं
2. श्रीमती निर्मला मीणा—पत्नी
3. कु. खुशबू मीणा—पुत्री
4. श्रेयस—पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण / समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (आर एण्ड डी), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 399-1988-ब-2-दो.—श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं), मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 से 28 जून 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 एवं 29 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 77-2008-ब-2-दो.—डॉ. आशीष, भापुसे, (2005) पुलिस अधीक्षक, भिण्ड को दिनांक 9 से 23 जून 2014 तक, पन्द्रह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. आशीष, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशीष, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. आशीष, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. आशीष, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशीष, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 20-92-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 द्वारा श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, (1988) अति. पुलिस महानिदेशक, कल्याण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 21 एवं 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में वृद्धि करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें दिनांक 21 से 28 जून 2014 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 29 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ-3-76-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, म.प्र.. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, म.प्र..
2. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, म.प्र..
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद, म.प्र.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ-3-67-2013-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-76-2013-बत्तीस, दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 5th June 2014

No. F-3-67-2013-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Hoshangabad (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Narmadapuram Division Hoshangabad, M.P..
2. Deputy Director, Town & Country Planing, Distt. Office Hoshangabad, M.P..
3. Collector, Hoshangabad, M.P..

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ-3-58-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गंजबासौदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों

में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. कलेक्टर, जिला विदिशा, म.प्र.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, गंजबासौदा.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, म.प्र.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ-3-58-2013-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-58-2013-बत्तीस, दिनांक 9 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 9th June 2014

No. F-3-58-2013-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Ganj Basoda (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Collector, Vidisha, M.P.
2. C.M.O. Municipal Council, Ganj Basoda, M.P.
3. Assistant Director, Town & Country Planing, Distt. Office Vidisha, M.P.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जून 2014

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब(एक).—

प्रति,

श्री राजेन्द्र प्रसाद मनकेलिया,
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गुना.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की है कि आपके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त, लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए.

आप 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उस पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (संशोधित) नियम, 1994 के नियम 14 (1) एवं 14 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक से अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

फा. क्र. 1-2-90-1599-इक्कीस-ब(एक).—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विशेष न्यायालय, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़) से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 में आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिरपति की सहमति से, एतद्वारा, सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़) के न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.

(2) इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 द्वारा गठित विशेष न्यायालय, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़) में लंबित सभी मामले, पैरा-1 के अधीन विशेष न्यायालय का गठन होने की तारीख को संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित हो जाएंगे।

F.No. 1-2-90-1599-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Schedule Castes and the Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in partial modification of this Department's Notification F. No. 1-2-90-XXI-B(1), Dated 19th February 1997 relating to Special Court, Mandleshwar (West Nimar), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specify the Court of Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar) to be a Special Court to try the offences under the said Act.

(2) All cases pending in the Special Court of Mandleshwar (West Nimar), constituted by this Department's Notification F. No. 1-2-90-XXI-B(1), Dated 19th February 1997, on the date of constitution of Special Court under para-1, shall stand Transferred to the respective Special Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

फा. क्र. 1(बी)-08-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जितेन्द्र सिंह बैस पुत्र श्री विजय सिंह बैस, अधिवक्ता, पन्ना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला पन्ना नियुक्त करता है. यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(सी) 11-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो)-2014.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री शारदा प्रसाद सिंगरौल, अधिवक्ता को जिला पन्ना में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी) 12-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो)-2014.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री शशिकान्त नागले, अधिवक्ता को जिला बैतूल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

फा. क्र. 1(सी) 14-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो)-2014.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री सबल सिंह भदौरिया, अधिवक्ता भिण्ड को जिला भिण्ड में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजन को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

फा. क्र. 1(बी)-31-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री दिनेश खण्डेलवाल पुत्र श्री हजारीलाल खण्डेलवाल, अधिवक्ता, इन्दौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये इन्दौर सत्र खण्ड के इन्दौर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य

पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

फा. क्र. 1(बी)-27-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2004 के द्वारा, श्री राकेश शुक्ला अधिवक्ता को, शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक, छतरपुर के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री राकेश शुक्ला शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक, छतरपुर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. खेर, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2014

क्र. एफ 11-07-2014-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीक स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने का उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्थीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछोर	ग्राम-पिछोर	पिछोर का किला	4032	रकबा क्षेत्र 3.075	शासकीय	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछोर	राजपुर	कुठियामठ (बोद्ध मठ)	02, मनपुरा	283/0.360	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछोर	कछौआ	प्राचीन गढ़ी	खसरा 3.075	रकबा 4032	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	ओरछा	ओरछा	रामनगर दरवाजा	खसरा नं. 1 में से रकबा 0.100 हे.	0.100 है.	म.प्र. शासन	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-1713-014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

सारणी में, अनुक्रमांक 5 एवं 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली	मुंगावली एवं चन्देरी का विद्युत क्षेत्र
90	सिवनी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन	लखनादौन का विद्युत क्षेत्र.

F.No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-1713-014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010 :—

AMENDMENT

In the table, for serial numbers 5 & 90 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :—

TABLE

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Ashoknagar	Ist Additional Sessions Judge, Mungaoli	Electricity area of Mungaoli & Chanderi
90	Seoni	Ist Additional Sessions Judge, Lakhnadone	Electricity area of Lakhnadone.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-1239, 1713-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

सारणी में, अनुक्रमांक 5, 12, 21, 23, 24, 27, 33, 34, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 73, 78, 85, 89, 90, 91, 96, 103, 107, 108 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

सारणी

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“5	अशोकनगर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मूंगावली	श्री आर. आर. भारतीय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मूंगावली
12	भिण्ड	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	श्री अजय कुमार टेलर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड
21	छिन्दवाड़ा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
23	दमोह	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री सुनील कुमार जैन (जूनि.) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
24	दतिया	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया	श्री रुचिर शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया
27	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ	श्री अनिल कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ
33	डिण्डोरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी	श्रीमती गीता सोलंकी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी
34	पूर्व निमाड़ खण्डवा.	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा.	श्री आर. के. दसोरा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा.
40	ग्वालियर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा	श्री जे. के. शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा
41	हरदा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	श्री व्ही. एस. राजपूत, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा
45	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 5, इन्दौर.	श्री दिलीप मित्तल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 5, इन्दौर.
48	इन्दौर	सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	श्री आर. के. गुप्ता, सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर
49	इन्दौर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मऊ	श्री आर. बी. गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मऊ
50	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 8, जबलपुर.	श्री राजीव कृष्ण पाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 8, जबलपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
51	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 9, जबलपुर.	श्री एम. सी. सोनी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 9, जबलपुर.
53	झाबुआ	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	श्री डी. एस. चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ
73	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा	श्रीमती मनीषा बसेर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा
78	रीवा	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री अनिल कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा
85	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	श्री चन्द्रदेव शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर
89	सिवनी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी	श्री संजय कृष्ण जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी
90	सिवनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन	श्री शिव चरण पांडे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन
91	शहडोल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल	श्री उपेन्द्र सोनकर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल
96	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर	श्री के. सी. यादव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर
103	टीकमगढ़	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री संजीव श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़
107	विदिशा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा	श्री अजय श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा
108	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बासौदा	कु. अनिता बाजपेई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बासौदा."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-1239-1713-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 :—

AMENDMENT

In the table, for serial numbers 5, 12, 21, 23, 24, 27, 33, 34, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 73, 78, 85, 89, 90, 91, 96, 103, 107, 108 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :—

TABLE

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
" 5	Ashoknagar	Additional Sessions Judge, Moongawali	Shri R. R. Bhartiya, Additional Sessions Judge, Moongawali.
12	Bhind	Ist Additional Sessions Judge, Bhind	Shri Ajay Kumar Tailor, Ist Additional Sessions Judge, Bhind.
21	Chhindwara	IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara	Shri Deepesh Kumar Tiwari, IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara.

(1)	(2)	(3)	(4)
23	Damoh	IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh	Shri Sunil Kumar Jain (Jr.), IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh
24	Datia	Ist Additional Sessions Judge, Datia	Shri Ruchir Sharma, Ist Additional Sessions Judge, Datia.
27	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch	Shri Anil Kumar Singh, Additional Sessions Judge, Sonkatch.
33	Dindori	Additional Sessions Judge, Dindori	Smt. Geeta Solanki, Additional Sessions Judge, Dindori.
34	East Nimar Khandwa.	IInd Additional Sessions Judge, East Nimar, Khandwa.	Shri R. K. Dasora, IInd Additional Sessions Judge, East Nimar, Khandwa.
40	Gwalior	IInd Additional Sessions Judge, Dabra	Shri J. K. Sharma, IInd Additional Sessions Judge, Dabra.
41	Harda	Ist Additional Sessions Judge, Harda	Shri V. S. Rajput, Additional Sessions Judge, Harda.
45	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 5, Indore.	Shri Dileep Mittal, Additional Sessions Judge, Special Court No. 5, Indore.
48	Indore	VIIth Additional Sessions Judge, Indore	Shri R. K. Gupta, VIIth Additional Sessions Judge, Indore.
49	Indore	IInd Additional Sessions Judge, Mhow	Shri R. B. Gupta, IInd Additional Sessions Judge, Mhow
50	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 8, Jabalpur.	Shri Rajeev Krishna Pal, Additional Sessions Judge, Special Court No. 8, Jabalpur.
51	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9, Jabalpur.	Shri M. C. Soni, Additional Sessions Judge, Special Court No. 9, Jabalpur.
53	Jhabua	Additional Sessions Judge, Jhabua	Shri D. S. Chouhan, Additional Sessions Judge, Jhabua.
73	Rajgarh	Ist Additional Sessions Judge, Bioara	Smt. Manisha Baser, Ist Additional Sessions Judge, Bioara.
78	Rewa	IVth Additional Sessions Judge, Rewa	Shri Anil Kumar Gupta, IVth Additional Sessions Judge, Rewa.
85	Satna	Additional Sessions Judge, Maihar	Shri Chandradev Sharma, Additional Sessions Judge, Maihar.
89	Seoni	IInd Additional Sessions Judge, Seoni	Shri Sanjay Krishna Joshi, IInd Additional Sessions Judge, Seoni.

(1)	(2)	(3)	(4)
90	Seoni	Additional Sessions Judge, Lakhnadown	Shri Shiv Charan Pandey, Additional Sessions Judge, Lakhnadown.
91	Shahdol	IInd Additional Sessions Judge, Shahdol	Shri Upendra Sonkar, IInd Additional Sessions Judge, Shahdol.
96	Shajapur	Additional Sessions Judge, Susner	Shri K. C. Yadav, Additional Sessions Judge, Susner.
103	Tikamgarh	IInd Additional Sessions Judge, Tikamgarh	Shri Sanjeev Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Tikamgarh.
107	Vidisha	IIInd Additional Sessions Judge, Vidisha	Shri Ajay Shrivastava, IIInd Additional Sessions Judge, Vidisha.
108	Vidisha	Additional Sessions Judge, Basoda	Ku. Anita Bajpai, Additional Sessions Judge, Basoda.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 26 मई 2014

क्र. बंधक श्रम-2014-502—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, शोभित जैन, जिला मजिस्ट्रेट, बड़वानी, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी / उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी, राजपुर, सेंधवा एवं पानसेमल का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	धारा	मनोनित सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	धारा 13(2)(क)	1. जिला मजिस्ट्रेट, बड़वानी	अध्यक्ष
2-	धारा 13(2)(ख)	जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य :	
		1. श्री रीछाभाई पिता ओंकार, नि. ग्राम मतली, त. राजपुर, जि. बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		2. श्री गंगल्या पिता लट्ठू, नि. ग्राम हिन्दली, त. सेंधवा, जि. बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		3. श्री भगवती प्रसाद शिन्दे, निवासी बड़वानी, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)
3-	धारा 13(2)(ग)	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :	
		1. श्री रमेशचन्द्र जैन, निवासी बड़वानी, जिला बड़वानी	सदस्य
		2. श्री जगदीशचन्द्र पिता रामासा गुप्ता, निवासी राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
4-	धारा 13(2)(घ) राज्य शासन द्वारा नामांकित :		
	1. पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी		सदस्य
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी		सदस्य
	3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, बड़वानी		सदस्य
5-	धारा 13(2)(ङ) वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य :		
	1. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बड़वानी, जिला बड़वानी		सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी

क्र.	धारा	मनोनित सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	धारा 13(3)(क)	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़वानी	अध्यक्ष
2-	धारा 13(3)(ख)	जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य :	
		1. श्री बलवानसिंह पिता प्रेमसिंह पटेल, सुस्तीखेड़ा, तह. बड़वानी, जि. बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		2. श्री जगन्नाथ सस्ते निवासी गंधावल, तहसील पाटी, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		3. श्रीमति पुष्पा गोयल, निवासी बड़वानी, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)
3-	धारा 13(3)(ग)	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :	
		1. श्री गजेन्द्रसिंह पिता स्व. उमरावसिंह पटेल, नि. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बड़वानी	सदस्य
		2. श्री नन्दराम पिता रमेश कुशवाह, निवासी, चांदशाह मोहल्ला, बड़वानी	सदस्य
4-	धारा 13(3)(घ)	राज्य शासन द्वारा नामांकित :	
		1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बड़वानी, जिला बड़वानी	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटी, जिला बड़वानी	सदस्य
		3. तहसीलदार, बड़वानी, जिला बड़वानी	सदस्य
5-	धारा 13(3)(ङ)	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य :	
		1. प्रबंधक, निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बड़वानी, जिला बड़वानी	सदस्य
6-	धारा 13(3)(च)	धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :	
		1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़वानी	-

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, राजपुर

क्र.	धारा	मनोनित सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	धारा 13(3)(क)	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजपुर	अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)
2-	धारा 13(3)(ख) जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य :		
	1. श्री ऐजीलाल पिता मांगीलाल भीलाला, नि. पीपरीबुजुर्ग, त. राजपुर, जि. बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)	
	2. श्री कैलाश पिता धीरा पटेल, नि. ग्राम साली, तह. राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)	
	3. श्री रूपेश पिता रमेश हरिजन (बलाई), नि. राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)	
3-	धारा 13(3)(ग) जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :		
	1. श्री विरेन्द्र पिता करतारसिंह मण्डलोई, निवासी राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य	
	2. श्री सुनील पिता बिट्ठल मामा पाटीदार, नि. अंजड, तह. अंजड, जिला बड़वानी	सदस्य	
4-	धारा 13(3)(घ) राज्य शासन द्वारा नामांकित :		
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य	
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ठीकरी, जिला बड़वानी	सदस्य	
	3. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य	
5-	धारा 13(3)(ङ) वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य :		
	1. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य	
6-	धारा 13(3)(च) धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :		
	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजपुर	-	

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सेंधवा

क्र.	धारा	मनोनित सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	धारा 13(3)(क)	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेंधवा	अध्यक्ष
2-	धारा 13(3)(ख) जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य :		
	1. श्री सीताराम पिता बोंदर, नि. पन्नाली, पो. धवली, तह. सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)	
	2. श्री गंगल्या पिता लट्ठू, निवासी हिन्दली, तह. सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)	
	3. श्री सुभाष पिता अभिमान चौहान, निवासी मेहतगांव, तह. सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)	
3-	धारा 13(3)(ग) जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :		
	1. श्री मोहनसिंग सोलंकी निवासी पांजरया, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य	
	2. श्री हरी पिता राधेश्याम गर्ग, निवासी धनोरा, तह. सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
4-	धारा 13(3)घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित :	
		1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य
		2. तहसीलदार, सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य
		3. तहसीलदार, वरला, जिला बड़वानी	सदस्य
5-	धारा 13(3)ङ	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य :	
		1. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सेंधवा, जिला बड़वानी	सदस्य
6-	धारा 13(3)च	धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :	
		1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेंधवा, जिला बड़वानी	

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, पानसेमल

क्र.	धारा	मनोनीत सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	धारा 13(3)क	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पानसेमल	अध्यक्ष
2-	धारा 13(3)ख	जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य :	
		1. श्री सकरिया पिता ठगा, नि. ग्राम देवधर, त. पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		2. श्री रतनसिंह पिता खेडकर, नि. ग्राम रायखेड, त. पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		3. श्री सुनिल वागले, नि. ग्राम मोरतलाई, त. पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)
3-	धारा 13(3)ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :	
		1. श्री एस. एस. पावरा, पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य
		2. श्री वामन पिता सुपडु चौधरी, नि. खेतिया, जिला बड़वानी	सदस्य
4-	धारा 13(3)घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित :	
		1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य
		2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य
		3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय निवाली, जिला बड़वानी	सदस्य
5-	धारा 13(3)ङ	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य :	
		1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., पानसेमल, जिला बड़वानी	सदस्य
6-	धारा 13(3)च	धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :	
		1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पानसेमल	

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 3 जून 2014

क्र. ब.श्र.प्र.समा.-सर्त.समि.-जि.श्रसी-2014.—बन्धक श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में विहित प्रावधानों के अनुसार जिला एवं उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिये किया जाता है:—

बन्धक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति, श्योपुर

क्र. (1)	समिति के सदस्य का नाम (2)	पद (3)	पता (4)
1	जिला कलेक्टर, श्योपुर	अध्यक्ष	जिला श्योपुर
2	पुलिस अधीक्षक, श्योपुर	सदस्य	जिला श्योपुर
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग श्योपुर	सदस्य	जिला श्योपुर
4	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कराहल	सदस्य	जिला श्योपुर
5	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग विजयपुर	सदस्य	जिला श्योपुर
6	लीड बैंक अधिकारी (अग्रणी प्रबन्धक) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया श्योपुर.	सदस्य	जिला श्योपुर
7	श्री लक्ष्मीचन्द पिता श्री भोलूराम कुशवाह	अशासकीय सदस्य	मण्डी के पास, विजयपुर, जिला श्योपुर
8	श्रीमती सरोज तोमर पत्नी श्री शिवनाथ सिंह तोमर	अशासकीय सदस्य	पुरानी चम्बल कालोनी, श्योपुर
9	श्री नरेन्द्र गुर्जर पिता श्री रामनाथ सिंह गुर्जर	अशासकीय सदस्य	ग्राम बुढेरा, तह. कराहल, जिला श्योपुर
10	श्रीमती सरोज वाजुल्ला पत्नी श्री रामप्रसाद वाजुल्ला	अशासकीय सदस्य	आदिवासी बस्ती, आनंद नगर, श्योपुर
11	श्री धर्मेन्द्र मीणा पिता श्री रामकरण मीणा	अशासकीय सदस्य	वार्ड नं. 10, पाली रोड, नर्सरी के पास, श्योपुर.
12	श्री श्याम सोनी पिता श्री रामकरण सोनी	अशासकीय सदस्य	वार्ड नं. 10, नर्सरी के पास, श्योपुर
13	श्री दिनेश दुबोलिया पिता श्री ध्यान नारायण	अशासकीय सदस्य	वार्ड नं. 10, रामजानकी मंदिर के पास, पाली रोड, श्योपुर.
14	श्री मनोज कुमार डोम पिता श्री हजारीलाल डोम	अशासकीय सदस्य	ग्राम कुड़ायता, तह. बड़ौदा, जि. श्योपुर
15	श्री शशांक भूषण पिता श्री कैलाशनारायण भूषण	अशासकीय सदस्य	वार्ड 07, गैस एजेन्सी के पास, श्योपुर जिला श्योपुर.

उपखण्ड स्तरीय बन्धक श्रम प्रथा समाप्ति सतर्कता समिति, उपखण्ड श्योपुर

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग श्योपुर	अध्यक्ष	जिला श्योपुर
---	--	---------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग श्योपुर	सदस्य	जिला श्योपुर
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, श्योपुर	सदस्य	जिला श्योपुर
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (प्रबन्धक) शाखा श्योपुर (स्टेशन रोड)	सदस्य	जिला श्योपुर
5	श्रीमती दुर्गेशनंदनी (अ.जा.)	अशासकीय सदस्य	निवासी बड़ौदा, जिला श्योपुर
6	श्री बाबू खां पिता पीर खां	अशासकीय सदस्य	मुसलमान निवासी श्योपुर
7	श्री गंगाराम आदिवासी	अशासकीय सदस्य	निवासी वर्धा बुर्जंग जिला श्योपुर
8	श्री श्यामलाल गर्ग	अशासकीय सदस्य	टोड़ी बाजार, श्योपुर.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रम प्रथा एवं सतर्कता समिति, विजयपुर

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग विजयपुर	अध्यक्ष	विजयपुर
2	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग विजयपुर	सदस्य	विजयपुर
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विजयपुर	सदस्य	विजयपुर
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (प्रबन्धक) शाखा विजयपुर	सदस्य	विजयपुर
5	श्रीमती गीता माहौर पत्नी श्री केदार माहौर	अशासकीय सदस्य	निवासी बीरपुर
6	श्री बुद्धराम आदिवासी पिता श्री रतनू आदि.	अशासकीय सदस्य	निवासी पालपुर, जिला श्योपुर
7	डॉ. श्री निवास रावत	अशासकीय सदस्य	ग्राम अरौंदरी विजयपुर, जिला श्योपुर
8	श्री लखमीचन्द कुशवाह	अशासकीय सदस्य	निवासी गढ़ा, जिला श्योपुर.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रम प्रथा एवं सतर्कता समिति, कराहल

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कराहल	अध्यक्ष	कराहल
2	थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन कराहल	सदस्य	कराहल
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कराहल	सदस्य	कराहल
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (प्रबन्धक) शाखा कराहल	सदस्य	कराहल
5	श्री हरिओम गुप्ता (सामान्य)	अशासकीय सदस्य	निवासी कराहल
6	श्री रामहेत धानुक (अ.जा.)	अशासकीय सदस्य	निवासी पनवाड़ा
7	श्री नृपत आदिवासी (अ.ज.जा.)	अशासकीय सदस्य	निवासी आवदा
8	श्री मदनलाल आदिवासी (अ.ज.जा.)	अशासकीय सदस्य	ग्राम गोरस.

ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

क्र. भसकम-1911.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से प्रसूविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित समस्त योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों एवं हितलाभ के स्वीकृति के अधिकार संबंधी सुसंगत कंडिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर एतद्द्वारा यथा प्रत्यायोजित करता है.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं को समग्र सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लिये गये कार्यक्रम और उसके अवयवों को एक निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति प्रदान की जायेगी. जिन आवेदकों के आवेदन-पत्र समय-सीमा में स्वीकृत नहीं होते हैं या वे पदाभिहित अधिकारी के आदेश से सहमत नहीं हैं ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान निम्नानुसार सारणी में किया जाता है :—

सारणी

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<u>शहरी क्षेत्र</u> सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.	चिकित्सा सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य शासन की निम्न योजनाओं के समकक्ष हितलाभ अधिकतम रु. 3 लाख तक देय—	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	15 कार्य दिवस	1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (1 लाख तक). 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं (3 लाख तक).	15 कार्य दिवस 20 कार्य दिवस	1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं. 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. जननी सुरक्षा योजना. 2. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना. 3. राज्य जिला/बिमारी सहायता निधि.	शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल अस्पताल.	15 कार्य दिवस	1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (1 लाख तक). 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं (3 लाख तक).	15 कार्य दिवस 20 कार्य दिवस	1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं. 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं.	
	3. विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
4. मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
	ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	
	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	
	शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
5. अन्त्येष्टि सहायता	ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	
	ग्राम पंचायत	अंतिम संस्कार के दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	7 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	
6. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन/नवीनीकरण	शहरी क्षेत्र अ. नगर पालिका निगम	अंतिम संस्कार के दिन	अ. कलेक्टर	7 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
	ब. नगरपालिका/नगर परिषद.		ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	
	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, जिला राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर पालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

नोट.—यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

अजय नेमा, सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(सी/2, सारुथ सिविल लाईन्स)

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2014

फा. नं. 70-जेजबो-राविसेप्रा.-500-14.—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) 473/2005 “सम्पूर्ण बहरूआ विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य” में दिये निर्देशानुपालन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2011 में दिये मार्गदर्शनानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 2014 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड में सम्पूर्ण समय उपस्थित होकर प्रकरणों में सेवायें देने वाले पैनल लायर्स का रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र), प्रति दिन, मानदेय निर्धारित किया जाता है.

डी. के. नायक, सदस्य सचिव.

Jabalpur, the 19th May, 2014

F. No. 70-JJB-SLSA-500-14.—In compliance with directions of Hon'ble Supreme Court of India in W. P. (c) No. 473/2005 “Sampurna Behrua Vs. Union of India and others” & NALSA guideline dated 12th September 2011, Madhya Pradesh State Legal Services Authority in its meeting dated 3rd February, 2014 resolved to fix honorarium of Rs. 500/- (Five hundred only), per day, for Panel Lawyers, who attend the Legal Aid Centre in the Juvenile Justice Board and render their service for the entire day.

D. K. NAIK, Member Secretary.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

क्र. एफ-23-01-2014-सा-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिये खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा घोषित करती है:—

D)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग, एस.एच.-31	124.150	धार, रतलाम

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	धार	लेबड़	6, 7/4, 7/2, 7/1, 10, 207, 208, 210/1, 210/2/1, 210/2/2, 220, 224/1/2, 224/1/3, 224/1/4, 224/2, 224/4, 241, 239, 240, 238, 237/1, 237/2, 236, 267, 271, 266, 270/3, 269, 265, 264, 263, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 242, 243, 260, 259/1, 259/1/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 258, 255, 256/2, 256/1, 253/3, 257, 253/1, 252, 251/2, 250, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 245/1, 245/2क, 245/2ख, 245/2ग, 244, 272, 268	6, 7/4, 7/2, 7/1, 11, 10, 207, 208, 210/1, 210/2/1, 210/2/2, 220, 224/1/2, 224/1/3, 224/1/4, 224/2, 224/2, 235/4, 235/3, 241, 239, 240, 238, 237/1, 237/2, 236, 271, 266, 270/3, 269, 264, 263, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 260, 259/1, 259/1/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 258, 255, 256/2, 256/1, 253/3, 253/1, 251/2, 250, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 245/1, 245/2क, 245/2ख, 245/2ग, 244, 272, 268
धार	धार	बगड	57/1, 59, 56, 57/2, 52, 47, 48, 46, 40, 45/1, 45/2, 44/1, 44/1/1, 44/2, 42, 43, 139, 138, 139/1, 137/2, 305/1, 303, 302/1, 301, 302/2, 302/3, 319, 318, 316/2, 316/1, 315, 314, 309/1, 132, 61, 62, 65, 67, 76, 75, 77, 70/1, 70/2, 70/3, 78/1/2, 78/1/1, 79,	57/1, 59, 56, 57/2, 52, 47, 48, 46, 40, 45/1, 45/2, 44/1, 44/1/1, 44/2, 42, 43, 139, 138, 139/1, 137/2, 305/1, 304, 305/2, 303, 302/1, 301, 302/2, 302/3, 319, 318, 316/2, 316/1, 315, 314, 309/1, 132, 131/1, 132/2, 61, 62, 65, 67, 76, 75, 77, 70/1, 70/2, 70/3, 78/1/2, 78/1/1, 79, 80,
धार	धार	माचकदा	264, 266, 267, 265, 268, 269, 270, 272, 271/2, 274, 275, 273, 258, 257/2, 260, 264, 263, 262	264, 266, 267, 265, 268, 269, 270, 271/1, 272, 271/2, 275, 273, 258, 257/2, 260, 261, 264, 263, 262,
धार	धार	हरसोरा	218, 209, 217, 216, 214, 213, 210, 246, 247, 248, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 255/1, 258/2, 257/1, 258/3, 163, 269, 270, 271/1, 273, 153/2/1क, 153/2/1, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164/2, 164/1, 165, 174/1, 174/2, 175, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 207, 202, 208, 201/3, 268, 1, 2, 3,	218, 217, 216, 214, 213, 210, 211, 246, 247, 248, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 255/1, 258/2, 257/1, 258/3, 163, 269, 270, 271/1, 273, 153/2/1क, 153/2/1, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164/2, 164/1, 165, 169, 172, 174/1, 174/2, 175, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 207, 203, 202, 268, 271/2, 1, 2, 3,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	सादलपुर	155, 156, 157/2/1, 158, 159, 160, 161, 162, 214, 217, 218, 219, 223, 164, 224, 225, 226, 222/2/2 क, 238, 150/3, 151/1/क, 151/1/ख, 152, 153/1/क, 154, 138, 137, 124, 112, 110, 111, 100, 101, 92, 84, 162/1/1	155, 156, 157/2/1, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 214, 217, 218, 219, 223, 164, 224, 225, 226, 222/2/2 क, 238, 150/3, 151/1/क, 151/1/ख, 152, 153/1/क, 154, 138, 137, 124, 112, 110, 111, 100, 101, 92, 84, 162/1/1
धार	धार	जुहावदा	123, 124, 125, 170, 136, 138, 139, 141, 178	123, 136, 138, 139, 141, 178
धार	धार	संगेसरा	26/1, 26/2, 25/1, 28, 80, 81, 82, 78/2, 78/1, 29, 75, 74, 73, 27, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 87/2, 87/1, 86/1, 86/2, 84/1/1, 83/1, 94, 95	26/1, 26/2, 25/1, 28, 49, 45, 77, 29, 78, 75, 74, 73, 30, 27, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 87/2, 87/1, 86/1, 86/2, 84/1/1, 83/1, 94, 95
धार	धार	चौकी	40, 37/4, 37/3, 37/2, 37/1/2, 37/1/1, 21, 20, 22/2, 23, 24, 22/1, 18, 19, 7, 16/2, 16/1, 15, 13, 12, 25, 27	40, 37/4, 37/3, 37/2, 37/1/1, 21, 22/2, 23, 24, 22/1, 18, 19, 7, 16/2, 16/1, 15, 13, 12, 25, 27
धार	धार	मुसावदा	77, 54, 50, 49, 48, 45, 44, 43/1, 41, 39/2, 38, 40/1, 165, 166, 167, 160/2, 160/3, 161, 162, 164, 165, 169/1, 169/2, 186, 187, 189, 41, 17/2, 19, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 21, 22, 23/3, 23/2, 23/1, 25/2, 25/9, 25/8, 25/7, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33	77, 54, 50, 49, 48, 45, 44, 43/1, 41, 39/2, 38, 40/1, 165, 166, 167, 160/2, 160/3, 161, 162, 164, 165, 169/1, 169/2, 186, 187, 189, 41, 17/2, 19, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 21, 22, 23/3, 23/2, 23/1, 25/2, 25/9, 25/8, 25/7, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33
धार	धार	खेरोद	48, 49, 50/2, 50/4, 51, 54, 79, 80, 81, 82, 87/2, 86, 87, 97, 96, 100, 112, 98, 126, 391, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 182, 186, 187, 184, 188, 189, 26, 27, 28, 41, 40/1, 40/2, 42, 46, 24, 25, 111, 126	48, 49, 50/2, 50/4, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 82, 87/2, 86, 87, 97, 96, 100, 112, 98, 126, 391, 390, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 182, 186, 187, 184, 188, 189, 26, 27, 28, 41, 40/1, 40/2, 42, 46, 24, 25, 111, 126
धार	बदनावर	मनासा	3, 4, 10, 12, 13, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 77, 75, 73, 76, 79, 80, 81/1/4, 81/1/1, 82, 83, 60/1, 84, 411/1/1, 411/1/2, 411/2, 410, 409, 408, 406/1, 407/1, 350, 356, 120, 117, 85, 94, 89, 88, 87	2/1/2, 3, 4, 10, 8, 11, 12, 15, 13, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 49/3+50+49/2, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 77, 75, 73, 74, 76, 79, 80, 81/1/4, 81/1/1, 82, 83, 60/1, 411/1/1, 411/1/2, 411/2, 412, 410, 409, 408, 406/1, 407/1, 350, 356, 120, 118, 117, 111, 112, 116, 85, 94, 89, 88
धार	बदनावर	रंगारा खेडी	255/1, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 273, 274/2/2, 272/1, 271, 270, 280, 269, 268/2, 267, 264, 265/2, 293/2, 263/1	255/1, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 273, 274/2/2, 272/1, 269, 268/2, 267, 264, 265/2, 265/1/2, 293/2, 263/1
धार	बदनावर	माकनी	5/1/2, 5/1/3, 6/1, 6/2, 17, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 57, 61/1, 63, 61/2, 58/2, 42, 38, 37, 36, 245, 244, 243, 242, 228, 227/3, 226/1, 226/2, 226/3, 215/1, 213, 214, 212, 210, 209, 208, 205, 206/1, 207, 77, 76, 65, 69, 68, 66, 67, 64,	5/1/2, 5/1/3, 6/1, 6/2, 5/1/6, 17, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 57, 56, 61/1, 63, 61/2, 58/2, 42, 41, 38, 39, 37, 36, 245, 244, 243, 242, 228, 227/3, 226/1, 226/2, 226/3, 215/1, 213, 214, 212, 210, 209, 208, 205, 206/1, 207, 77, 76, 65, 69, 68, 66, 67, 64,
धार	बदनावर	नागदा	47, 54, 55, 61/2, 64, 339/1, 339/1/2, 49, 68, 342/1, 342/2, 341, 368, 339, 43, 340,	47, 54, 55, 61/2, 64, 339/1, 339/1/2, 49, 68, 342/1, 342/2, 341, 368, 339,
धार	बदनावर	सनोली	449, 448, 442/2/2, 442/1/2, 442/1, 442/2, 440, 439, 437, 435, 434/1, 433, 431, 432, 370, 422, 430, 424+425, 380/2, 423, 407/1, 407/2/1, 407/2/2/1, 407/2/2/2, 455/1/1, 428, 455/2/2, 459,	449, 448, 442/2/2, 442/1/2, 442/1, 442/2, 440, 439, 438, 437, 435, 434/1, 433, 434/2, 445, 432, 370, 436/1, 424+425, 380/2, 423, 407/1, 407/2/1, 407/2/2/1, 407/2/2/2, 455/1/1, 428, 455/2/2, 459,
धार	बदनावर	खजुरैया	32, 40, 39/2/1, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46/1, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 53/1, 53/2, 52/3, 230, 69/5, 69/4, 69/3, 60/5, 60/4, 60/3, 60/2, 60/1, 59/2, 59/1, 61/2, 58, 20, 21, 26/3, 26/4, 29, 30, 33	32, 40, 39/2/1, 37, 38, 45, 46/1, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 53/1, 53/2, 230, 69/5, 70, 69/4, 69/3, 60/5, 60/4, 60/3, 60/2, 60/1, 59/2, 59/1, 61/2, 58, 20, 21, 26/3, 26/4, 29, 30, 33
धार	बदनावर	खंडीगारा	28/1, 274, 71/1, 57, 75, 69, 70, 308/78, 84, 85, 86, 97/1, 97/2, 99/1, 99/2, 149, 148, 167/1, 19/1क, 20, 26/1क, 28/2, 29, 30/2, 51, 55/1, 52, 55/2, 56/3, 58/1, 72, 284, 288, 286, 287, 161, 167/2, 167/3, 167/4, 159, 27, 26, 18, 7/1, 6, 2/2, 2/1, 302/1, 302/2	28/1, 274, 71/1, 75, 69, 70, 308/78, 84, 85, 86, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 149, 148, 167/1, 19/1क, 20, 26/1क, 28/2, 29, 30/2, 51, 55/1, 52, 55/2, 56/3, 58/1, 72, 284, 288, 286, 287, 161, 160, 167/2, 167/3, 167/4, 159, 27, 26, 18, 7/1, 6, 2/2, 2/1, 302/1, 302/2, 54, 89/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	बदनावर	कानवन	337, 339, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 311, 290, 289, 275, 273, 272, 271, 25, 24, 23, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 1	337, 339, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 311, 290, 289, 275, 273, 272, 271, 25, 24, 23, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 1
धार	बदनावर	छोकला	4, 5, 6, 8, 10, 26, 28, 29, 30, 32, 45, 51, 330, 331, 328, 332, 336, 339, 337, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 409, 406, 405, 403, 398, 396, 389, 388, 379, 376, 356, 387, 316, 318, 317, 101, 120, 107, 108, 106, 96, 95, 94, 93, 63, 59, 58, 57, 104,	4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 32, 45, 41, (49+50), 51, 331, 328, 332, 336, 339, 337, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 409, 407, 406, 410, 405, 403, 398, 396, 389, 388, 379, 376, 356, 387, 316, 318, 315, 313, 317, 101, 120, 107, 110, 108, 106, 105, 96, 95, 94, 93, 61, 63, 59, 58, 57, 104, 103
धार	बदनावर	बोराली	288/1, 289/2, 290/2, 290/3, 308, 320/449, 320+322, 323, 325/2, 326, 327, 324, 328, 329, 330, 392, 393/1, 393/2, 391, 394/2, 396, 399, 400, 401, 402, 403/1, 109, 110, 111, 112, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 185, 186, 319, 234/1, 233, 232, 235, 230, 239, 234/2, 238, 258/1/2, 258/1/1, 257/1/3, 257/1/1/2, 257/1/2/2, 258/2/2, 258/2/1, 287, 286, 284, 285, 271, 283/1/4, 283/1/3, 283/1/2, 283/1/1, 283/2, 281,	288/1, 289/2, 290/1, 290/2, 308, 320/449, 320+322, 323, 327, 324, 328, 329, 330, 392, 393/1, 393/2, 391, 394/2, 396, 399, 400, 401, 402, 403/1, 109, 110, 111, 112, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 185, 186, 319, 234/1, 233, 232, 230, 239, 234/2, 238, 239, 258/1/2, 257/2/2, 258/1/1, 257/1/3, 257/2/1, 257/1/1/2, 257/1/2/2, 258/2/2, 258/2/1, 286, 284, 285, 271, 283/1/4, 283/1/3, 283/1/2, 283/1/1, 283/2, 281
धार	बदनावर	घटगारा	382, 383, 384, 388/2, 411, 4+5, 399, 402, 403, 404, 405, 437, 506, 507, 508, 510, 511, 519, 528, 524, 546, 482, 483, 588, 591/1, 591/2, 592, 593, 594, 143, 145, 146, 147, 153, 162/2+163, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/2, 167/2, 168, 169, 149, 150, 148, 252, 255, 253, 518, 283, 254, 288, 287, 286, 302, 303, 329, 328, 354, 355/33, 355/2/2, 357, 355/1, 355/2/1, 358, 380, 381,	382, 384, 388/2, 411, 4+5, 399, 402, 400/1, 400/2, 403, 404, 405, 406, 437, 506, 507, 508, 510, 511, 519, 528, 524, 546, 482, 483, 588, 591/1, 591/2, 592, 593, 143, 145, 146, 147, 153, 152, 154, 162/2+163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/2, 167/2, 168, 169, 149, 150, 148, 252, 255, 253, 283, 254, 288, 287, 286, 302, 303, 329, 328, 354, 355/33, 355/2/2, 357, 355/1, 355/2/1, 358, 380, 381,
धार	बदनावर	पिटगारा	261, 264, 263, 262, 258, 259, 250, 251, 249, 248, 247, 245, 242, 240, 239, 228, 241, 227, 223, 215, 214, 211, 172, 212, 213, 171, 170, 132, 87, 587, 618, 607, 606, 604, 613, 605, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 591, 589, 590, 83, 81, 77, 76, 72, 75/2, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 703/58, 37, 36, 34, 33, 260	264, 263, 262, 258, 257, 250, 251, 249, 246, 245, 244, 242, 240, 239, 228, 227, 226, 225, 223, 224, 222, 215, 214, 211, 172, 212, -, 171, 170, 132, 133, 88, 90, 586, 618, 607, 606, 613, 605, 602, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 591, 587, 590, 83, 81, 77, 76, 72, 75/2, 70, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 703/58, 37, 36, 34, 33, 32
धार	बदनावर	खेड़ा	832, 836, 838/1, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 855, 1169, 1268, 1391, 1388, 1389, 1378, 1375, 1377, 2181, 2188, 2190, 2193, 2192, 2191, 2215, 2216, 2214, 2210, 2217, 2212, 2216, 2218, 2220, 2222, 2219, 2207, 139, 2224, 2223, 2227, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2040, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2090, 2116, 2115, 2117, 2118, 2275, 227, 413, 66, 1390, 1404, 1405, 1406, 1131, 1138, 1172, 1159, 1198, 1162, 1161, 1160, 1159, 897, 859, 857, 1166, 855	832, 836, 838/1, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 855, 1169, 1268, 1391, 1388, 1389, 1375, 1377, 2181, 2188, 2190, 2193, 2215, 2216, 2214, 2210, 2217, 2212, 2220, 2222, 2207, 139, 2224, 2223, 2227, 2235, 2236, 2240, 2040, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2090, 2116, 2115, 2117, 2118, 2275, 2274, 1366, 1390, 1404, 1405, 1406, 1131, 1138, 1172, 1159, 1198, 1162, 1161, 1160, 1159, 897, 859, 857, 1166, 855

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	बदनावर	मुलथान	2559, 2557, 2558, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2495, 2494, 2493, 2491, 2461, 2447, 2446, 2445, 2428, 2425, 2424, 2423/1, 2084, 2086, 2099, 1970, 1977, 1976/2/1, 1976/2/2, 1953, 1954, 2823, 1958, 1949, 1960, 1961, 1963, 92, 2665, 69, 2661/2, 2661/1, 2660, 2642, 2641, 65, 2638, 2600, 2599, 2598, 2596/2, 1597, 2586, 2585, 2584, 2581, 3080/6566, 2575, 2576, 74, 72, 73, 2835, 2836, 2837, 2839, 2894, 2893, 2892, 2885, 2884, 2883, 96, 97, 99, 2923, 2958, 2959, 2928, 2986, 2906, 2968, 2899, 2898, 1946	2559, 2557, 2558, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2495, 2494, 2493, 2499, 2490, 2491, 2447, 2448, 2446, 2445, 2428, 2425, 2424, 2423/1, 2084, 2086, 1991, 2099, 1970, 1964, 1977, 1976/2/1, 1976/2/2, 1978, 1951, 1953, 1954, 2823, 1958, 1949, 1960, 1961, 1963, 92, 2665, 69, 2665, 2661/2, 2661/1, 2660, 2642, 2641, 65, 2638, 2600, 2599, 2598, 2596/2, 1597, 2586, 2585, 2584, 2581, 3080/6566, 2575, 2576, 74, 72, 73, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2894, 2893, 2892, 2885, 2886, 2884, 2883, 96, 97, 99, 2923, 2924, 2958, 2959, 2928, 2986, 2906, 2968, 2901, 2899, 2898, 1946
धार	बदनावर	शीतोडा	22, 21, 18, 24, 25, 17, 16, 14, 13, 11, 5/1+9, 10, 5/2, 4, 28, 29, 33, 34, 58, 59, 62/1, 62/2, 63, 76, 140, 77, 141, 142, 155	22, 21, 18, 17, 16, 14, 13, 11, 5/1+9, 10, 5/2, 4, 28, 29, 33, 34, 58, 59, 61, 62/1, 62/2, 63, 76, 140, 77, 142, 155
रतलाम	रतलाम	सुजलाना	29, 30/3, 30/2, 35/9, 35, 135, 140, 114, 112, 111/1, 111/2, 149, 142/1, 142/2, 142/5, 141, 151, 165/1, 165/2, 167, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252, 253, 256, 255/7, 257, 266, 267, 265/2, 268, 269/1	29, 30/2, 35/9, 35, 135, 140, 114, 112, 111/1, 111/2, 149, 142/1, 142/2, 142/5, 151, 165/1, 165/2, 167, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252, 253, 255/7, 255/6, 255/5, 257, 258, 259, 266, 265/2, 268, 269/1
रतलाम	रतलाम	सिमलावदा	63, 64, 65, 67/1, 67/2, 74, 68, 89/1, 89/2, 69/2, 69/1, 91, 102, 110/2/1, 110/2/2, 110/2/3, 110/1, 111, 112, 114/1, 113, 121, 358/1, 359, 358/3, 345, 344, 341/4, 341/3, 339/21, 339/1/1, 339/6, 338, 337, 336, 339/2, 339/3, 272/1, 272/2, 472/2, 472/1, 335, 470/3, 470/24, 470/25, 470/26, 470/27, 360, 455, 390/1, 390/2, 390/3, 399, 388, 397, 362/6, 362/2, 697/1, 390, 727, 728, 739/7, 740, 741, 742, 743/1, 386, 743, 746, 747, 749/8, 749/7, 479/2/2, 749/2/1, 748, 749/1/3/1, 749/1/3/2, 90	63, 64, 65, 67/1, 67/2, 74, 68, 89/2, 69/2, 69/1, 88, 91, 102, 110/2/1, 110/2/2, 110/2/3, 110/1, 111, 112, 114/1, 113, 121, 358/1, 359, 358/3, 346/4, 345, 344, 341/3, 341/2, 339/21, 339/1/1, 339/6, 337, 336, 339/2, 339/3, 272/1, 272/2, 472/2, 472/1, 470/3, 470/24, 470/25, 470/26, 470/27, 469, 455, 390/1, 390/2, 390/3, 399, 388, 397, 396/1, 362/6, 362/2, 697/1, 390, 727, 728, 739/7, 740, 741, 742, 743/1386, 743, 746, 747, 749/8, 749/7, 479/2/2, 749/2/1, 748, 749/1/3/1, 749/1/3/2
रतलाम	रतलाम	रत्तागढ़ खेड़ा	476/5, 776/4, 476/2, 477, 478, 479, 481/3/2/1, 481/2, 491/2/4, 491/2/1, 492, 493/2/1, 493/2/3, 475, 473/2, 474, 466/2, 466/3, 464/1, 463/3, 461/1, 463/2/2, 495/1/1, 495/1/3, 495/1/4, 495/1/2, 495/2/1/3, 495/2/1/5, 495/2/1/4, 495/2/1/2, 495/2/2, 495/2/1/1, 495/5	476/5, 776/4, 476/2, 477, 481/1, 478, 479, 481/3/2/1, 481/2, 490, 491/2/5, 491/2/1, 492, 493/2/2, 493/2/1, 493/2/3, 473/2, 474, 472, 466/2, 466/3, 464/1, 464/2, 463/2/2, 495/1/1, 495/1/3, 495/1/4, 495/1/2, 495/2/1/3, 495/2/1/5, 495/2/1/4, 495/2/1/2, 495/2/2, 495/2/1/1, 495/5
रतलाम	रतलाम	लोधीतारा	1, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 15/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, 18, 77, 85/1, 85/4, 85/5, 85/6, 78, 80/1, 80/2, 85, 87, 98/1, 98/2, 99, 101, 102/1/1, 102/1/2, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 104, 103, 128	1, 11/1, 11/2, 9, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 15/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, 18, 77, 85/1, 85/4, 85/5, 85/9, 85/10, 85/6, 78, 80/1, 80/2, 85, 87, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102/1/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 104, 103, 128

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	रतलाम	सरवड	202, 388, 387, 386, 389, 385, 382, 384, 343, 344, 342, 340, 339, 337, 352, 353, 329, 328, 327, 326, 266, 324, 323, 321, 261/1, 288, 287, 285, 284, 283, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 252/1, 252/2, 253, 254, 231, 230/7, 230/6, 230/5, 230/1, 229, , 228/13, 228/12, , 228/6, 228/5, 228/3, 228/4, 227/2, 224/1, 224/3, 222/2, 222/1, 221/1, 217/2, 220, 217/1, 221/2, 223/1, 29/2, 218, 34, 30, 29/1, 28/2, 31, 26, 27/1, 27/2, 24/1, 22, 16, 15, 14, 281/5, 267, 266, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 265/1, 265/2, 258/17, 258/16, 258/15, 258/13, 23/3, 218, 257,	202, 388, 387, 386, 389, 391, 385, 382, 384, 343, 344, 342, 340, 339, 337, 352, 353, 329, 328, 327, 326, 266, 324, 323, 321, 261/1, 288, 287, 285, 284, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 252/1, 252/2, 253, 254, 231, 230/7, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 228/13, 228/12, 228/6, 228/5, 228/3, 228/4, 227/2, 224/1, 224/3, 222/2, 222/1, 221/1, 217/2, 220, 217/1, 221/2, 223/1, 29/2, 218, 35, 34, 30, 29/1, 28/2, 31, 26, 27/1, 27/2, 24/1, 22, 16, 15, 14, 281, 281/5, 267, 266, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 258/17, 258/16, 258/15, 258/13, 23/3, 218, 257,
रतलाम	रतलाम	जमुनिया	42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45/1/1, 45/1/2, 45/2/1, 45/2/2, 48, 61/2, 61/1, 62, 63/2, 63/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 414/1, 414/2, 413/1, 413/2, 475/615, 412, 513/1, 513/2, 513/609, 514/1/1, 514/1/2, 514/2, 537, 556/1, 556/2, 557, 558/1, 558/2, 510, 511/1, 511/2, 492/1, 492/2, 475, 477/3/1, 477/3/2, 474, 472/1, 472/2, 473, 450, 489, 449/1, 449/2/1, 449/2/2, 449/3, 455, 447/1, 447/2, 446/1, 446/2, 445/1, 445/2, 444, 423/1, 423/2, 416, 422/1/1, 422/1/2, 422/2/1, 422/2/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2	42/1, 42/2, 42/3, 43, 42/4, 44, 45/1/1, 45/1/2, 45/2/1, 45/2/2, 48, 60, 61/2, 61/1, 415, 416, 62, 65, 64, 63/2, 63/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 414/1, 414/2, 413/1, 413/2, 412, 513/1, 513/2, 514/1/1, 514/1/2, 514/2, 537, 556/1, 556/2, 559/1, 559/2, 559/3, 557, 558/1, 558/2, 510, 511/1, 511/2, 493, 492/1, 492/2, 490, 475, 476, 477/3/1, 477/3/2, 474, 472/1, 472/2, 473, 449/1, 449/2/1, 449/2/2, 449/3, 448/1, 448/2, 455, 447/1, 447/2, 446/1, 446/2, 445/1, 445/2, 444, 423/1, 423/2, 416, 422/1/1, 422/1/2, 422/2/1, 422/2/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 424
रतलाम	रतलाम	रेण	29/1, 29/2, 29/3, 32, 31, 33/1, 34, 35, 39/2, 40/528, 40/529, 41/2, 42, 40, 73, 74, 73/1, 73/2, 71/2, 71/1, 70, 69, 63, 66, 65, 62/1, 62/3, 63/1, 63/2, 62/2, 61, 24, 27/6, 92, 91/2, 84, 83/1, 83/2, 79, 78, 76, 476/2, 476/1, 477/1, 483/1, 483/2, 485, 486/2, 495/2, 525, 525/2	29/1, 29/2, 29/3, 32, 31, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 39/2, 40/528, 40/529, 41/2, 42, 40, 73, 74, 73/1, 73/2, 71/2, 71/1, 70, 69, 63, 66, 67/2, 65, 63/1, 63/2, 62/2, 61, 24, 26, 27/5, 27/6, 92, 91/2, 91/1, 84, 83/1, 83/2, 80, 79, 78, 77, 76, 476/2, 476/1, 477/1, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 495/2, 525, 525/2
रतलाम	रतलाम	महू	52/1, 53, 179/2/1, 179/2/2, 179/3, 177/1, 177/2, 177/3, 176, 175/1, 174/3, 174/4, 167, 174/2, 174/1, 169/1, 169/3, 169/4, 169/2, 168, 209, 208, 207, 206/2, 180, 179/4, 181/1, 181/3, 181/4, 193/1, 193/2, 192, 195/2, 194, 196/1, 196/2, 200, 203/2, 203/1, 204	52/1, 53, 179/2/1, 179/2/2, 179/3, 177/1, 177/2, 177/3, 176, 175/1, 149/1/2, 174/3, 174/4, 173, 167, 174/2, 174/1, 169/1, 169/3, 169/4, 169/2, 168, 209, 208, 207, 206/2, 181/1, 181/3, 193/1, 183/1, 193/2, 192, 195/2, 194, 196/1, 196/2, 200, 203/2, 203/1, 204
रतलाम	रतलाम	बिलपाक	51, 52, 53/4, 53/1, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/3, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 62, 63, 66, 67, 68/1, 70/1, 71, 72, 73, 79, 80, 81/1, 94/1, 94/2, 126, 50, 43/2, 39/2, 39/4, 39/1, 43/2, 43/1, 48, 49, 46, 47, 45, 163/1, 150, 130, 129, 128/1, 128/2, 127/3, 127/1, 127/2, 100/1, 101/1, 89, 98/1, 96, 95, 40	51, 52, 53/4, 53/1, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58/6, 59, 57/1, 57/2, 62, 64, 65, 66, 67, 68/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/5, 71, 70/6, 72, 73, 74, 78/4, 79, 80, 81/1, 94/1, 94/2, 92, 39/2, 39/4, 39/1, 43/1, 48, 49, 46, 47, 45, 163/1, 150, 130, 129, 128/1, 128/2, 127/3, 127/1, 127/2, 100/1, 101/1, 100/4, 89, 98/1, 96, 40
रतलाम	रतलाम	धिकलिया	1, 3/1, 82, 83, 101, 100, 95, 87, 90, 86/6, 85, 86/2, 86/1, 93	1, 3/12, 3/1, 3/4, 82, 83, 101, 100, 84, 94, 95, 87, 90, 86/5, 86/6, 86/2, 86/1, 93

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	गियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	रतलाम	धराड	230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 232/2, 233, 234/1, 234/5, 234/4, 234/3, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 237/1/1, 237/1/2, 237/1/3, 529/1, 531/3, 531/1, 531/2, 237/1/4, 238, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1/1, 226/1/2, 226/2/1, 226/2/2, 198/3, 198/2, 198/6, 198/3, 198/4, 198/5, 198/1, 197/1, 197/2, 227, 187/1, 187/2, 187/3, 182/2, 186, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 847/2, 847/4, 847/5, 843, 844, 536, 537/2, 537/3, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 564, 565, 567, 568/1 पै, 568/1, 568 पै, 568 पै, 568 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/4, 593/2020/2, 593/2020/3, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 604/2, 606/1, 606/5, 606/3, 606/2, 612/2, 613/3, 613/4, 641/1, 646, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 645/1, 647/1, 645/2, 647/4, 647/3, 647/2, 655/1, 655/2, 657, 658/1, 658/2, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 663/4, 663/1, 663/2, 663/3, 675, 679, 680/3, 680/2, 680/1, 600/2, 682/2, 682/3, 682/1, 712, 713, 716, 717, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/3, 718/2, 718/5, 720, 719, 722, 726, 725/1, 725/2, 735, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738, 739/1 से 5 तक, 740/5 मेसे, 740 मेसे, 740 मेसे, 740/4 मेसे, 740 मेसे, 741/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 742/1, 742/2, 742/3, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 744/1/1, 744/1/2, 744/3, 744/2, 743, 744/4, 744/5, 676	230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 232/2, 232/1, 233, 234/1, 234/5, 234/4, 234/3, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 237/1/1, 237/1/2, 237/1/3, 529/1, 531/3, 531/1, 531/2, 237/1/4, 238, 529/1, 528/3, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1/1, 226/1/2, 226/2/2, 198/3, 198/2, 198/6, 198/3, 198/4, 198/5, 199/2, 199/1, 198/1, 200/1, 197/1, 197/2, 227, 187/1, 187/2, 187/3, 182/5, 182/2, 186, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 847/2, 847/3, 847/4, 847/5, 843, 844, 845, 536, 537/2, 537/3, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568/1 पै, 568/1, 568 पै, 568 पै, 568 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/1 पै, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/4, 593/2020/1, 593/2020/2, 593/2020/3, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 604/2, 606/1, 606/5, 606/3, 606/2, 607/1, 612/2, 613/3, 613/4, 641/1, 646, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 645/1, 645/2, 647/4, 647/3, 647/2, 655/1, 655/2, 655/3, 654, 657, 658/1, 658/2, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 663/4, 663/1, 663/2, 663/3, 675, 679, 680/3, 680/2, 680/1, 600/2, 682/2, 682/3, 682/1, 712, 713, 716, 717, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/3, 718/2, 718/5, 720, 719, 722, 726, 725/1, 725/2, 735, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738, 739/1 से 5 तक, 740/5 मेसे, 740 मेसे, 740 मेसे, 740/4 मेसे, 740 मेसे, 741/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 742/1, 742/2, 742/3, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 746, 744/1/1, 744/1/2, 744/3, 744/2, 743, 744/4, 744/5, 676
रतलाम	रतलाम	मंगरोल	759/1, 759/2, 759/3, 754, 749, 747, 746, 793/1, 793/2, 793/3, 794, 795, 799, 791/1, 791/2, 779, 780, 790/1, 790/2, 792, 789, 787, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 774, 761/1, 761/6, 761/7, 761/8, 762, 768, 761/2, 761/4, 761/5, 761/3	758/1, 758/2, 758/3, 759/1, 759/2, 759/3, 754, 749, 747, 746, 793/1, 793/2, 793/3, 794, 795, 799, 791/1, 791/2, 779, 780, 790/1, 790/2, 792, 789, 787, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 774, 761/1, 761/6, 761/7, 761/8, 762, 768, 761/2, 761/4, 761/5, 761/3
रतलाम	रतलाम	खाराखेड़ी	4/1, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 6/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 35, 35/7, 35/5, 107/1, 107/2, 108, 175, 176/2, 176/4, 176/1, 174/2, 171, 158/1, 158/2, 157/2, 157/1, 149, 177, 178, 179, 177, 261/1, 267/1, 267/2, 267/3, 261/4, 260/2, 264/2, 264/1, 260/3, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 244, 180/4, 180/3, 180/2, 180/1, 191/4, 173, 14, 191/3, 191/13, 191/14, 191/8, 191/7, 191/2, 191/6, 191/12, 191/10, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/2, 208/4, 208/7, 211	4/1, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 6/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 35, 35/2, 35/7, 35/5, 35/6, 107/1, 107/2, 108, 175, 176/3, 176/2, 176/4, 176/1, 174/2, 170, 171, 158/1, 158/2, 159, 157/2, 157/1, 156, 149, 177, 261/1, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 261/4, 261/2, 260/2, 264/2, 264/1, 260/3, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 244, 180/4, 180/3, 180/2, 180/1, 191/4, 14, 191/3, 191/13, 191/14, 191/8, 191/7, 191/2, 191/6, 191/12, 191/10, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/2, 208/4, 208/7, 206, 211
रतलाम	रतलाम	साला खेड़ी	166, 165, 164/2, 164/3, 164/1, 163/2, 163/1, 147, 146, 144/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/9, 143, 145/2, 144/17, 142, 144/15, 144/16, 149, 140, 94/1, 94/4, 94/2, 93, 92, 72/6, 72/5, 72/1, 72/4, 72/3, 72/2, 73/1, 79, 68, 69/1, 68/1, 62,	166, 165, 164/2, 164/3, 164/1, 163/2, 163/1, 163/3, 147, 146, 144/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/9, 144/7, 143, 144/5, 144/6, 145/2, 144/17, 142, 144/10, 144/15, 144/16, 149, 140, 94/1, 94/4, 94/2, 93, 92, 72/6, 72/5, 72/1, 72/4, 72/3, 73/1, 68,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			67, 64/1, 64/4, 64/5, 66/3, 66/4, 64/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/3, 78, 253, 267, 61/2, 61/1, 60, 59, 56, 49/1, 49/4, 49/6, 49/3, 49/5, 28/1, 28/7, 28/6, 28/5, 28/2, 28/3, 28/4, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 23/1, 24/6, 24/1, 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 14/7, 20, 14/2, 14/5, 14/6, 14/1, 15/1, 15/10, 15/11, 15/12, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 12, 11, 5/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/1, 5/1, 4, 3, 2/6, 2/10, 2/8, 2/14, 2/12, 2/15, 2/13, 2/2, 2/1	69/1, 68/1, 67, 66/1, 68/2, 64/1, 64/4, 64/5, 66/4, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/3, 78, 253, 267, 61/2, 61/1, 60, 59, 58, 56, 49/2, 49/1, 49/4, 49/6, 49/3, 49/5, 28/1, 28/7, 28/6, 28/5, 28/2, 28/3, 28/4, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 23/1, 24/6, 24/1, 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 14/7, 20, 21, 14/2, 14/5, 14/6, 14/4, 14/1, 15/5, 15/1, 15/10, 15/11, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 12, 11, 5/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/1, 5/1, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/10, 2/8, 2/14, 2/12, 2/15, 2/13, 2/2, 2/1
रतलाम	रतलाम	सनावदा	3, 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 9/2, 9/10, 9/3, 9/9, 9/4/1, 9/4/2, 9/5, 9/8, 9/1/2, 9/1/4, 9/1/3, 10, 80/4, 82/1, 82/2, 82/4, 83/2, 85/1, 85/2/1, 85/2/3, 86, 87, 88, 79, 13, 11, 12, 19/2, 19/3	3, 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 9/2, 9/10, 9/3, 9/9, 9/4/1, 9/4/2, 9/5, 9/8, 9/1/2, 9/1/4, 9/1/3, 9/6, 10, 80/4, 80/3, 82/1, 82/2, 82/4, 83/2, 85/1, 85/2/1, 85/2/3, 86, 87, 88, 39, 40, 79, 13, 11, 12, 19/2, 19/3,
रतलाम	रतलाम	भदूनी	109, 122, 129, 132/2, 132/4, 132/3, 138/1, 137, 147/1, 147/4, 147/3, 147/2, 138/2, 146/1, 146/3, 145/1, 145/2, 146, 187, 143, 142, 139/1, 139/2, 139/3, 131, 130	109, 121, 122, 129, 132/2, 132/4, 132/3, 138/1, 138/3, 137, 147/1, 147/4, 147/3, 147/2, 138/2, 146/1, 146/2, 146/3, 145/1, 145/2, 146, 187, 144, 143, 142, 139/2, 139/3, 140, 131, 130
रतलाम	रतलाम	सुराखेड़ी	12, 21, 23, 25, 34, 27, 28, 38, 55, 52, 45, 44, 43, 42, 22	12, 21, 23, 25, 24, 34, 27, 28, 38, 55, 52, 53, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 22
रतलाम	रतलाम	भाटखेड़ी	17, 18, 19/3, 19/1/3, 20, 12, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 28, 27, 25, 23, 16	17, 18, 19/1/4, 19/2, 19/3, 19/1/3, 20, 12, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 28, 27, 25, 23, 21, 16
रतलाम	रतलाम	घटला	17, 18, 20/3, 20/4, 20/5, 15, 16, 20/6, 20/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 13, 206, 215/2, 215/3, 214/2, 214/3, 214/1, 211/1, 211/2, 213/1, 212, 225, 207, 256/3, 256/2, 254/1, 251/2, 250/2, 243/1, 243/2	17, 18, 20/3, 20/4, 20/5, 15, 16, 20/6, 20/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 13, 206, 215/2, 215/3, 214/2, 214/3, 214/1, 211/1, 211/2, 213/1, 212, 225, 207, 256/3, 256/2, 254/1, 251/2, 250/2, 243/1, 243/2
रतलाम	रतलाम	डोसीगाँव	-	116, 115, 117/1, 118, 119/1, 119/2, 120
रतलाम	रतलाम	सेजावता	62, 64/4, 64/7, 64/6, 64/2, 64/3, 64/5, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 77/5, 77/1, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 88, 96, 93, 92, 272, 271, 270, 267, 262, 263, 263/510, 356, 352, 351, 350, 375, 373, 372, 371, 370, 358/3, 358/2, 358/1, 259, 261/4, 261/3, 261/5, 261/2, 261/1, 249, 245, 149, 140/9, 140/1, 140/2, 140/10, 133/1, 132, 131/5, 131/8, 129, 128/6, 125/3, 125/8, 125/10, 125/11, 125/2, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 124, 99/4, 99/5, 98, 108	62, 64/4, 64/7, 64/6, 64/2, 64/3, 64/5, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 77/4, 77/5, 77/1, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 88, 96, 93, 92, 272, 271, 270, 267, 262, 263, 263/510, 356, 352, 351, 350, 375, 373, 372, 371, 370, 358/3, 358/2, 358/1, 259, 261/4, 261/3, 261/5, 261/2, 261/1, 249, 245, 149, 140/9, 140/1, 140/2, 140/10, 133/1, 132, 131/5, 131/8, 130, 131/9, 129, 128/6, 125/3, 125/8, 125/10, 125/11, 125/2, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 124, 99/4, 99/5, 98, 108, 128/10, 128/12
रतलाम	रतलाम	धौंसवास्त	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12/2, 11/8, 12/10, 12/6, 12/9, 13, 13/616, 29/2, 31, 21, 273/1, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 377, 381, 378, 382, 383, 394, 391, 395, 393, 396, 394/1, 394/2, 394/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 408/5, 407/603, 561, 560/1, 560/2, 568, 573, 574/1, 574/4, 574/5, 580/3, 580/8, 580/6, 582/1, 582/3, 582/2, 582/4, 582/7, 582/8, 582/5, 582/11, 582/10, 582/9, 582/6, 583, 262, 261, 420, 419, 418, 264, 417, 416, 415, 414, 559, 558, 557/2, 522/1, 551/1, 551/2, 550/2, 549, 548/1, 547/2, 546, 584/13,	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12/2, 11/1, 11/8, 12/5, 12/10, 12/6, 12/9, 12/7, 13, 13/616, 29/2, 30/1, 31, 21, 274/2, 273/1, 273/2, 275/2, 275/3, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 272, 271, 270, 269, 268, 292, 299, 293, 267, 377, 381, 378, 382, 383, 394, 391, 395, 393, 396, 394/1, 394/2, 394/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 408/5, 407/603, 561, 560/1, 560/2, 568, 573, 574/1, 574/4, 574/5, 580/2, 580/3, 579, 580/8, 580/6, 582/1, 582/3, 582/2, 582/4, 582/7, 582/8, 582/5, 582/11, 582/10, 582/9, 582/6, 583, 262, 261, 420, 419, 418, 255, 264, 417, 416, 415, 414, 559, 558, 557/2, 522/1, 551/1, 551/2, 550/2,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			584/1, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/9, 584/10, 584/14, 267, 73, 74/1, 72/1, 72/2, 72/3, 71, 70, 69, 66/4, 66/3, 66/2, 65/2, 65/4, 65/5, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 35, 34, 37/1, 36, 37/2, 38/2, 38/1, 39, 142, 143, 153, 155, 157, 159, 265, 264, 33, 266, 547/1/1, 547/2, 394/3/1, 394/3/2	523, 549, 548/1, 547/2, 546, 584/13, 584/1, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/9, 584/10, 584/14, 267, 73, 74/1, 72/1, 72/2, 72/3, 71, 70, 69, 66/4, 66/3, 66/2, 65/2, 65/4, 65/5, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 37/2, 38/2, 38/1, 39, 142, 141, 143, 154, 153, 155, 157, 158, 159, 264, 547/1/1, 547/2, 394/3/1, 394/3/2
रतलाम	रतलाम	नामली	143, 137, 145/15, 145/2, 145/3, 145/4, 889, 885, 883, 882, 878, 876, 876/1/2, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203, 872/1	265, 266, 267, 268, 369, 285, 282, 283, 281, 279, 290, 260/1187, 262, 263/1203, 269, 261, 260, 680, 602, 603, 604, 613, 671, 670, 667, 663, 676, 674, 673, 672, 665, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1037, 143, 191, 189/3, 190/1209, 184/1143, 180, 178, 169, 171/1, 163, 162, 194, 195, 190, 184, 183, 182, 176, 165/1208, 173, 174, 376, 373, 371, 377, 366, 367, 368, 369, 284, 286, 287, 288, 289, 293, 292, 278, 264, 137, 145/15, 145/2, 145/3, 145/4, 888, 889, 887, 886, 885, 883, 882, 878, 876, 876/1/2, 876/1/3, 872/1, 873, 849, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203
रतलाम	रतलाम	मेवासा	273/2, 273/1, 274, 271/1, 276/4, 276/1, 276/3, 277, 258, 257, 256, 280/2, 280/1, 279, 281, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 275, 235, 236, 234, 233, 285, 286, 231, 230, 194, 232, 193, 287, 184, 171, 183, 74, 73, 75, 185, 181, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97/1, 97/2, 98, 97/365, 108, 109, 121, 120, 122, 124/1, 124/2/2, 134, 135/4, 137, 143, 144/1, 147, 149, 150, 151, 311, 152, 153, 154, 159, 180, 179, 178, 177, 176, 172, 124/6, 125/1, 127, 128, 129, 343, 349, 340/1, 340/2, 131, 132, 134	273/2, 273/1, 274, 271/1, 276/4, 276/1, 276/3, 277, 258, 257, 256, 280/2, 280/1, 279, 281, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 275, 235, 236, 234, 233, 285, 286, 231, 230, 194, 232, 193, 287, 184, 171, 183, 74, 73, 75, 185, 181, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97/1, 97/2, 98, 97/365, 108, 109, 121, 120, 122, 124/1, 124/2/2, 134, 135/4, 137, 143, 144/1, 147, 149, 150, 151, 311, 152, 153, 159, 180, 179, 178, 177, 176, 172, 124/6, 125/1, 127, 128, 129, 343, 349, 340/1, 340/2, 131, 132, 134
रतलाम	रतलाम	नयापुरा	87, 88, 80/2, 96, 97/1, 97/2, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 149/2, 151, 150, 155, 154, 153, 152	87, 88, 89, 80/2, 96, 97/1, 97/2, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 149/2, 151, 150, 155, 154, 153
रतलाम	रतलाम	भदवासा	1, 2, 3, 4, 41, 6, 9, 8/1, 8/3, 5,	1, 2, 3, 41, 6, 9, 8/1, 8/3, 8/4
रतलाम	पिपलौदा	पाडलिया हसन	161/2, 159/2, 158/3, 159/3, 158/1, 158/2, 156, 154, 145, 140, 135/2, 141, 126, 123, 135/3, 119, 118, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 260, 261, 262, 268/4, 268/5, 280, 279, 278, 286/1, 286/2, 286/5, 152/2/4 क, 152/2/4 ख, 157, 312/1, 312/2, 310, 309, 308/2, 308/4, 308/5, 308/1/2, 308/3, 308/1, 306, 308/1/1, 397, 400, 160, 161/1, 163, 164, 165, 166, 125/2, 125/3, 124, 122, 121, 256, 257, 258, 281/1, 281/3, 281/4, 283, 285, 284/420, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 306, 400/1, 400/2, 416, 125/2, 120/1/1, 120/1/2, 120/1/3, 120/1/4/1, 120/1/4/2, 120/1/5, 120/2, 120/3, 120/4	161/2, 159/2, 158/3, 159/3, 158/1, 158/2, 156, 154, 145, 143, 140, 135/2, 132, 141, 131, 126, 123, 135/3, 119, 118, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 260, 263, 261, 262, 268/4, 280, 279, 278, 286/1, 286/2, 301/1, 301/2, 305, 370/1, 370/2, 403, 152/2/4 क, 152/2/4 ख, 157, 268/6, 268/7, 312/1, 312/2, 310, 309, 308/4, 308/5, 308/1/2, 308/3, 308/1, 308/1/1, 397, 400, 160, 161/1, 163, 164, 165, 166, 125/2, 125/1, 125/3, 124, 122, 121, 256, 257, 258, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 283, 285, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 306, 400/1, 400/2, 416, 125/2, 120/1/1, 120/1/2, 120/1/3, 120/1/4/1, 120/1/4/2, 120/1/5, 120/2, 120/3, 120/4

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	पिपलोदा	अरनिया गुजर	101, 100, 143, 142, 141, 140, 138, 130, 129, 385, 386, 393/1, 393/2, 403, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 398, 404, 406, 405, 127, 128, 124, 123, 122, 121, 119, 116, 113/1, 113/2, 113/3, 111, 109, 111/408, 112, 108/1, 108/2, 107, 105, 103, 102	101, 100, 143, 142, 141, 96, 140, 145, 138, 139, 137, 136, 135, 130, 129, 383, 384, 385, 386, 387, 393/1, 393/2, 403, 401/1, 401/2, 101, 100, 143, 142, 141, 96, 140, 145, 138, 139, 137, 136, 135, 130, 129, 383, 384, 385, 386, 387, 393/1, 393/2, 403, 401/1, 401/2, 402/2, 402/3, 402/4, 398, 406, 405, 127, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 116, 115, 113/1, 113/2, 113/3, 111, 109, 111/408, 112, 108/1, 108/2, 106, 107, 105, 103, 104
रतलाम	पिपलोदा	सोहनगढ़	751, 755, 812/1, 782, 783, 777/1, 777/2, 773, 779, 772/1, 772/2, 785, 788/1883, 789, 790, 784, 756, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1768, 1811 मे.से., 1811 मे.से., 1810, 1807, 1806, 1802, 1803, 1813/1, 1813/3, 1819, 1797, 1796, 1795, 1792, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1786, 1812, 1820, 1821, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2/1, 1844/2/2, 1844/3, 1859, 1860	751, 755, 812/1, 782, 783, 786, 777/1, 777/2, 773, 774, 779, 772/1, 772/2, 785, 788/1883, 788, 789, 792, 790, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1768, 1811 मे.से., 1811 मे.से., 1810, 1807, 1806, 1802, 1803, 1813/1, 1813/3, 1819, 1797, 1796, 1795, 1792, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1786, 1796, 1799, 1795, 1792, 1793, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1788, 1786, 1820, 1821, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2/1, 1844/2/2, 1844/3, 1859, 1860
रतलाम	पिपलोदा	पाडलिया उमर	164, 165, 166, 167, 176, 177/2, 177/1, 180, 185, 184, 183, 159, 203/1, 204, 206, 207, 222/1/क, 210, 118/2, 151/1/क, 151/1/ख, 119, 153/1/क, 121, 126, 128, 150, 149, 152, 153, 162, 161, 160, 69, 53/2, 53/1, 52, 50, 49, 48, 47, 46	164, 165, 166, 167, 176, 177/2, 177/1, 180, 181, 185, 184, 183, 200, 159, 203/1, 204, 206, 207, 222/1/क, 210, 118/2, 151/1/क, 151/1/ख, 119, 153/1/क, 121, 126, 128, 150, 149, 152, 153, 162, 161, 154, 160, 69, 54, 53/2, 53/1, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46

II)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
	जावरा-नयागाँव फोरलेन मार्ग, एस.एच.-31	127.81	रतलाम, मन्दसौर, नीमच

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	जावरा	लुहारी	209, 219/1/1/1, 219/1/1/2, 219/1/2, 219/1/3, 220, 221/1, 221/2, 224, 115, 228, 229/3, 229/1/1, 229/1/2, 229/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/2, 234, 234/2/2/2, 238/3, 238/2, 235/1, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247/2, 246/2, 246/1, 247/4, 113, 114, 118/2, 124, 125, 128, 129, 129/4, 93, 130, 149/4, 151/2, 153, 152, 153/1, 156/3, 203/1, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 207/2	209, 219/1/1/1, 219/1/1/2, 219/1/2, 219/1/3, 220, 221/1, 222, 221/2, 224, 115, 228, 229/1/1, 229/1/2, 230, 231/1, 233/3, 233/5, 233/2, 234, 234/2/2/2, 238/3, 238/2, 235/1, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247/2, 246/1, 247/4, 114, 118/2, 124, 125, 128, 129, 129/4, 93, 130, 149/4, 151/2, 153, 152, 153/1, 156/3, 203/1, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 207/2
रतलाम	जावरा	कुम्हारी	2, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11/5, 11/1, 11/6, 11/7, 6/2, 6/4, 22, 23/1, 23/4, 23/2, 23/3, 24/1, 28/1, 25/2, 26/3, 29, 30/2, 31, 35/17, 35/18, 50, 30/1, 53, 51, 54, 55, 57, 57/3, 57/15, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21	4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11/5, 11/1, 11/6, 11/7, 6/2, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 28/1, 25/2, 29, 30/2, 31, 35/17, 35/18, 50, 30/1, 53, 51, 54, 55, 57, 57/3, 57/15, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	जावरा	बन्नाखेड़ा	69, 227, 54, 104, 168, 169, 172, 171, 174, 175, 178, 183, 228, 229, 230, 231, 232, 237/1/1, 237/6, 237/7, 241, 244, 226, 222	69, 227, 54, 104, 168, 163/4, 169, 172, 171, 174, 175, 178, 183, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 237/1/2, 237/1/1, 237/6, 237/7, 241, 240, 244, 226, 222
रतलाम	जावरा	करवा जावरा(जावरा)	690, 692, 694, 695, 696, 708, 691, 465/5/2, 465/6/1, 465/6/3, 465/8, 464, 463, 463/4, 463/1, 462, 461, 453, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 451, 449, 447, 219, 220, 216/4, 216/1 ख, 216/3, 216/1 क, 185, 184/1, 178/3, 178/8, 176/1, 178/2, 176/6, 178/1, 176/4, 176/2, 176/8, 176/3, 175/3, 175/4, 84, 78/2, 78/1, 77/1, 77/2, 76/1, 73/3, 73/5, 73/4, 73/2, 72, 71, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 58/6, 58/158/4, 58/8, 58/7, 60, 61/1/1, 61/1/2, 61/2, 68, 69/2, 69/1, 69/3, 69/4, 433, 443, 444/1, 444/3, 444/2, 443/1, 445/2, 445/3, 445/4, 455/1, 450, 458, 460, 459, 460/1218, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/7, 502/4, 508, 689, 28/2, 28/3, 28/1, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3/1, 30/3/2, 30/4, 30/5, 30/6, 31, 38/1, 38/4, 38/5, 39/1, 42, 45/1, 45/2/1, 45/2/2, 45/3, 46/1, 46/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50	690, 692, 694, 695, 696, 708, 691, 465/5/2, 465/6/1, 465/6/3, 465/8, 464, 463, 463/4, 463/1, 462, 461, 453, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 451, 449, 447, 219, 220, 216/4, 216/1 ख, 216/3, 216/1 क, 185, 184/1, 178/3, 178/8, 176/1, 178/2, 176/6, 178/1, 176/2, 176/8, 176/3, 175/3, 175/4, 84, 78/2, 78/1, 77/1, 77/2, 76/1, 73/3, 73/5, 73/4, 73/2, 72, 71, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 58/3, 58/2, 58/658/1, 58/4, 58/5, 60, 61/1/1, 61/1/2, 61/2, 68, 69/2, 69/1, 69/3, 69/4, 433, 443, 444/1, 444/3, 444/2, 443/1, 445/2, 445/3, 445/4, 455/1, 450, 455/2, 458, 460, 459, 460/1218, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/7, 502/4, 508, 689, 28/2, 28/3, 28/1, 27, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3/1, 30/3/2, 30/4, 30/5, 30/6, 31, 38/1, 38/2 द, 38/4, 38/5, 39/1, 42, 45/1, 45/2/1, 45/2/2, 45/3, 46/1, 46/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50
रतलाम	जावरा	अरनियापिथ्या	157, 150, 149, 148/1, 148/2, 140, 110, 108, 107, 105, 104, 103, 102/1, 102/3, 52, 51, 50/1, 48, 47, 46, 159/2, 159/1, 168/2, 169, 170, 171, 180, 179, 181, 182, 203, 209, 207, 211, 213, 212, 158	157, 150, 149, 148/1, 148/2, 140, 141, 109, 106, 103, 102/1, 102/3, 52, 51, 50/1, 48, 49, 159/2, 159/1, 161, 168/2, 169, 170, 171, 180, 179, 178, 181, 182, 203, 209, 207, 211, 213, 212
रतलाम	जावरा	बागाखेड़ा	1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 18/1, 18/3, 19, 20, 26/1, 28, 29, 32, 38, 35, 40, 41, 42, 39, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 98, 129, 134, 140, 141, 142, 143, 145, 143	1, 2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9/861, 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 18/1, 18/2, 17, 19, 20, 26/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 38, 35, 40, 41, 42, 39, 37/1, 38/3, 37/2, 38/2, 38/1, 98, 129, 128, 134, 130, 140, 141, 142, 143, 145, 143
रतलाम	जावरा	मैसाना	78, 79, 80, 83, 84, 94, 93, 95, 96, 139, 140/3, 140/1, 158, 154, 153, 152, 151, 150, 160, 162, 163, 164, 165, 165/3, 165/4, 166, 167, 178, 177, 179, 180, 183, 184, 81	78, 79, 80, 83, 85, 84, 94, 93, 95, 96, 139, 140/3, 140/1, 158, 154, 153, 152, 151, 150, 161/2, 160, 169, 162, 163, 164, 165, 165/3, 165/4, 166, 167, 178, 177, 179, 180, 183, 184, 81
रतलाम	जावरा	रीछाचांदा	483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 569, 570, 571, 567, 572, 573, 575, 576, 577, 579, 552, 580, 581, 582, 589, 590, 592, 593, 594, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 282, 283, 293, 294, 310, 311, 312, 313, 314, 396, 397, 398, 399, 400, 414, 415, 416, 451, 453, 455, 459, 460, 461, 462, 181	484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 567, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 552, 580, 581, 582, 589, 590, 592, 593, 594, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 282, 283, 293, 294, 310, 313, 314, 396, 397, 398, 395, 402, 399, 400, 401, 403, 414, 404, 412, 413, 416, 411, 417, 418, 450, 451, 453, 455, 459, 460, 461, 462, 181
रतलाम	जावरा	परवलिया	136, 129, 128, 126, 125, 124, 115, 114, 111, 110, 109, 90, 99, 89, 87, 86, 85, 83, 81, 76, 75, 71, 70, 69, 68, 61, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/2/2, 144, 145, 252, 251, 253, 262, 261, 263, 264, 267, 268, 271, 269, 270, 272, 273, 326, 345, 346, 347, 350, 354, 355, 138	136, 129, 128, 126, 124, 115, 114, 111, 110, 108, 109, 90, 91, 87, 86, 84, 83, 81, 76, 75, 71, 70, 69, 68, 61, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/2/2, 144, 145, 252, 251, 253, 257, 263, 264, 267, 271, 269, 270, 272, 273, 326, 345, 347, 348, 350, 354, 355
रतलाम	पिपलोदा	लसूडियानाथी	72, 73/1, 75, 82, 80, 90, 85, 87, 88, 83, 84, 89	72, 73/1, 74, 75, 82, 80, 90, 85, 87, 88, 84, 89

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	जायरा	ढोदर	47, 48, 57, 58, 59, 69/1743, 59/1743, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 87, 89, 90, 93, 95, 99, 101, 102, 104, 103, 262, 259, 257, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 907, 906, 908, 911, 912, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1397, 1408, 1409, 1410, 1316, 1411, 1412, 1315, 1314, 1413, 1299, 1297, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 110, 109, 108, 107, 104, 105, 45, 44, 46, 43, 49, 40, 39, 37/1, 36, 30, 29, 28, 27, 26	47, 48, 49, 57, 58, 59, 69/1743, 59/1743, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 262, 259, 258, 269, 268, 270, 271, 272, 273, 278, 281, 282, 292, 293, 294, 295, 296, 907, 906, 908, 909, 911, 912, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1397, 1389, 1408, 1409, 1410, 1421, 1420, 1412, 1418, 1413, 1415, 1416, 1299, 1297, 1296, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 110, 109, 108, 107, 105, 45, 44, 43, 49, 40, 39, 37/1, 36, 30, 29, 28, 27, 26
रतलाम	पिपलीदा	माननखेड़ा	676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 835, 834, 832, 831, 825, 823, 822, 821, 816, 815, 810, 809, 806, 808, 805, 804, 799, 796, 794, 795, 793, 792, 707, 718, 706, 705, 704, 701, 153, 14, 13, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 164, 163, 162, 161, 160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 699, 698, 696, 694, 692/1, 692/2, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 689, 679, 678, 152, 148, 105, 104, 103, 72, 71, 68, 69, 63, 60, 55, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16	676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 835, 834, 832, 831, 825, 823, 822, 821, 816, 815, 810, 809, 806, 808, 805, 804, 799, 796, 794, 795, 793, 792, 707, 718, 706, 705, 704, 701, 153, 14, 13, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 164, 163, 162, 161, 160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 699, 698, 696, 694, 692/1, 692/2, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 689, 679, 678, 152, 148, 105, 104, 103, 72, 71, 68, 69, 63, 60, 55, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17
मन्दसौर	दलौदा	कचनारा	289, 298, 299, 300, 301, 455, 302, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 510, 514, 580, 588, 589, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 611, 612, 613, 614, 615, 987, 988, 1000, 1001, 1027, 1028, 1026, 1029, 1030, 1031, 1063, 1064, 1079, 1080, 1081, 1084, 1083, 1277, 1279, 1280, 1281, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 248/3, 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 265, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 586, 597, 287, 277, 286, 288	289, 298, 299, 300, 301, 455, 302, 487, 489, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 510, 509, 509/1346, 511, 514, 580, 588, 589, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 611, 612, 613, 614, 615, 987, 988, 1000, 1001, 1002, 1027, 1028, 1026, 1030, 1032, 1031, 1063, 1064, 1079, 1080, 1081, 1084, 1083, 1277, 1279, 1280, 1281, 1273, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 248/3, 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 265, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 586, 597, 290, 287, 277
मन्दसौर	(दलौदा)	आक्याउमाहेड़ा	6, 7, 4, 8, 2, 1, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 38, 40, 47, 48, 49, 58, 57, 45, 97, 98, 71, 99, 100, 88, 1188, 1189, 1134, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1268, 1269, 1271, 1309, 1314, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1335, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 52, 53, 54, 55, 193, 191, 183, 179, 178, 171, 176, 170, 169, 166, 164, 149, 147, 146, 145, 144, 102, 103, 137, 130, 131, 132, 134, 119, 166, 169, 168, 105, 1004, 1007, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1380	5, 6, 7, 4, 8, 2, 1, 13, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 21, 38, 39, 40, 47, 46, 48, 49, 58, 65, 57, 98, 71, 1188, 1189, 1134, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1244, 1246, 1247, 1248, 1268, 1269, 1271, 1309, 1314, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1335, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 52, 53, 54, 55, 193, 191, 197, 183, 184, 187, 182, 179, 178, 171, 176, 170, 166, 165, 164, 149, 147, 148, 150, 146, 137, 119, 166, 169, 168, 105, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1365, 1359, 1358

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
मन्दसौर	दलोदा	लखमाखेड़ी	160, 162, 163/2, 165, 166, 169/1, 169/2, 170, 171, 173, 174, 206, 199, 198, 196, 195/2, 195/1, 194, 191, 315, 456, 457, 458, 459, 460, 471, 472, 475, 478, 507, 505, 504, 508, 521, 522, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 210/2, 209, 208, 228, 242/2, 243, 242/1, 246, 248/1, 248/2, 313, 529, 527, 526, 525, 540, 543, 544, 542, 545, 563, 554, 555, 556, 557	160, 161, 162, 163/2, 165, 166, 169/1, 169/2, 170, 171, 173, 174, 206, 199, 198, 196, 195/2, 195/1, 194, 191, 315, 456, 457, 458, 459, 460, 471, 470, 472, 475, 478, 507, 505, 504, 508, 521, 522, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 210/2, 209, 208, 228, 227, 229, 242/2, 242/1, 246, 247, 248/1, 248/2, 313, 529, 527, 526, 525, 540, 543, 544, 542, 545, 546, 563, 552, 551, 554, 555, 556, 557
मन्दसौर	दलोदा	दलोदा	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 551, 20, 22/1, 21/2, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 115, 116, 113, 118, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 241, 243, 244, 281, 264, 265, 263, 266, 267, 274, 280, 282, 283, 284, 414, 416, 417, 415, 419, 420, 475/1, 475/2/1, 475/2/2, 475/3, 486, 487, 493, 496, 511, 512, 519, 520, 535, 546, 906, 909/2, 905 मि-1, 906 मि-2, 902, 577, 576, 578, 575, 589, 570, 568/1, 568/2, 566 मि-1 566 मि-2 567, 554, 553, 642 मि-1 642 मि-2 645, 647, 651, 652, 117, 709, 708/2, 710, 695, 711, 718, 717, 715, 719, 722, 726, 727, 547, 548, 1142, 1137, 1136, 1135, 1134, 1129, 1127, 1126, 549, 1125, 1124, 721, 732, 731, 1122, 1121, 1119, 1116, 1114, 1113, 946, 947, 944, 943, 940, 550, 923, 941, 922, 917, 918, 721, 722	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 551, 20, 22/1, 21/2, 21/01, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 115, 116, 113, 118, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 241, 243, 244, 264, 265, 263, 266, 267, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 414, 416, 417, 415, 419, 418, 420, 475/1, 475/2/1, 475/2/2, 475/3, 486, 487, 493, 496, 511, 512, 519, 520, 535, 546, 906, 907, 909/1, 909/2, 905 मि-1, 906 मि-2, 902, 577, 576, 578, 575, 589, 570, 568/1, 568/2, 566 मि-1 566 मि-2 567, 554, 553, 642 मि-1, 642 मि-2, 645, 647, 649 मि-1, 649 मि-2, 651, 652, 117, 709, 708/2, 710, 695, 711, 718, 715, 719, 722, 726, 727, 547, 548, 1142, 1137, 1136, 1135, 1134, 1129, 1127, 1126, 549, 1125, 1124, 721, 21, 732, 731, 1122, 1121, 1119, 1116, 1114, 1113, 946, 944, 943, 940, 550, 923, 939, 941, 922, 917, 918, 721, 722
मन्दसौर	(दलोदा)	बानीखेड़ी	45, 44, 202, 203, 204, 222, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 920, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220	45, 44, 202, 203, 204, 222, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 920, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219
मन्दसौर	दलोदा	फतेहगढ़ रोजा	89, 91, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 74, 73, 72, 71, 70, 183, 182, 181, 180, 399, 400, 401, 403, 402, 422, 425, 421, 426, 437, 436, 43/5, 434, 432, 431, 556/1, 557, 558, 580/2, 581, 590/2, 601, 599/2, 600, 602, 555, 450, 449, 172, 178, 82, 611, 603, 604, 605, 542, 543, 544, 547, 553, 541, 540, 533, 532, 531, 530, 529, 466, 467, 171, 174, 175, 176, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 95, 94, 93	89, 91, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 183, 182, 181, 180, 399, 400, 401, 404, 403, 402, 422, 425, 421, 426, 437, 436, 427, 428/3, 43/5, 434, 432, 431, 556/1, 557, 558, 580/2, 581, 590/2, 601, 599/2, 600, 602, 555, 450, 449, 172, 178, 603, 604, 605, 542, 543, 544, 547, 553, 541, 540, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 524, 449, 450, 453, 465, 466, 467, 171, 174, 175, 176, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 95, 94, 93
मन्दसौर	मन्दसौर	सोनगरी	3, 4, 22, 25, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 197, 198, 38, 37, 66, 65, 69, 68, 70, 71, 76, 73, 178, 176, 195, 206, 305, 196, 200, 201, 202, 203, 243, 244, 245, 246, 248, 292, 293, 295, 296, 297, 301, 300, 298	3, 4, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 197, 198, 38, 37, 39, 40, 47, 48, 66, 65, 64, 63, 69, 68, 70, 76, 73, 75, 178, 177, 176, 195, 206, 305, 196, 201, 202, 203, 243, 245, 246, 248, 292, 291, 293, 294, 295, 296, 301, 300, 298
मन्दसौर	मन्दसौर	निपानिया मेघराज	29, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 40, 32/1, 32/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90/3, 92, 33	29, 28, 30, 31, 33, 41, 40, 38, 32/1, 32/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90/3, 92, 33
मन्दसौर	मन्दसौर	अजीजखेड़ी	9, 10, 11, 12, 16, 120, 152, 8, 118/4, 118/5, 7, 121, 13, 14, 109, 18, 156, 153, 15, 17, 188, 151, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 110, 112, 114, 108	9, 10, 11, 12, 16, 120, 152, 1, 8, 118/4, 7, 121, 13, 14, 109, 18, 156, 155, 153, 15, 17, 188, 151, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 92, 111, 110, 112, 114, 108
मन्दसौर	मन्दसौर	ग्यासपुरा	54, 57, 58, 85, 75, 87, 91, 119, 115, 113, 112, 118, 161/1, 162, 76, 84, 117, 104, 116, 114, 108, 109,	54, 56, 57, 59, 85, 75, 86, 87, 91, 90/2, 125/1, 119, 115, 113, 112, 118, 110, 161/1, 162, 76, 78, 84, 83, 92, 117, 104, 103, 116, 114, 108, 109,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
मन्दसौर	मन्दसौर	खिलचीपूरा	469, 468, 465, 467, 466, 623, 624, 625, 627, 456, 626, 631, 633, 632, 634, 635, 645, 636, 628, 458, 459, 464, 463	469, 468, 465, 467, 466, 623, 619, 624, 625, 627, 456, 631, 633, 632, 634, 635, 645, 641, 640, 637, 636, 628, 458, 459, 464, 463
मन्दसौर	मन्दसौर	गालछा	6/1, 6/2, 6/3, 5/1, 5/2, 5/3, 52/1, 52/2, 52/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 72/1, 72/2, 71/1, 71/2, 70, 69, 68/1, 68/2, 68/3, 67, 73, 57, 66/1, 66/2, 65/1, 65/3, 65/2, 64/1, 64/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 62/2, 62/1,	6/1, 6/3, 5/1, 5/3, 52/1, 52/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 72/2, 71/2, 70, 69, 68/1, 68/3, 67, 73, 57, 66/1, 66/2, 65/1, 65/3, 64/2, 59/2, 60/1, 60/3, 61, 62/1,
मन्दसौर	मन्दसौर	बीछ नौलखा	112/4, 112/3, 128, 121/2, 119/2, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 120, 123/1, 124/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4	112/4, 112/3, 128, 121/2, 119/2, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 120, 123/1, 124/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4
मन्दसौर	मन्दसौर	गालछा	187, 188, 186, 196, 276, 275/1, 275/2, 275/3, 274/2, 274/1, 273/2, 273/1, 262, 261, 271/1, 272/2, 271/2, 271/3, 285, 286/1, 287/1, 287/2, 289	188, 186, 196, 171, 276, 275/3, 277, 278, 279, 274/2, 273/1, 262, 261, 260, 271/1, 272/2, 271/3, 285, 286/2, 284, 287/1, 288, 290, 289
मन्दसौर	मन्दसौर	करसा मन्दसौर	1, 40, 1887, 1892, 1895, 1897, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1904, 1912, 1913, 1914, 1919, 1915, 1917, 1980, 1981, 1986, 1987, 1985, 1984, 1983, 1990, 1991, 2000, 1999, 1996, 1998, 1997, 2003, 2015, 2021, 2020	1, 40, 1887, 1892, 1895, 1897, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1904, 1912, 1913, 1914, 1919, 1915, 1917, 1918, 1980, 1981, 1986, 1987, 1985, 1984, 1983, 1990, 1991, 2000, 1999, 1996, 1998, 1997, 2003, 2015, 2021, 2020
मन्दसौर	मन्दसौर	हैदरवास	99, 71, 63, 70, 29/264, 55, 66, 68, 73, 215, 214, 213/263, 211, 234, 236, 211/365, 235, 237, 238, 261, 240, 217, 239, 233, 231, 230, 47	99, 63, 70, 29/264, 55, 68, 73, 215, 214, 213/263, 211, 234, 236, 211/365, 235, 237, 238, 261, 240, 217, 239, 233, 231, 230, 47,
मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	2041, 2045, 2060, 2059, 2065, 2075, 2071, 2072, 2076, 2077, 2103, 2102, 2101, 2103/3427	2041, 2045, 2060, 2058, 2065, 2075, 2071, 2072, 2073, 2076, 2077, 2103, 2102, 2101, 2103/3427
मन्दसौर	मन्दसौर	दौलतपुरा	278, 279, 280, 273, 268, 256, 269, 302, 254, 253, 255, 252, 303, 249, 251, 250, 248, 241, 237, 216, 219, 220, 223, 224, 221, 222, 217,	278, 279, 280, 273, 268, 256, 269, 302, 254, 253, 255, 252, 303, 251, 250, 248, 241, 237, 216, 219, 220, 223, 224, 221, 222, 217,
मन्दसौर	मन्दसौर	मुल्तानपुरा	1201, 1202, 1203, 1265, 1216, 1211, 1209, 1210, 1173	1201, 1202, 1203, 1205, 1265, 1216, 1211, 1209, 1210, 1173
मन्दसौर	मन्दसौर	भुनियाखेडी	54, 57, 59, 80, 81, 87, 88, 91, 93, 99, 100, 109, 183, 180, 182, 112, 115, 117, 119, 120, 116, 86, 85, 96	54, 57, 59, 80, 81, 87, 88, 91, 93, 95, 99, 100, 109, 183, 180, 182, 112, 115, 117, 119, 120, 116, 86, 85, 96,
मन्दसौर	मन्दसौर	गुराडिया देदा	1252, 1251, 1249, 1223, 1212, 1217, 1117, 1239, 1237, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1224, 1225, 1221, 1222, 1220, 1250, 604, 611, 605, 610, 607, 606, 617/2, 618, 619, 620, 623, 625, 626, 627, 651, 734, 653, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 731, 732, 1443, 1451, 1444, 1510, 1511, 1512, 1528, 1529, 1530, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1559, 1560, 1568, 1569, 1570, 1576, 1577, 1578, 1579, 1582, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1259, 1258, 1262, 1441, 1442, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1409, 735, 742/4, 742/3, 742/2, 742/1, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 587, 588, 580, 582, 589, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 612, 603	1252, 1251, 1249, 1223, 1212, 1217, 1117, 1239, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1225, 1226, 1221, 1222, 1220, 1250, 611, 610, 607, 606, 617/2, 618, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 627, 651, 653, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 731, 732, 1451, 1449, 1444, 1445, 1510, 1511, 1512, 1513, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1559, 1558, 1560, 1568, 1569, 1570, 1576, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1233, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1259, 1258, 1262, 1440/2, 1441, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1409, 735, 742/4, 742/3, 742/2, 742/1, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 760, 753, 754, 755, 756, 586, 587, 584, 585, 588, 583, 582, 581, 589, 593, 594, 596, 597

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
मन्दसौर	मल्हारगढ़	बोतलगाँव	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 233, 229, 230, 236, 237, 238, 244, 243, 266, 267, 268, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 298, 299, 300, 305, 306, 316, 317, 328, 331, 330, 332, 333, 334/417, 341, 349, 352, 353, 354, 355, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 256	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 233, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 223, 224, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 244, 266, 268, 269/415, 275, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 298, 299, 300, 305, 306, 316, 317, 328, 331, 330, 334/417, 335, 334, 341, 349, 350, 351, 353, 354, 358, 355, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 256
मन्दसौर	मल्हारगढ़	थडौद	82, 79, 78, 77, 76, 427, 262, 414, 433, 452, 453, 495, 496, 497, 511, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 542, 550, 557, 555, 554, 675, 239, 187, 524, 676, 261, 259, 260, 256, 255, 254, 250, 252, 249, 248, 212, 213, 211, 209, 208, 161/2, 160, 156, 157, 158, 88, 89, 90, 84, 83, 153, 86, 87	81, 82, 79, 78, 77, 76, 427, 262, 414, 433, 449, 452, 453, 494, 495, 496, 497, 503, 504, 505, 511, 522, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 542, 544, 543, 548, 545, 550, 551, 552, 558, 557, 555, 554, 675, 239, 187, 164, 524, 676, 259, 260, 257, 256, 255, 254, 252, 253, 249, 248, 212, 213, 214, 211, 210, 209, 208, 261 161/2, 162, 160, 155, 156, 157, 159, 88, 89, 90, 85, 84, 83, 153, 86, 87
मन्दसौर	मल्हारगढ़	बही	1003, 1004, 863, 862, 861, 860, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1191, 1209, 1212, 1214, 1006, 1005, 1013, 1150, 1210, 1211, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1093, 1094, 1126, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142	1003, 1004, 863, 862, 861, 860, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1191, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1209, 1212, 1214, 1006, 1013, 1150, 1007, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1093, 1094, 1126, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141
मन्दसौर	मल्हारगढ़	सौकड़ी	163, 165, 171, 176, 175, 114, 116/2, 117/1, 118, 170, 172, 173	163, 165, 171, 176, 174, 175, 114, 115, 116, 116/2, 118, 170, 172, 173
मन्दसौर	मल्हारगढ़	पिपलीया पंथ	14/1, 16/1, 15/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15/2, 15/3, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 32/1, 30, 31, 32/2/1/1, 32/2/1/2, 32/2/2, 36/2/1, 36/1/1, 36/2/2, 36/5, 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8, 35, 37, 38, 71, 99, 98, 100, 101, 102, 103, 117, 118, 119, 121, 123/1, 123/2, 123/3, 129, 128, 352/1, 352/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/3, 359/1, 350, 348, 346, 347, 345, 344/1, 344/2, 342/1, 328, 327, 325, 321, 319, 318, 315, 316, 314, 312, 253, 214, 215, 212, 213, 210, 211, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 132, 133, 131, 141, 142, 436, 351	14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 17, 19, 18, 30, 32/2/1/1, 32/2/1/2, 32/2/2, 36/2/1, 36/1/1, 34, 36/2/2, 36/5, 36/8, 38, 39, 70, 71, 99, 98, 105/1, 101, 103, 117, 118, 119, 121, 123/1, 123/2, 123/3, 129, 128, 352/1, 352/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/3, 359/1, 350, 348, 346, 345, 344/2, 343, 342/1, 329/1, 328, 327, 325, 321, 319, 318, 315, 316, 314, 312, 253, 214, 215, 211, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 132, 133, 131, 141, 142, 436
मन्दसौर	मल्हारगढ़	खत्या खेडी	230, 229, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 212, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 199, 198, 195, 196, 197, 193, 192, 191, 188, 185, 94, 90, 91, 92, 93, 273, 275, 252, 251, 249, 248, 245, 244, 243, 240, 239, 236, 235, 271, 262, 255, 259, 96/455, 233	230, 229, 235, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 211, 210, 212, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 168, 169, 199, 198, 195, 196, 197, 193, 192, 191, 188, 186, 187, 185, 95, 94, 96, 97, 98, 99, 871, 89, 93, 272, 273, 275, 252, 251, 249, 248, 250, 246, 245, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 271, 262, 255, 259, 96/455
मन्दसौर	मल्हारगढ़	बरखेडा पंथ	307, 169, 170, 172, 171, 176/1/3, 176/1/1, 176/1/2, 236/2, 237, 240, 241, 260, 261, 277, 279/2, 304, 303, 568, 567, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 305, 278, 569, 566, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 589, 706, 704, 703, 709, 711, 721, 722, 723, 725, 724, 1044, 1045, 1046, 1047, 1036, 1034, 1035, 310, 565, 590, 312, 313, 318, 319, 320, 325, 326 327, 335, 339, 346, 347, 348, 352, 355, 350, 359, 360, 361, 525, 526, 527, 528, 557/1, 557/2, 560, 561, 1102, 1104, 710, 308, 309, 336, 337, 338,	307, 169, 170, 172, 173, 176/1/3, 176/1/1, 176/1/2, 236/1, 236/2, 237, 239, 240, 241, 260, 262, 276/2, 277, 271, 279/1, 279/2, 304, 303, 568, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 276/1, 569, 574, 579, 580, 593, 594, 595, 585, 589, 706, 704, 703, 708, 709, 712, 711, 721, 722, 723, 725, 1043, 1044, 1045, 1046, 1036, 1034, 310, 575, 586, 590, 312, 311, 313, 316, 318, 317, 319, 320, 325, 326, 327, 335, 339, 346, 347, 345, 348, 352, 353, 355, 354, 356, 359, 360, 361, 525, 526, 527, 531, 530, 528, 557/1, 557/2, 560, 561, 1104, 1105,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			349, 351, 357, 358, 558, 556, 1100, 1101, 1095, 1078, 1077, 1076, 1074/1, 1067, 1068, 1063, 1064, 1066, 1065, 1061, 1062, 1049, 1050, 1057, 1051, 1052	1106, 1103, 591, 592, 587, 588, 1030, 1028, 308, 337, 357, 358, 558, 1107, 1108, 1100, 1101, 1099, 1095, 1096, 1097, 1098, 1076, 1079, 1075, 1074/1, 1067, 1068, 1063, 1064, 1061, 1062, 1057, 1051, 1052,
मन्दसौर	मल्हारगढ़	सुठौद	24, 27, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 34, 37, 72, 73, 74, 87, 85, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 139, 140, 157, 156, 158, 159, 160, 161, 197, 218, 203, 208, 478, 487, 488, 634, 335, 655, 653, 654, 675, 676, 677, 678, 680, 728, 679/2, 679/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99/829, 652, 631, 196	24, 26, 27, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 36, 35, 37, 72, 73, 74, 87, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 139, 140, 141, 157, 156, 158, 160, 161, 162, 197, 218, 203, 206, 207, 208, 217, 209, 210, 478, 479, 487, 488, 625, 626, 627, 633, 634, 335, 655, 653, 654, 675, 676, 677, 678, 680, 728, 679/2, 679/1, 731, 99/829, 652, 631
मन्दसौर	मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	243/1, 244, 245, 256, 257, 258, 279, 280, 281, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 243/1506, 292, 293, 285, 304, 295, 224, 242, 294, 309, 310, 319, 320, 321, 322, 322/1509, 323, 351, 352, 343, 353, 354, 466, 467, 468, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 518, 519, 1284, 1285, 1288, 1286, 1287, 1293, 541, 1391, 1390, 1389, 1392, 1400, 1408, 1409, 1410, 1443, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1446, 1444, 1447, 1429, 1428, 1477, 747, 742, 741, 737, 736, 735, 727, 726, 770, 716, 668, 667, 651/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 666, 663, 664, 661, 653, 654, 545, 544, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 562, 563, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 576, 579, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1107, 1102, 1101, 1142, 1393, 1394, 1379/1, 1379/2, 1380, 1375, 1381, 1387, 1452, 1467, 1450, 1468, 1470, 1471/1505, 1474, 1476,	243/1, 244, 245, 256, 255, 257, 258, 278, 279, 281, 277, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287, 289, 291, 292, 293, 290, 285, 296, 304, 295, 224, 242, 294, 309, 310, 318/2, 319, 321, 322, 327, 326, 323, 324, 351, 352, 357, 356, 353, 354, 355, 466, 467, 468, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 518, 520, 519, 1284, 1285, 1288, 1286, 1287, 1293, 541, 534, 1391, 1390, 1389, 1392, 1400, 1408, 1409, 1410, 1442, 1443, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1446, 1444, 1447, 1429, 1428, 1477, 747, 742, 741, 737, 738, 736, 735, 727, 726, 725, 724, 717, 718, 770, 716, 668, 667, 651/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 666, 661, 660, 655, 653, 654, 545, 544, 552, 549, 551, 555, 557, 556, 559, 560, 562, 561, 563, 565, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 576, 579, 1096, 1097, 1099, 1100, 1108, 1109, 1107, 1102, 1394, 1379/1, 1379/2, 1380, 1375, 1374, 1381, 1382, 1387, 1451, 1452, 1467, 1450, 1468, 1469, 1470, 1471/1505, 1471, 1473, 1474, 1475
मन्दसौर	मल्हारगढ़	खेरखेड़ा (मोल्याखेड़ी)	391, 393, 421, 422, 422/437, 423, 423/440, 433, 435, 436, 390, 168, 75, 92, 93, 94, 97, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 178, 3, 171, 74, 1, 2, 224, 242	391, 393, 421, 422, 423, 433, 434, 435, 436, 390, 168, 75, 92, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 166, 167, 169, 195, 170, 172, 173, 178, 3, 74, 224, 242
मन्दसौर	मल्हारगढ़	मुन्डली	1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 11/1, 11/2, 16, 12, 13, 15/3, 33, 34, 69, 77, 81, 82, 74, 76, 73, 51, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 14, 167, 159, 157, 153, 158, 152, 150, 151, 149, 108, 98, 95, 91, 92, 148, 128, 102, 100, 99, 94, 84, 171, 83	1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 11/1, 11/2, 16, 15/3, 33, 32, 34, 35, 36, 69, 77, 81, 82, 74, 75, 76, 73, 51, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 14, 31, 169, 167, 159, 157, 153, 152, 151, 149, 108, 98, 95, 91, 92, 148, 136, 128, 101, 102, 84, 171
मन्दसौर	मल्हारगढ़	चन्नेरी	820, 819/1, 826, 818/1, 818/2, 854, 855, 859, 800, 801, 803, 816, 813, 812, 861, 861/1039, 861/1034, 862, 781/1033	820, 819/1, 818/1, 818/2, 854, 855, 859, 800, 801, 803, 816, 813, 812, 861, 861/1039, 861/1034, 862, 781/1033, 817, 860
भीमव	जीरन	चल्दू	806, 808, 804, 813, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 870, 871, 872, 873, 874, 805, 1674, 1812, 1823, 1819, 1821, 1797, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1790, 1786, 1779, 1764, 1765, 1759, 1760, 1758, 809, 803, 802, 791, 790, 778, 783, 1813, 1820, 1775, 904, 953, 954, 955, 956, 964, 965, 966, 980, 989, 981, 990, 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1593, 785, 786, 787, 781, 782, 752, 749, 659, 654,	806, 807, 808, 812, 813, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 857, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 876, 874, 875, 901, 902, 805, 861, 1674, 1812, 1823, 1818, 1819, 1821, 1797, 1791, 1794, 1795, 1796, 1790, 1786, 1780, 1779, 1777, 1764, 1765, 1759, 1760, 1761, 1758, 809, 803, 802, 798, 792, 791, 790, 788, 778, 783, 1813, 1820, 1782, 1775, 959, 903, 904, 953, 954, 956, 964, 997, 998, 999, 965, 966, 980, 979, 982, 989, 983, 981, 990, 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			653, 652, 639, 633, 634, 635, 636, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 391, 392, 390, 388, 385, 389, 384, 315, 1853, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1865, 1863, 1864, 1881, 1902, 1904, 1905, 1906, 1908, 1910, 689, 632, 526, 396, 395, 386, 1824, 1843, 1824, 1852, 1854, 1841, 637, 1822,	1016, 1017, 1018, 1019, 1593, 903, 961, 1000, 785, 786, 787, 781, 782, 780, 779, 752, 750, 749, 659, 658, 656, 661, 662, 653, 664, 649, 650, 638, 639, 640, 641, 642, 633, 635, 636, 651, 399, 400, 401, 402, 403, 391, 392, 390, 380, 388, 381, 385, 384, 315, 1853, 1857, 1858, 1859, 1865, 1863, 1881, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 689, 629, 632, 526, 408, 396, 386, 1824, 1826, 1824, 1852, 1854, 1841
नीमच	जीरन	बरखेडा सांथिया	99, 104, 105, 107, 108, 100, 101, 102, 106, 103	98, 99, 104, 105, 107, 108, 100, 101, 102
नीमच	जीरन	भंवरासा	633, 636, 634, 637, 635, 638, 639, 640, 642, 644, 648, 650, 651, 652, 582, 583, 595, 596, 632, 631, 654, 657, 661, 665, 666, 667, 668, 673	636, 634, 635, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 582, 583, 595, 596, 597, 613, 631, 630, 529, 654, 656, 657, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 673
नीमच	जीरन	खेताखेड़ा जोरिया	65/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 79, 77, 78, 103, 106, 144, 146, 147, 148, 149/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76	65/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 81, 80, 79, 90, 91, 77, 78, 103, 106, 146, 145, 147, 148, 149/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75
नीमच	जीरन	कचौली	270, 273, 274, 275, 276, 347, 345, 382, 383, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 344, 277, 16, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 230, 234, 235, 236, 237, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 305, 325, 326, 332, 333, 336, 337, 338, 340, 341, 343	270, 273, 276, 347, 345, 382, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 15, 16, 17, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 256, 257, 258, 262, 264, 265, 266, 271, 106, 305, 325, 326, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
नीमच	जीरन	भाटखेड़ा	177, 171, 172, 158, 161, 160, 159, 154, 17, 91, 92, 89, 93, 103, 123, 124, 122, 127, 129, 130, 668, 669, 176, 174, 175, 155, 156, 157, 151, 152, 149, 170, 145, 140, 139, 133, 132, 360, 366, 367, 368, 382, 394, 393, 460, 461, 462, 465, 168, 387, 11, 82, 12, 13, 14, 15, 16, 94, 107, 108, 109, 110, 384, 111, 113, 112, 496, 495, 490, 514, 515, 639, 640, 641, 642, 654, 653, 667, 673, 674, 675, 685, 687, 688, 689, 178, 137, 383, 392, 394, 393, 417, 418, 460, 463, 464, 467, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 485, 486, 487, 488, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 690	177, 171, 172, 158, 161, 160, 159, 154, 845, 17, 91, 92, 89, 93, 103, 123, 122, 127, 128, 129, 130, 668, 669, 176, 174, 175, 155, 156, 157, 151, 152, 170, 150, 145, 140, 139, 133, 132, 360, 366, 367, 368, 382, 394, 393, 460, 461, 462, 465, 168, 162, 11, 22, 82, 94, 107, 108, 109, 110, 384, 113, 112, 126, 496, 495, 491, 490, 514, 515, 639, 640, 641, 642, 654, 655, 667, 673, 674, 675, 685, 687, 688, 689, 178, 179, 142, 141, 137, 361, 362, 363, 369, 383, 390, 391, 392, 395, 394, 417, 418, 459, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 482, 483, 484, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701
नीमच	नीमच	सेमली चौधरी	167, 166, 165, 164, 160, 154, 155, 153, 151, 73, 61, 60, 62, 69, 48, 75, 47, 76, 77, 78, 79, 80, 44, 43, 152, 171, 172, 173, 15	167, 166, 165, 164, 160, 154, 155, 153, 73, 61, 60, 62, 71, 69, 48, 75, 47, 76, 77, 78, 79, 80, 44, 43, 68, 70, 59, 81, 150, 141, 142, 156, 171, 172, 173, 163, 15
नीमच	नीमच	बरखेडा हांडा	314, 313, 312, 318, 342, 339, 340, 357, 358, 386, 385, 388, 390, 403, 206, 201, 199, 196, 197, 183, 186, 315, 316, 317, 341, 351, 356, 359, 379, 404, 387, 390/434, 200, 193, 185, 194, 184, 195	314, 313, 311, 312, 318, 320, 321, 342, 339, 338, 340, 336, 357, 358, 386, 385, 384, 388, 390, 403, 220, 219, 208, 207, 206, 201, 199, 196, 197, 182, 186, 315, 316, 317, 343, 341, 351, 355, 356, 359, 360, 379, 404, 387, 390/434, 391, 200, 193, 192, 191, 185

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
नीमच	नीमच	चौधखेड़ा	397, 398, 396, 424, 425, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 477, 480, 479, 537, 572, 571, 570, 568, 538, 576, 634, 633, 635, 631, 630, 625, 651, 653, 654, 518, 400, 399, 418, 441, 440, 436, 437, 438, 435, 471, 473, 474, 478, 636, 639, 640, 649, 650, 652, 403, 442, 419, 427	397, 398, 396, 424, 425, 445, 446, 447, 449, 450, 477, 480, 479, 537, 535, 572, 571, 570, 568, 538, 576, 634, 633, 635, 631, 630, 625, 624, 651, 653, 654, 518, 400, 399, 418, 417, 421, 441, 440, 436, 437, 438, 434, 435, 471, 473, 474, 478, 637, 636, 639, 640, 648, 649, 650, 652, 403, 442, 419, 427, 569, 567
नीमच	नीमच	रावतखेड़ा	221, 221/468, 224, 319, 323, 325, 327, 328, 341, 342, 343, 463, 455, 456, 458, 459, 324, 460, 462, 461	221, 224, 319, 323, 325, 327, 328, 341, 342, 343, 463, 455, 456, 458, 459, 324, 326, 460, 462, 461
नीमच	नीमच	दुलाखेड़ा	1, 2, 8, 7, 6, 15, 17, 19, 9, 11, 13, 14, 22, 18, 21, 39, 40, 44, 225/1, 225/2, 310	1, 2, 8, 7, 3, 6, 15, 16, 17, 19, 9, 10, 11, 13, 22, 21, 39, 40, 44, 89, 225/2, 310
नीमच	नीमच	जेतपुरा	3, 6, 7, 8, 24, 19, 20, 18, 16, 17, 26, 41, 34, 33, 35, 46, 47, 48, 49, 51, 10, 5, 38, 38/55, 37, 45, 52, 53, 31	3, 6, 7, 8, 24, 20, 18, 16, 17, 26, 41, 33, 35, 46, 48, 49, 51, 10, 5, 23, 21, 25, 22, 38, 36, 32, 45, 30, 52, 53, 31
नीमच	नीमच	मालखेड़ा	1043, 1042, 1041, 1051, 1050, 1057, 1078, 1077, 1076, 1082, 1083, 1084, 1031, 1126, 1119, 1120, 1121, 1114, 1115, 1109, 1108, 905, 990, 888, 887, 855, 853, 854, 842, 843, 851, 849, 848, 847, 1316, 1317, 1320, 1319, 1339, 1375, 1378, 1379, 1383, 1382, 1397, 1398, 1400, 1402, 96, 97, 1040, 1053, 1052, 1054, 1059, 1074, 1075, 1085, 1097, 1125, 1122, 1123, 1112, 1110, 1107, 908, 909, 841, 855, 844, 1318, 1362, 1373, 1374, 1376, 1377, 1381, 1519, 1520, 1522, 1523, 1399, 1401, 1403, 1521, 1524, 1525,	1043, 1042, 1041, 1051, 1050, 1057, 1078, 1080, 1076, 1082, 1083, 1084, 1031, 1126, 1119, 1120, 1118, 1121, 1114, 1117, 1115, 1109, 1108, 905, 990, 889, 888, 887, 855, 853, 854, 842, 843, 851, 849, 848, 847, 850, 1316, 1317, 1320, 1319, 1339, 1375, 1378, 1379, 1383, 1382, 1397, 1398, 1400, 1402, 96, 97, 98, 1038, 1039, 1040, 1053, 1052, 1054, 1056, 1059, 1074, 1075, 1085, 1097, 1125, 1122, 1123, 1113, 1112, 1110, 1111, 1107, 907, 908, 909, 841, 840, 855, 1359, 844, 846, 1318, 1362, 1373, 1374, 1376, 1377, 1381, 1519, 1520, 1522, 1523, 1401, 1403, 1521, 1524, 1525,
नीमच	नीमच	बरुखेड़ा	265, 281, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 296, 314, 312, 313, 303, 311, 347, 350, 351, 352, 336, 356, 370, 371, 393, 408, 407, 403, 400, 398, 632, 284, 302, 309, 372, 637, 636, 634, 631, 640, 641, 642, 643, 644, 655, 1217, 1219, 1220, 1235, 1226, 266, 267, 279, 278, 277, 289, 295, 315, 645, 1237, 310, 307, 304, 308, 309, 345, 346, 353, 354, 355, 358, 366, 405, 406, 409, 404, 621, 624, 633, 635, 646, 626, 630, 629, 647, 654, 653, 575, 572, 1221, 1232, 1224, 1225	265, 281, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 297, 314, 312, 313, 303, 347, 350, 351, 352, 336, 356, 370, 371, 393, 408, 400, 399, 398, 632, 697, 284, 302, 299, 372, 637, 636, 634, 639, 631, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 655, 1217, 1218, 1219, 1220, 1235, 1226, 266, 267, 278, 277, 289, 290, 295, 315, 1237, 317, 318, 319, 310, 307, 306, 304, 308, 345, 346, 362, 353, 354, 355, 359, 358, 366, 405, 406, 409, 410, 411, 417, 404, 621, 620, 619, 624, 633, 635, 646, 626, 630, 629, 647, 654, 575, 572, 1221, 1232, 1224, 1225
नीमच	नीमच	भरमडीया	1983, 1984, 1985, 2302, 2303, 2304, 2297, 2295, 2292, 2716, 2717, 2718, 2733, 2731/2, 2860, 2859, 2858, 2857, 2862, 2878, 2879, 2880, 2846, 2882, 2300, 2299, 2298, 2284, 2294, 2293, 2285, 2286, 2290, 2288, 2287, 2719, 2720, 2732, 2731/1, 2729, 2728, 2727, 2726, 2861, 2873, 2876, 2877, 2909/1, 2434, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2428/4, 2881, 2886, 2887, 2451, 2452, 2453, 2440, 2441, 2439, 2435, 2430, 2426, 2425, 2423, 2421, 2417, 2416, 1092, 1093, 1094, 2883, 2447, 2878/1, 1095, 1098, 1099, 1104, 1112, 1113/1, 1113/2, 1116, 1118, 1139, 1160, 1159, 1158, 1170, 1171, 1172, 1174, 2316, 1976, 1119, 1120, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 1002/1, 1002/2, 2428, 1003, 1004/2, 1005, 1085, 1089, 1087, 1091, 1097, 1106, 1105, 1111, 1110, 1126, 1123, 1096, 1090, 1124, 1121, 1122, 1143, 1142, 1149, 1146, 1150,	1983, 1984, 1985, 2303, 2305, 2297, 845, 2295, 2716, 2717, 2718, 2733, 2731/2, 2766, 2714, 2715, 2860, 2859, 2856, 2857, 2862, 2878, 2879, 2880, 2846, 2882, 2301, 2734, 2300, 2279, 2299, 2280, 2298, 2284, 2294, 2285, 2286, 2288, 2287, 2719, 2720, 2732, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2861, 2872, 2873, 2874, 2876, 2877, 2909/1, 2909/2, 2908/1, 2881, 2886, 2887, 2451, 2454, 2441, 2442, 2439, 2435, 2430, 2426, 2425, 2423, 2421, 2420, 2418, 2417, 2415, 2416, 1092, 2410, 2883, 2885, 2447, 2409, 2407, 2406, 1099, 1100, 1104, 1103, 1102, 1116, 1118, 1162, 1160, 1161, 1159, 1169, 1158, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 2316, 1976, 1979, 1022, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 1002/1, 1002/2, 1003, 1004/2, 1004/1, 1005, 1086, 1089, 1087, 1088, 1091, 1106, 1107, 1105, 1111, 1108, 1110, 1126, 1123, 2448, 2449, 2450, 1006, 1124, 1125, 1137, 1121, 1122, 1138, 1142, 1149, 1150, 1151, 1152,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			1151, 1157, 1156, 1155, 1154, 1177, 1977, 1978, 1983, 1984, 2855, 2299, 1985, 1140, 1144, 1145	1157, 1156, 1155, 1154, 1177, 1977
नीमच	नीमच	खूंगलावदा	7, 42, 43, 39, 126, 139, 133, 5, 11, 19, 17, 36, 41, 40, 143, 142, 15, 140, 132, 2, 15, 16, 37, 38, 141, 136,	6, 7, 48, 42, 43, 39, 126, 139, 133, 11, 19, 17, 36, 41, 40, 143, 142, 15, 140, 132, 131, 13, 14, 49, 37, 38, 141, 136
नीमच	नीमच	चन्नेश	111, 110, 109, 151, 150, 149, 148, 159, 147, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 142, 116/1, 143, 144, 145, 140, 160, 163, 146, 135, 120,	111, 110, 109, 151, 150, 149, 148, 159, 142, 116/1, 116/2, 143, 144, 145, 140, 139, 160, 163, 117, 135, 120
नीमच	नीमच	सगराना	651, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 736, 737, 738, 762, 763, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 674/1093, 764, 79, 80, 81, 92, 91, 90, 82, 102, 103, 335, 771, 770, 768, 816, 817, 818, 833, 832, 834, 835, 836, 837, 97, 98, 778, 767, 765, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1036, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1050, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1082, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089, 1090, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 77, 355, 358, 359, 360, 377, 380, 381, 382, 384, 642, 643, 647, 648, 649, 650, 11, 76, 382, 354	651, 652, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 845, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 735, 736, 737, 738, 762, 763, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 657, 79, 80, 81, 92, 86, 91, 89, 90, 82, 96, 102, 101, 103, 335, 771, 772, 774, 770, 768, 816, 817, 818, 833, 832, 831, 834, 835, 836, 837, 97, 98, 778, 767, 765, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1050, 1055, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1082, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089, 1090, 849, 1040, 1085, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 77, 355, 357, 356, 358, 359, 360, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 641, 642, 643, 647, 650, 11, 76, 382, 354
नीमच	नीमच	धसुन्डी	633, 635, 634, 645, 639, 641, 644, 646, 636, 637, 653, 638	633, 635, 634, 645, 640, 639, 641, 644, 636, 637, 653, 627
नीमच	जावद	कानका	302, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 258, 270, 272, 300, 273, 341, 340, 321, 320, 319, 364, 303, 309, 269, 342, 301, 318	302, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 267, 268, 270, 271, 272, 300, 273, 338, 340, 339, 321, 322, 320, 319, 364, 303, 309, 299, 342, 333, 331, 330, 327, 301, 318, 337
नीमच	जावद	केशरपुरा	1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1151, 1152, 1153, 1154, 1255, 1155, 1251, 1254, 1148, 1149, 1145, 1142, 1139, 1138, 1137, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1076/2, 1256, 1140, 1090, 1094, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 876, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 940, 941, 942, 943, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 967, 968, 969, 970, 976, 939, 977/1, 977/2, 977/3, 977/4, 1064, 1065, 1067, 1066,	1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1151, 1152, 1154, 1255, 1155, 1251, 1252, 1253, 1254, 1148, 1149, 1145, 1141, 1142, 1139, 1136, 1138, 1137, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1256, 1140, 1090, 1094, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 876, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 940, 941, 942, 943, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 967, 968, 969, 970, 976, 939, 977/1, 977/2, 977/3, 1064, 1062, 1060, 1059, 1065, 1067, 978, 1066,
नीमच	जावद	नयागाँव	1669, 1670, 1674, 1668, 1673, 1675, 1676, 1687, 1686, 1694, 1692, 1689, 1688, 1690, 1691, 1699, 1701, 1704, 1702, 1708, 1707, 1705, 1703, 1750, 1749, 1748, 1756, 1742, 1860, 1866, 1870, 1871, 1872, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1655, 1665, 1666, 1667, 1664, 1663, 1661, 1662, 1642, 1640, 1637, 1696, 1604, 1601, 1602, 1603, 1600, 1593, 1592, 1566, 1565, 1547, 1546, 1545, 1541, 1539, 1540, 1538, 1537, 1512, 1510, 1509, 1508, 70, 71, 72, 63, 64, 62, 56, 276, 277,	1669, 1670, 1674, 1668, 1673, 1675, 1676, 1687, 1686, 1694, 1692, 1689, 1690, 1691, 1699, 1701, 1704, 1702, 1708, 1707, 1705, 1750, 1749, 1748, 1756, 1754, 1753, 1742, 1860, 1866, 1870, 1871, 1872, 1883, 1885, 1884, 1886, 1887, 1889, 1655, 1665, 1667, 1664, 1663, 1661, 1662, 1643, 1644, 1642, 1640, 1636, 1637, 1635, 1696, 1604, 1602, 1603, 1600, 1593, 1592, 1566, 1564, 1565, 1547, 1546, 1545, 1541, 1542, 1539, 1538, 1537, 1512, 1513, 1510, 1509, 1508, 70, 71, 72, 63, 64, 62, 56, 276, 277, 252, 265, 273, 272, 271, 269, 262,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			252, 265, 274, 275, 273, 272, 271, 262, 260, 261, 259, 258, 1890, 1887, 1864, 1506, 1507, 292, 291, 289, 286, 285, 283, 284, 279, 281, 280, 46, 47, 48, 58, 50, 73, 76, 79, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	260, 261, 259, 257, 258, 1890, 1887, 1864, 1506, 1507, 292, 291, 289, 288, 286, 285, 284, 279, 282, 281, 46, 45, 47, 48, 58, 50, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

III)

"खण्ड —अ"

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	संपूर्ण मार्ग की लंबाई (किमी. में)	मार्ग में आने वाले जिले
1	इन्दौर-उज्जैन फोरलेन एस.एच. क्र.-27	48.900	इन्दौर-उज्जैन

"खण्ड — ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

इन्दौर	सांवेर	भंवरासला	1/1 ख, 12/2, 13, 14/1/1, 14/2, 15/2, 15/1/2, 15/1/3, 16, 17, , 21, 148, 147, 141, 140, 135, 125/1/1, 124, 149, 150/2, 181/1/1 ग, 181/1/1 ख, 181/1/1 क, 180/1/1 , 150/3, 150/1 क, 150/1 ख, 179, 177/1, 154/1, 151, 156, 125/1/2, 159/2/1, 159/1/2, 159/1/2/3, 159/1, 191, 213/1, 157/1, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 1/1, 1/2/3, 1/2/2, 1/2/1, 170, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 112/1/2/1, 112/1/2/2, 104, 201/2, 201/2/1, 201/3, 149, 200/1/2/4, 196/2, 196/3/2 क, 196/1/3, 196/1/1, 196/1/2, 196/3/1 ख, 195, 201/1, 202/2 क, 200/4, 200/2 ख, 200/1/2/5, 200/1/2/3, 200/1/2/4, 196/3/1 क, 196/3/1 ख, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 112/1/1, 112/1/2, 112/1/3, 112/2, 110, 110/2 ख.	1/1 ख, 12/2, 13, 14/1/1, , 14/2, 15/2, 15/1/2, 15/1/3, 16, 17, , 19, 20, 21, 148, 147, 141, 140, 136/1, 135, 134, 125/1/1, 124, 149, 150/2, 181/1/1 ग, 181/1/1 ख, 181/1/1 क, , 180/1/1 , 179, 177/1, 154/1, 151, 156, 125/1/2, 159/2/1, 159/1/2, 159/1/2/3, 159/1, 157/2, 191, 213/1, 157/1, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 1/1, 1/2/3, 1/2/2, 1/2/1, 170, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 112/1/2/1, 112/1/2/2, 104, 201/2, 201/2/1, 201/3, 200/1/2/4, 196/2, 196/3/2 क, 196/1/3, 196/1/1, 196/1/2, 196/3/1 ख, 195, 201/1, 202/2 क, 200/4, 200/2 ख, 200/1/2/5, 200/1/2/3, 200/1/2/4, 196/3/1 क, 196/3/1 ख, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 112/1/1, 112/1/2, 112/1/3, 112/2, 110, 110/2 ख.
इन्दौर	सांवेर	जाख्या	4/1/1, 4/2/1, 4/1/2, 5/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3, 6/2/1 ख, 6/1/1 क/1/1, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/1 ग, 6/1/1 ख, 28/2/1, 28/2/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1/1, 38/1/2, 42/1, 43/1/1, 44/1/1, 44/1/3, 44/2, 45/1/1, 45/2/1, 45/1/2, 46, 4/1/3, 4/1/4, 6/1/1 /क, 42/2, 43/1/2, 42/3, 43/1/3, 44/3, 24, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/5 मि-1, 2/2/1, 2/2 मि-1 , 2/2 मि-2, 2/2 मि-3, 2/2 मि-4, 2/2 मि-5, 2/2 मि-6, 2/2 मि-7, 2/2 मि-8, 2/2 मि-9, 2/2 मि-10, 2/2 मि-11	4/1/1, 4/2/1, 4/1/2, 5/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 6/2/1 ख, 6/1/1 क/1/1, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/1 ग, 6/1/1 ख, 28/2/1, 28/2/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1/1, 38/1/2, 42/1, 43/1/1, 44/1/1, 44/1/3, 44/2, 45/1/1, 45/2/1, 45/1/2, 46, 4/1/3, 4/1/4, 6/1/1 घ, 42/2, 43/1/2, 42/3, 43/1/3, 44/3, 24, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/5 मि-1, 2/2/1, 2/2 मि-1 , 2/2 मि-2, 2/2 मि-3, 2/2 मि-4, 2/2 मि-5, 2/2 मि-6, 2/2 मि-7, 2/2 मि-8, 2/2 मि-9, 2/2 मि-10, 2/2 मि-11
इन्दौर	सांवेर	बाशेली	23/1, 23/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 13, 17/2, , 14/1, 14/2, 80/2, , 79, , 155, 130/3/1, 129, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 176/1/1 क, 176/1/1 ख, 174, 175/1, 173, 172/1/1, 172/1/2, 172/1/3, 172/2/1/1, 172/2/1/2/1, 172/2/1/2/2, 172/2/1/3, 172/2/1/4, 172/2 मि-1, 169, 168, 167, 165, 130/3/2, 130/4/1, 130/4/2/1, 130/4/2/2, 130/5/1, 130/5/2, 164, 163, 160/1/1, 160/1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 160/1/1, 76, 25/5/2, 25/5/1, 25/2/2, 25/2/1, 25/1/1, 25/1/2, 24/1,	23/1, 23/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 13, 17/2, 16, 15/1, 15/2/1, 15/2/2/2, 14/1, 14/2, 11/1, 80/1, 82, , , 146/1, 130/3/1, 129, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 176/1/1 क, 176/1/1 ख, 174, 175/1, 173, 172/1/1, 172/1/2, 172/1/3, 172/2/1/1, 172/2/1/2/1, 172/2/1/2/2, 172/2/1/3, 172/2/1/4, 172/2 मि-1, 171, 169, 166, 167, 165, 130/3/2, 130/4/1, 130/4/2/1, 130/4/2/2, 130/5/1, 130/5/2, 164, 163, 160/1/1, 160/1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 160/1/1, 76 , 25/5/2, 25/5/1, 25/2/2, 25/2/1, 25/1/1, 25/1/2, 24/1, 24/2,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			24/2, 176/1/2, 25/2, 25/3, 25/5, 25/6/1, 77, 18/1, 18/2, 18/3, 10/1/1, 10/1/2, 10/2/1 क, 10/2/2, 10/2/2 ख, 10/2/3, 75/1/1, 75/1/2, 75/2, 155,	176/1/2, 25/2, 25/3, 25/5, 25/6/1, 77, 18/1, 18/2, 18/3, 10/1/1, 10/1/2, 10/2/1 क, 10/2/2, 10/2/2 ख, 10/2/3
इन्दौर	सावेर	पंचडेरिया	5/287, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/5/1, 5/5/2, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 7/2, 7/6, 46/1/1/2/ख, 46/1/5, 46/1/2/1 क, 46/1/1 ख, 46/2/1/2/1 ख, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/4, 53/5, 57, 52/1, 52/2, 51/2, 51/1, 51/3, 51/275/1, 50/1/3/1, 50/1/3/4, 50/1/3/3, 50/1/3/2, 50/1/2, 46/1/2/3 क, 46/1/2/3 ख, 46/1/3/2, 5/6/6	5/287, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/5/1, 5/5/2, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 7/2, 7/5, 7/4, 7/6, 46/1/1/2/ख, 46/1/5, 46/1/2/1 क, 46/1/1 ख, 46/2/1/2/1 ख, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/4, 53/5, 57, 51/2, 51/1, 51/3, 51/275/1, 50/1/3/1, 50/1/3/4, 50/1/3/3, 50/1/3/2, 50/1/2, 46/1/2/3 क, 46/1/2/3 ख, 46/1/3/2, 5/6/6
इन्दौर	सावेर	रिंगनोदिया	181, 182/1, 182/2, 182/2/1, 182/2/2, 182/3, 185/1, 185/2/1, 185/2/2, 185/3, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189/1, 169/1, 169/2/1, 169/2/2, 170/1/1, 170/1/2, 173, 171/1, 171/2/1, 171/2/2, 172/3, 172/3 नि-1, 172/3 नि-2, 179, 181, 190, 189, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2	181, 182/1, 182/2, 182/2/1, 182/2/2, 182/3, 185/1, 185/2/1, 185/2/2, 185/3, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189/1, 169/1, 169/2/1, 169/2/2, 170/1/1, 170/1/2, 173, 171/1, 171/2/2, 172/3, 172/3 नि-1, 172/3 नि-2, 179, 189, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2
इन्दौर	इन्दौर	बड़ोदिया ऐमा	98, 104/2, 104/1, 104/3, 104/1/2, 105/3, 105/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/3/1, 112/4, 112/5, 112/7, 113, 117/3, 117/4, 117/2, 117/6, 117/5, 117/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 114/1/15, 114/1/14, 114/1/13, 114/1/12, 114/1/1, 114/1/10, 114/1, 114/1/9, 114/1/8, 114/1/7, 114/1/6, 114/1/5, 114/3/10, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15, 116/1	98, 104/2, 104/1, 104/3, 104/1/2, 105/3, 105/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/3/1, 112/4, 112/5, 112/7, 117/3, 117/4, 117/2, 117/6, 117/5, 117/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 114/1/15, 114/1/14, 114/1/13, 114/1/12, 114/1/1, 114/1/10, 114/1, 114/1/9, 114/1/8, 114/1/7, 114/1/6, 114/1/5, 114/3/10, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15
इन्दौर	सावेर	जेतपुरा सोलसिन्दा	347/1, 347/2, 323/1, 323/9, 323/5, 323/3, 323/4, 322/2, 322/1, 321, 320, 319, 318, 318/439/1, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1, 318, 439/2, 429/2/2, 429/2/1, 429/2/3, 429/1, 84/2, 84/4, 84/5, 107/198/2/2, 109/5/1/1, 109/198/2/1, 111/6, 7, 8, 32/1, 10/1, 83, 84/1, 84/3, 107/198/1, 424, 425, 426, 427, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 109/1, 109/2, 107/1/2, 107/2, 109/4, 109/7, 107/197/1, 109/5/2, 5/1/2, 81/1, 81/2, 89/6, 87, 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 89/2/1, 89/2/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 104/1, 104/2, 108, 109/5/1, 323, 324, 325, 326, 88, 90/1, 90/2, 92/1/1, 92/1/2, 92/1/3, 92/2, 111/12, 111/8, 423/1, 424/1, 425/1, 423/2, 423/3, 423/4, 106, 105/1, 105/2,	347/1, 347/2, 323/1, 323/9, 323/5, 323/3, 323/4, 322/2, 322/1, 321, 320, 319, 318, 318/439/1, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1, 318, 439/2, 429/2/2, 429/2/1, 429/2/3, 429/1, 84/2, 84/4, 84/5, 107/198/2/2, 109/5/1/1, 109/198/2/1, 111/6, 7, 8, 32/1, 10/1, 83, 84/1, 84/3, 107/198/1, 424, 425, 109/1, 109/2, 107/1/2, 107/2, 109/4, 109/7, 107/197/1, 109/5/2, 5/1/2, 81/1, 81/2, 89/6, 87, 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 89/2/1, 89/2/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 104/1, 104/2, 108, 109/5/1, 91, 323, 324, 325, 326, 88, 90/1, 90/2, 92/1/1, 92/1/2, 92/1/3, 92/2, 103, 111/12, 111/8, 423/1, 424/1, 425/1, 423/2, 423/3, 423/4, 106, 105/1, 105/2
इन्दौर	सावेर	राजोदा	---	282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 286/1, 285, 284, 353, 352, 354, 355, 356/1, 356/2, 356/3, 356/6, 373/394, 370, 372/1, 368, 358/1, 358/2, 360/2, 362/1, 356/365, 325, 323, 324, 322, 311/5, 311/4, 311/3, 311/2, 311/1, 310, 309/1, 309/2, 379/3, 361, 367, 371/1, 371/2, 373/394/1, 373/394/2, 379/1, 377/1, 377/2, 374, 373/2/3, 373/3, 373/4, 373/394/3, 376, 375,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
इन्दौर	सावेर	सिलोवा	133/1/2, 129, 127/2, 127/1, 126, 119, 120, 107, 106, 108, 109, 105/1, 105/2, 104, 111, 103/1, 103/2, 103/3, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1	133/1/2, 127/2, 127/1, 126, 120, 107, 106, 105/1, 105/2, 104, 103/1, 103/2, 103/3, 101/1/1/1, 101/1/1/2, 101/2, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1
इन्दौर	सावेर	तराना	115/1, 115/2, 116/4, 116/1/1, 116/1/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 123/3, 123/4, 123/4/2, 123/5/1, 123/5/2, 123/6/1, 123/6/2, 122, 125/6, 125/9, 125/10/1, 125/10/2, 125/11/1, 125/11/2, 125/7/1, 125/7/2, 125/2/1, 125/2/2, 125/1, 126/1, 126/2/1, 126/2/2, 130, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 185/1, 185/2, 1/1/1, 1/1/2, 1/2/1, 1/2/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 124, 180/1/1, 180/1/2/1, 180/1/2/2, 180/1/3, 180/1/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 179/1, 179/2, 178, 176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/3, 174/1, 174/1/1, 174/1/2, 174/2, 174/3/1, 174/3/2, 174/4, 174/5/1, 174/5/2, 172, 173, 257/1/1/1, 256/1/2/1, 257/1/1/2, 256/1/2/2, 257/1/2, 257/2/1, 257/2/2, 257/2/3, 257/3/1, 257/3/2, 257/4/1, 257/4/2, 257/5/2, 257/6/1, 257/6/2, 257/6/3, 257/5/1, 256/1/1, 256/1/2, 256/2/1, 256/2/2/1, 256/2/2/2, 256/2/2/3, 256/3/1, 256/3/2/1, 256/3/2/2, 255/1/1, 255/1/2, 255/2/1, 255/2/2, 255/3/1, 255/3/2, 255/4/1, 255/4/2, 255/5/1, 255/5/3, 255/5/4, 255/5/5/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 252/1/1, 252/1/2, 252/2/1/1, 252/2/1/2, 252/2/2, 252/3/1, 252/3/2, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 226, 227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3, 204/2/1, 204/2/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/3/1, 206/3/2, 206/3/3, 207, 253	115/1, 115/2, 116/4, 116/1/1, 116/1/2, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2, 123/3, 123/4, 123/4/2, 123/5/1, 123/5/2, 123/6/1, 123/6/2, 122, 125/6, 125/9, 125/10/1, 125/10/2, 125/11/1, 125/11/2, 125/7/1, 125/7/2, 125/2/1, 125/2/2, 125/1, 126/1, 126/2/1, 126/2/2, 130, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 185/1, 185/2, 1/1/1, 1/1/2, 1/2/1, 1/2/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 181, 180/1/1, 180/1/2/1, 180/1/2/2, 180/1/3, 180/1/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 178, 176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/3, 174/1, 174/1/1, 174/1/2, 174/2, 174/3/1, 174/3/2, 174/4, 174/5/1, 174/5/2, 172, -, 257/1/1/1, 256/1/2/1, 257/1/1/2, 256/1/2/2, 257/1/2, 257/2/1, 257/2/2, 257/2/3, 257/3/1, 257/3/2, 257/4/1, 257/4/2, 257/5/2, 257/6/1, 257/6/2, 257/6/3, 257/5/1, 256/1/1, 256/1/2, 256/2/1, 256/2/2/1, 256/2/2/2, 256/2/2/3, 256/3/1, 256/3/2/1, 256/3/2/2, 255/1/1, 255/1/2, 255/2/1, 255/2/2, 255/3/1, 255/3/2, 255/4/1, 255/4/2, 255/5/1, 255/5/3, 255/5/4, 255/5/5/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 252/1/1, 252/1/2, 252/2/1/1, 252/2/1/2, 252/2/2, 252/3/1, 252/3/2, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 226, 227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3, 204/2/1, 204/2/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/3/1, 206/3/2, 206/3/3, 207, 253
इन्दौर	सावेर	कजलाना	1, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3/2, 121/3/1, 121/4, 121/5, 121/6, 122, 120, 121/7, 121/8, 152, 142, 126, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 151, 152/1, 152/2, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 174, 175	1, 2, 3/1, 3/1/1, 4/1/1, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 121/1, 121/2, 121/3/2, 121/3/1, 121/4, 121/5, 120, 121/7, 121/8, 152, 208/6, 142, 141, 126, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 156, 159, 160, 164, 161, 162, 163, 172, 174, 175
इन्दौर	सावेर	लखमन खेड़ी	172, 177, 176/1, 184, 173/220, 175, 173, 174, 173/2/9, 176/2	172, 177, 176/1, 184, 173/220, 174, 173/2/9, 176/2

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 76 मीटर दोनों ओर)
इन्दौर	साँवर	कस्बा साँवर	806, 807, 805/1, 799/2, 800/2, 875, 801, 803, 801/1, 80/2, 811, 816/1, 816/2, 817, 818/1, 818/2, 828/2/1, 828/1/2/2, 828/2, 828/3, 833/1, 833/2, 833/3, 852/2, 891, 891/6, 718/6/2, 717, 714/1, 715/1, 715/2, 716/1, 714/1, 715/2, 716/2, 715/1, 714/1/1, 714/2/1, 695/1, 695/3, 696/2, 696/3, 694/2, 872, 873, 874/1, 695/2, 874/2, 876/1, 873, 876 पैकि, 876/1 पैकि, 876/1 पैकि, 696/1/2, 876/1/3, 876/2, 876/4, 876/5, 876/6, 876/7, 876/8, 876/9, 876/10, 877, 812, 797/1/2, 797/2/1, 792/2/1, 792/2/2, 797/2/3/1, 797/2/3/2, 837/1/1, 837/1/2, 837/3/1, 834/1/1, 834/1/2, 834/2, 834/890, 834/890/1, 869/1/1, 869/1/2, 869/2/1, 869/2/2, 870/1, 870/2/1, 870/2/2, 868/1, 713/1, 713/2, 852/1/1, 852/1/2, 851/891/2/1, 851/891/2/2, 851/891/4, 851/891/5, 851/891/6, 819	806, 807, 805/1, 799/2, 800/2, 875, 801, 803, 801/1, 80/2, 811, 816/1, 816/2, 817, 818/1, 818/2, 828/2/1, 828/1/2/2, 828/2, 828/3, 833/1, 833/2, 833/3, 852/2, 891, 891/6, 718/6/2, 717, 714/1, 715/1, 715/2, 716/1, 714/1, 715/2, 716/2, 715/1, 714/1/1, 714/2/1, 695/1, 695/3, 696/2, 696/3, 694/2, 872, 873, 695/2, 812, 804/1, 804/2, 798, 786, 794, 795, 797/1/2, 797/2/1, 792/2/1, 792/2/2, 797/2/3/1, 797/2/3/2, 855, 856, 837/1/1, 837/1/2, 837/3/1, 834/1/1, 834/1/2, 834/2, 834/890, 834/890/1, 697, 869/1/1, 869/1/2, 869/2/1, 869/2/2, 870/1, 870/2/1, 870/2/2, 868/1, 713/1, 713/2, 852/1/1, 852/1/2, 851/891/2/2, 851/891/4, 851/891/5, 851/891/6, 819
इन्दौर	साँवर	साँवर	70/2, 82, 83/1, 84/2, 81/1, 81/2, 81/2/2, 84/1/1/1, 84/1/1/2, 84/1/3/1, 84/1/3/2, 86/1, 90/1, 90/2, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 95/1/1, 95/1/3, 95/1/1/1, 95/1/1 मि-1, 95/1/1 मि-2, 95/1/2, 95/1/4, 95/2/1, 95/2/2, 93/1, 84/1, 93/2, 94/2, 93/3, 94/3, 93/4, 94/4, 93/5, 94/5, 93/6, 94/6, 94/4 मि-1, 94/5 मि-2, 110/1/1/1, 110/1/1/2, 110/1/2/1, 110/1/2/2, 109/2/3/1, 109/2/3/2, 109/2/4/1, 109/2/4/2, 127, 240, 206/1, 206/2, 205/1, 207/1, 208/1, 205/2, 207/2, 208/2, 209/1/2/1, 209/1/2/2, 225, 224/1, 224/2, 222/1, 222/2, 220/1/1, 220/1/2, 219/1, 228, 215/1, 215/2, 216/3/1, 216/3/2, 216/3 मि-1, 216/3 मि-2, 216/3 मि-3, 216/3 मि-4, 216/3 मि-5, 217/1, 218, 217/2, 374, 358/1/2, 373/1, 373/2, 359/2/4, 359/3/1, 359/3/2, 357/1, 357/2, 360/1/1, 360/1/2, 360/2/1/1, 360/2/1/2, 360/2/1/3, 360/2/1/4, 360/2/2, 360/2/3, 360/3/1, 360/3/2, 363/1, 363/2, 343/1, 343/3/1, 343/3/2, 343/3/3, 364/1/1, 364/1/2/1, 364/4/2/1, 364/1/2/2, 364/4/2/2, 364/1/2/2 मि-1, 364/1/2/2 मि-2, 364/1/2/2 मि-3, 364/4/2/2/9903, 364/1/2/3, 364/1/3, 364/1/4, 364/4/1, 364/1/5, 364/4/5, 340/3/1, 340/3/2, 342/1, 342/2/1, 342/2/2, 342/3, 341/1/1, 341/1/2, 341/1/3, 341/2, 340/426, 70/2	70/2, 82, 83/1, 84/2, 84/1/1/1, 84/1/1/2, 84/1/3/1, 84/1/3/2, 86/1, 91/3/1, 91/3/2, 91/3 मि-1, 91/3 मि-2, 91/3 मि-3, 85/1/1/1, 85/1/1/2, 85/1/2, 85/2, 85/3, 85/4, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 95/1/1, 95/1/3, 95/1/1/1, 95/1/1 मि-1, 95/1/1 मि-2, 95/1/2, 95/1/4, 95/2/1, 95/2/2, 93/1, 84/1, 93/2, 94/2, 93/3, 94/3, 93/4, 94/4, 93/5, 94/5, 93/6, 94/6, 94/4 मि-1, 94/5 मि-2, 107, 110/1/1/1, 110/1/1/2, 110/1/2/1, 110/1/2/2, 109/2/3/1, 109/2/3/2, 109/2/4/1, 109/2/4/2, 127, 240, 206/1, 206/2, 204, 205/1, 207/1, 208/1, 205/2, 207/2, 208/2, 209/1/2/1, 209/1/2/2, 225, 224/1, 224/2, 223, 221/2, 222/1, 222/2, 220/1/1, 220/1/2, 219/1, 228, 215/1, 215/2, 216/3/1, 216/3/2, 216/3 मि-1, 216/3 मि-2, 216/3 मि-3, 216/3 मि-4, 216/3 मि-5, 217/1, 218, 217/2, 216/2, 374, 358/1/2, 358/2, 373/1, 373/2, 359/2/4, 359/3/1, 359/3/2, 357/1, 356/3/3, 360/1/1, 360/1/2, 360/2/1/1, 360/2/1/2, 360/2/1/3, 360/2/1/4, 360/2/2, 360/2/3, 360/3/1, 360/3/2, 361/1, 361/2, 356/3/3, 362, 363/1, 363/2, 343/1, 343/2, 343/2/2, 343/3/1, 343/3/2, 343/3/3, 364/1/1, 364/1/2/1, 364/4/2/1, 364/1/2/2, 364/4/2/2, 364/1/2/2 मि-1, 364/1/2/2 मि-2, 364/1/2/2 मि-3, 364/4/2/2/9903, 364/1/2/3, 364/1/3, 364/1/4, 364/1/5, 364/4/5, 340/3/1, 340/3/2, 342/1, 342/2/1, 342/2/2, 342/3, 341/1/1, 341/1/2, 341/1/3, 341/2, 340/426, 70/2, 349/1/1, 349/1/2, 349/1/3, 349/2
इन्दौर	साँवर	कायस्थ खेड़ी	110/6, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 131/1, 131/3, 131/2, 133/1, 133/2, 142/1, 142/2, 142/3, 146/2, 146/1, 146/3/1, 146/3/2, 146/5, 179/8, 155, 157/3/1/1, 157/3/1/2, 157/2/4, 157/2/3, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/2/3, 165/1, 165/2, 154, 166, 167, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 168/3, 168/3, 132, 141, 135, 146/4, 152, 173/1/1, 173/1/2, 172/1	110/6, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 131/1, 131/3, 131/2, 133/1, 133/2, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 144, 146/2, 146/1, 146/3/1, 146/3/2, 146/5, 179/8, 157/3/1/1, 157/3/1/2, 157/2/4, 157/2/3, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/2/3, 165/1, 165/2, 165/1, 165/2, 166, 167, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 168/3, 168/3, 132, 141, 135, 146/4, 152, 173/1/1, 173/1/2, 172/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
इन्दौर	सावेर	बड़ोदिया खान	1/1, 329/3, 329/2/2, 329/2/1, 329/1, 332/2, 330, 343, 344/1/1, 344/1/2, 344/3/1, 344/3/2, 346, 366/1, 367/2, 367/3, 370, 371/3, 413/1, 413/2, 413/8, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 421/1, 420/2, 424/2, 425/1/1, 425/1/2, 444/1/1/1 क, 444/1/1/1 ख, 444/1/1/1 ग, 444/1/1/2, 444/1/2, 444/2, 465/1/1, 465/1/2, 465/2, 465/4, 466/1/1, 466/1/2, 466/2, 470/1, 480, 483/1, 483/2, 502, 501, 524/1/1, 524/1/2, 524/2/1, 524/2/2, 524/2/3, 524/3, 504/1, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 506/2, 506/1, 507/1/1, 507/1/2, 507/1/3, 507/2, 520/2, 520/1, 522/3, 522/2, 522/1 392/1/9, 393, 394, 523	1/1, 329/3, 329/2/2, 329/2/1, 329/1, 332/2, 330, 343, 344/1/1, 344/1/2, 344/3/1, 344/3/2, 346, 366/1, 367/2, 367/3, 370, 371/3, 413/1, 413/2, 413/8, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 421/1, -, 424/2, 425/1/1, 425/1/2, 444/1/1/1 क, 444/1/1/1 ख, 444/1/1/1 ग, 444/1/1/2, 444/1/2, 444/2, 465/1/1, 465/1/2, 465/2, 465/4, 466/1/1, 466/1/2, 466/2, 470/1, 480, 483/1, 483/2, 502, 501, 504/1, 506/2, 520/2, 520/1, 522/3, 522/2, 522/1 392/1/9, 393, 394, 523
इन्दौर	सावेर	किठोदा	167, 179, 168/1, 168/2, 168/3, 187, 188, 166/1, 165/1, 165/2, 165/3, 164, 126/1, 126/2, 125/1/2, 123/1, 123/2, 122, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 242/1, 242/2, 243/1, 233, 228, 232/1/1 क, 232/1/1 ख, 232/1, 232/1/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 186/1, 186/244/1, 231/5, 231/6, 231/7, 189/1, 188/1, 188/2, 118, 243/1	167, 179, 168/1, 168/2, 168/3, 188, 166/1, 165/1, 165/2, 165/3, 164, 126/1, 125/1/2, 125/2, 124/2, 123/1, 122, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 242/1, 242/2, 243/1, 233, 228, 232/1/1 क, 232/1/1 ख, 232/1, 232/1/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 186/1, 186/244/1, 231/5, 231/6, 231/7, 189/1, 118, 243/1
उज्जैन	उज्जैन	पंथपिपलई	8, 9, 38/1, 38/2/1, 38/2/2, 10, 39, 60, 61, 78, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 430/1, 430/2, 437/1/1, 437/1/2, 437/2, 442, 438/1/1, 438/1/2, 438/2, 439, 440, 231, 547/1, 547/2, 557/1, 557/2, 554, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 199/1, 199/2, 199/3, 198, -, 180/1, 180/2, 180/3, 183, 178/1/1/1, 178/1/1/2, 178/1/2/1, 178/1/2/2, 178/2/1, 178/2/2, 178/2/3, 175/1/1, 175/1/2, 175/2, 175/3/1, 175/3/2, 174/1/1, 174/1/2, 174/2/1, 174/2/2, 176/1/1, 176/1/2, 176/2/1, 176/2/2, 162/1, 162/2, 162/3/1, 162/3/2/1, 162/3/2/2, 162/4/1, 162/4/2, 162/5/1, 162/5/2, 162/6/1, 162/6/2, 162/6/3, 159, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 142/1/1/1, 142/1/2, 142/2/1, 142/2/2, 142/3/1, 142/3/2, 142/4/1, 142/4/2, 141/1, 141/2/1, 141/2/2, 160, 163, 166/1, 166/2/1, 166/2/2, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 558/1, 558/2, 560, 559, 546/1, 546/2, 444/1, 444/2, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 426/1, 426/2/1, 426/2/2, 264/1, 264/2/1, 264/2/2, 264/3/1, 264/3/2, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 275, 277/1, 277/2, 277/3, 284/1/1, 284/1/2, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1/1, 285/2/1/2, 285/2/2/1, 285/2/2/2, 290/1, 290/2, 288/1/1, 288/1/2, 288/2/1, 288/2/2, 288/3, 288/4, 302, 300/3/1/1, 303/1/2, 303/2/1, 303/2/2, 304/1, 304/2, 305, 276, 441, 443, 287/1, 287/2, 287/3, 180/1, 180/2, 180/3	6, 7, 8, 9, 38/1, 38/2/1, 38/2/2, 10, 40, 41, 59, 60, 58, 61, 62/3, 260/3, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 430/1, 430/2, 436/1, 436/2, 437/1/1, 437/1/2, 437/2, 442, 438/1/1, 438/1/2, 438/2, 231, 548/1, 548/2, 556, 547/1, 547/2, 555/1, 555/2, 557/1, 557/2, 554, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 199/1, 199/2, 199/3, 198, 186, 180/1, 180/2, 180/3, 183, 178/1/1/1, 178/1/1/2, 178/1/2/1, 178/1/2/2, 178/2/1, 178/2/2, 178/2/3, 175/1/1, 175/1/2, 175/2, 175/3/1, 175/3/2, 174/1/1, 174/1/2, 174/2/1, 174/2/2, 176/1/1, 176/1/2, 176/2/1, 176/2/2, 162/1, 162/2, 162/3/1, 162/3/2/1, 162/3/2/2, 162/4/1, 162/4/2, 162/5/1, 162/5/2, 162/6/1, 162/6/2, 162/6/3, 159, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 142/1/1/1, 142/1/2, 142/2/1, 142/2/2, 142/3/1, 142/3/2, 142/4/1, 142/4/2, 141/1, 141/2/1, 141/2/2, 160, 161/1, 161/2, 163, 166/1, 166/2/1, 166/2/2, 173, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 582, 583, 564/1/1, 564/1/2, 564/1/3, 558/1, 558/2, 560, 563, 546/1, 546/2, 444/1, 444/2, 445, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 426/1, 426/2/1, 426/2/2, 265/1, 265/2, 264/1, 264/2/1, 264/2/2, 264/3/1, 264/3/2, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 274/1, 274/2, 275, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 284/1/1, 284/1/2, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1/1, 285/2/1/2, 285/2/2/1, 285/2/2/2, 288/1/1, 288/1/2, 288/2/1, 288/2/2, 288/3, 288/4, 301, 302, 300/2, 300/3/1/1, 303/1/2, 303/2/1, 303/2/2, 304/1, 304/2, 305, 276, 230, 287/1, 287/2, 287/3, 180/1, 180/2, 180/3
उज्जैन	उज्जैन	रामवासा	157/1, 158, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2 मि-2, 161/2 मि-1, 174, 181, 182, 183, 215, 216, 218, 226/1, 226/2, 226/3, 470, 469, 471/1, 471/2, 498, 499/1/2/1 मि-1, 499/1/2/1 मि-2, 499/1/2/1 मि-3	156, 155, 154, 157/1, 153, 158, 159, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2 मि-2, 161/2 मि-1, 174, 181, 182, 183, 215, 216, 217, 218, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 469, 471/1, 471/2, 498, 499/1/2/1 मि-1, 499/1/2/1 मि-2, 499/1/2/1 मि-3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			मि-3 , 499/1/1, 499/1/2/2, 499/3, 499/2/1, 499/2/3, 499/2/2 मि-1 , 499/2/2 मि-2 , 499/2/2 मि-3 , 501, 500, 506, 507, 508, 508/2/1, 508/2/2, 509, 510/1, 510/2/2, 510/2/3, 518/1, 518/2/1, 518/2/2, 520/1/1/1, 520/1/1/2, 520/1/2/1, 520/1/2/2, 520/1/3/1, 520/1/3/2, 520/1/4/1, 520/1/4/2, 520/1/5/1, 520/1/5/2, 520/2/1, 520/2/2, 522/1, 522/2/1, 522/2/2, 523/1, 523/2, 524, 525, 467/1, 467/3, 467/2/1, 467/2/2, 467/2/3, 467/2/4, 466/1, 466/2/1, 466/2/2, 466/3/1, 466/3/2, 466/4/1, 466/4/2, 459, 455, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 474/3/1, 474/3/2, 474/4/1, 474/4/2, 474/5/1, 474/5/2, 474/6, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1/1, 478/1/2, 478/2, 479	499/1/2/1 मि-3 , 499/1/1, 499/1/2/2, 499/3, 499/2/1, 499/2/3, 499/2/2 मि-1 , 499/2/2 मि-2 , 499/2/2 मि-3 , 501, 506, 507, 508, 508/2/1, 508/2/2, 510/1, 510/2/2, 510/2/3, 511, 518/1, 518/2/1, 518/2/2, 519, 520/1/1/1, 520/1/1/2, 520/1/2/1, 520/1/2/2, 520/1/3/1, 520/1/3/2, 520/1/4/1, 520/1/4/2, 520/1/5/1, 520/1/5/2, 520/2/1, 520/2/2, 522/1, 522/2/1, 522/2/2, 523/1, 523/2, 524, 525, 467/1, 467/3, 467/2/1, 467/2/2, 467/2/3, 467/2/4, 466/1, 466/2/1, 466/2/2, 466/3/1, 466/3/2, 466/4/1, 466/4/2, 459, 455, 486/1, 486/2, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 474/3/1, 474/3/2, 474/4/1, 474/4/2, 474/5/1, 474/5/2, 474/6, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1/1, 478/1/2, 478/2, 479, 480
उज्जैन	उज्जैन	मिनोरा	3/1, 3/2, 3/3, 5, 12, 13, 14, 15, 15/725, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 45, 48/1, 48/2, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 61/4, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1/1, 70/1/2, 70/2/1, 70/2/2, 74, 485, 484/1/1, 484/1/2, 484/2, 484/3, 483, 482/1, 482/2, 481, 491, 492, 495/1, 495/2/1, 495/2/2, 495/2/3, 495/2/4, 497, 504, 506, 505, 517, 518, 519, 529, 531, 532, 533 मि-1, 533 मि-2, 536/1, 536/2/1, 536/2/2, 537/2, 538, 554/1, 554/2/1, 554/2/2, 554/2/3, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2/1, 556/2/2, 557/1, 557/2, 565/1, 565/2, 566, 567, 570/1, 570/2, 571, 572, 570/3/1, 570/3/2, 573/1, 573/2/1, 573/2/2, 472, 569, 479/1/1/1, 479/1/1/2, 479/1/2/1, 479/1/2/2, 479/2/1, 479/2/2, 479/2/3/1, 479/2/3/2, 479/2/4 मि-1, 479/4 मि-2, 478, 477/1, 477/2, 476, 475/2/1, 475/2/2, 480, 533 मि-1, 533 मि-2, 534, 535	3/1, 3/2, 3/3, 5, 12, 13, 14, 15, 15/725, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 45, 48/1, 48/2, 52, 49, 50, 51, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 62, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1/1, 70/1/2, 70/2/1, 70/2/2, 74, 485, 484/1/1, 484/1/2, 484/2, 484/3, 483, 482/1, 482/2, 481, 491, 492, 495/1, 495/2/1, 495/2/2, 495/2/3, 495/2/4, 497, 504, 506, 505, 517, 519, 520, 529, 530, 531, 532, 533 मि-2, 533 मि-2, 536/1, 536/2/1, 536/2/2, 537/2, 538, 554/1, 554/2/1, 554/2/2, 554/2/3, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2/1, 556/2/2, 558, 557/1, 557/2, 564, 565/1, 565/2, 566, 570/1, 570/2, 571, 570/3/1, 570/3/2, 573/1, 573/2/1, 573/2/2, 574/1, 574/2, 472, 569, 479/1/1/1, 479/1/1/2, 479/1/2/1, 479/1/2/2, 479/2/1, 479/2/2, 478, 477/1, 477/2, 476, 475/2/1, 475/2/2, 480, 533 मि-1, 533 मि-2, 534, 535
उज्जैन	उज्जैन	कराहिया उर्फ नवाखेड़ा	45, 44/1 मि-1, 44/1 मि-2, 44/2, 41/1, 41/2, 40/1, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/3, 40/3, 37, 36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3, 36/4/1, 36/4/2, 34, 35/1/1, 35/1/2, 35/2, 47/1/1, 47/1/2, 47/2/1, 47/2/2, 47/3/1, 47/3/2, 47/4/1, 47/4/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1/1, 53/1/2/1, 53/1/2/2, 53/1/2/3, 53/2/1, 53/2/2/1, 53/2/2/2, 53/2/2/3, 54/1, 54/2, 54/3/1, 54/3/2, 150, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 169/1/1, 169/1/2, 169/2/1, 169/2/2, 163/1, 163/2, 226/1/1, 226/1/2, 226/2, 226/3, 227, 225/1, 225/2, 224, 228, 230, 232/1, 232/2/1, 232/2/2, 232/2/3, 223, 171/1, 171/2, 172/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195/1, 195/2/1, 195/2/2, 212, 213, 214, 221, 222, 170, 46	44/1 मि-1, 44/1 मि-2, 44/2, 41/1, 41/2, 40/1, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/3, 40/3, 37, 36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3, 36/4/1, 36/4/2, 34, 35/1/1, 35/1/2, 35/2, 47/1/1, 47/1/2, 47/2/1, 47/2/2, 47/3/1, 47/3/2, 47/4/1, 47/4/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1/1, 53/1/2/1, 53/1/2/2, 53/1/2/3, 53/2/1, 53/2/2/1, 53/2/2/2, 53/2/2/3, 54/1, 54/2, 54/3/1, 54/3/2, 150, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 169/1/1, 169/1/2, 169/2/1, 169/2/2, 169/2/1, 169/2/2, 165, 163/1, 163/2, 226/1/1, 226/1/2, 226/2, 226/3, 227, 225/1, 225/2, 224, 228, 230, 232/1, 232/2/1, 232/2/2, 232/2/3, 231/1, 231/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195/1, 195/2/1, 195/2/2, 212, 213, 214, 221, 222, 215, 221, 170, 46
उज्जैन	उज्जैन	मंडिया	93/2, 93/1/2 मि-2, 94/1/1, 99/1/2, 95/1/1, 98, 96/1, 96/2/1/1, 96/2/1/2, 96/2/2, 106/1, 107 मि-1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107 मि-1, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9/1, 106/9/2, 109/1/2, 165/1, 165/2, 164, 166/1, 163/1, 163/2, 162, 161/1, 161/2, 157/1/1, 94/1/2, 108/2/1, 108/2/1/2, 111/2, 113/1, 113/4, 124, 125/1,	92/5, 92/6, 92/7, 92/2/1, 93/2, 94/1/1, 99/1/2, 99/2/2, 98, 97/1/1, 97/1/3, 97/2, 106/1, 107 मि-1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107 मि-1, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9/1, 106/9/2, 166/1, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/1/5, 157/1/6, 157/1/7, 157/1/9, 157/1/10/1, 157/1/10/2, 157/1/10/3, 157/1/10/4, 157/2, 157/3, 111/3, 111/1, 111/2,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			125/2, 127/3, 127/2, 126, 160, 110, 109/1/1, 109/1/2, 109/2, 109/3/1/1, 95/1/1, 108/2/1/1, 95/2/1, 109/3/2/1, 108/2/2/1, 109/3/2/2 मि., 109/3/3/1, 95/3/2, 108/2/3 मि., 109/3/3/2, 108/3/3 मि., 95/3/1, 108/2/3 मि-	114/1 मि., 113/1, 114/2, 113/3, 113/2, 113/1, 113/4, 114/4, 113/5, 123/3/1, 123/3/2, 123/3/3, 123/1, 122, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 127/3, 127/2, 127/1, 126, 160
उज्जैन	उज्जैन	ढेंडिया	21/1, 21/2, 22/1, 22/1/मि 2, 22/2, 33/1, 33/2, 96/1/1, 96/1/2, 96/1/3, 96/2, 92/1, 91/4, 91/12, 91/11, 91/10, 91/8, 91/1/2, 91/2/3, 91/2/2/2, 91/2/4, 112/1, 112/5, 112/9, 112/6, 112/8, 112/7/1/1, 112/7/1/2, 112/1/2, 112/7/2, 114/1/1, 114/2/1, 114/2/2, 114/2/3, 115, 111, 110, 110/2, 110/1, 109, 108, 107/3, 106, 103, 104/1, 104/2, 105, 102/1/1, 102/2, 101, 97/1, 97/2, 97/3/1, 97/3/2, 97/4/1, 97/5/1, 98/1/1, 16/2/2/1, 16/2/2/2, 16/2/2/3, 16/2/2/4, 16/2/2/5, 16/2/2/6, 16/2/1/1, 16/2/1/2, 16/2/1/3, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/1/1, 16/3, 17, 93/2	21/1, 21/2, 22/1, 22/1/मि 2, 22/2, 33/1, 33/2, 96/1/1, 96/1/2, 96/1/3, 96/2, 92/1, 91/4, 91/12, 91/11, 91/10, 91/8, 91/1/2, 91/2/3, 91/2/2/2, 91/2/4, 112/1, 112/5, 112/9, 112/6, 112/8, 112/7/1/1, 112/7/1/2, 112/1/2, 112/7/2, 114/1/1, 114/2/1, 114/2/2, 114/2/3, 115, , 110, 110/2, 110/1, 107/3, 106, 104/1, 104/2, 105, 102/1/1, 102/2, 101, 97/1, 97/2, 97/3/1, 97/3/2, 97/4/1, 97/5/1, 98/1/1, 16/2/2/1, 16/2/2/2, 16/2/2/3, 16/2/2/4, 16/2/2/5, 16/2/2/6, 16/2/1/1, 16/2/1/2, 16/2/1/3, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/1/1, 16/3, 93/2
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द	5/1/1, 5/1/2, 5/1/2/1, 5/1/2/2, 5/1/2/3, 5/2 मि-1, 5/2 मि-2, 5/2 मि-3, 5/2 मि-4, 5/2 मि-5, 5/3, 5/4, 5/5 मि-1, 5/5 मि-2, 5/5 मि-3, 5/6, 24/1/1, 24/1/2, 23/1/2, 24/2/1, 24/2/2, 24/2/3, 24/2 मि-2, 7/3, 23/3, 24/3/1, 24/3/2, 24/3/3, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 28/1/1/1, 28/1/3, 28/1/2/1, 28/1/9, 28/1/8, 28/1/10, 28/1/11, 29/1, 29/2, 23/1/1, 23/1/2, 23/2, 23/3, 30, 38 मि-1, 38 मि-2, 42/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 38/2, 42/5, 39, 42/6, 40/6, 44/2/2, 44/2/3, 44/2/7, 44/2 मि-1, 44/2 मि-5, 44/2 मि-8, 40/1, 40/2, 42/6, 40/3, 42/7, 40/4, 42/8, 40/5, 42/9, 40/6, 42/10, 42/11, 40/7, 43/1, 43/2, 45/1, 45/1/2, 45/1/3, 45/1/4, 45/1/5, 45/1/6, 45 मि-1, 45 मि-2, 45/1/7, 45/8/8, 45/1/10, 45/2/3, 45/2/4, 45/2/7, 45/2/16, 46/1/11, 45/2 मि-1, 45/2 मि-2, 45/2 मि-4, 45/2 मि-8, 45/2 मि-5, 45/2 मि-9, 45/2 मि-10, 45/2 मि-11, 45/2 मि-12, 45/2 मि-13, 45/2 मि-14, 55, 58/2, 58/1, 57, 136/5/1, 136/5/2, 136/2, 147/6/1, 147/3, 147/5, 136/3 मि-, 60/1, 59, 68, 69/2, 69/3, 72/1 मि-1, 72/1 मि-2, 74/1 मि-1, 74/1 मि-2, 74/1 मि-3, 74/1 मि-4, 74/1 मि-8, 74/1 मि-9, 74/2, 75 मि-1, 75 मि-2, 75 मि-3, 75 मि-4, 75 मि-5, 75 मि-6, 75 मि-7, 80/1/1, 80/1 मि-1, 80/1 मि-2, 80/4/1, 80/4/3, 80/5/1, 80/5/2, 80/5/2 मि-1, , 80/5/3, 80/4/2, 136/5/1, 136/5/2, 136/6, 136/7 मि-, 61/1, 61/2, 136/1/1, 136/8, 148, 147/2, 76,77,78,79,81/2,84,85, 86,87,88, 34/4/1, 36/4/2, 36/4/3, 36/3, 158/1, 69/1 मि-1, 70/1, 69/1 मि-2, 69/1 मि-3, 69/1 मि-4, 69/1 मि-5, 69/1 मि-6, 69/1 मि-7, 72/2, 73	5/1/1, 5/1/2, 5/1/2/2, 5/1/2/3, 5/2 मि-1, 5/2 मि-2, 5/2 मि-3, 5/2 मि-4, 5/2 मि-5, 5/3, 5/4, 5/5 मि-1, 5/5 मि-2, 5/5 मि-3, 5/6, 24/1/1, 24/1/2, 23/1/2, 24/2/1, 24/2/2, 24/2/3, 24/2 मि-2, 7/3, 23/3, 24/3/1, 24/3/2, 24/3/3, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 28/1/1/1, 28/1/3, 28/1/2/1, 28/1/9, 28/1/8, 28/1/10, 28/1/11, 23/1/1, 23/1/2, 23/2, 23/3, 30, 38 मि-1, 38 मि-2, 42/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 38/2, 42/5, 39, 42/6, 40/6, 44/2/2, 44/2/3, 44/2/7, 44/2 मि-1, 44/2 मि-5, 44/2 मि-8, 40/1, 40/2, 42/6, 40/3, 42/7, 40/4, 42/8, 40/5, 42/9, 40/6, 42/10, 42/11, 40/7, 43/1, 43/2, 45/1, 45/1/2, 45/1/3, 45/1/4, 45/1/5, 45/1/6, 45 मि-1, 45 मि-2, 45/1/7, 45/8/8, 45/1/10, 45/2/3, 45/2/4, 45/2/7, 45/2/16, 46/1/11, 45/2 मि-1, 45/2 मि-2, 45/2 मि-4, 45/2 मि-8, 45/2 मि-5, 45/2 मि-9, 45/2 मि-10, 45/2 मि-11, 45/2 मि-12, 45/2 मि-13, 45/2 मि-14, 55, 136/5/1, 136/5/2, 147/1/1, 147/1/2, 147/6/1, 147/3, 147/5, 136/3 मि-, 64/1 मि-1, 64/1 मि-2, -, 60/2 मि-, 68, 69/2, 69/3, 70/2, 72/1 मि-1, 72/1 मि-2, 74/1 मि-1, 74/1 मि-2, 74/1 मि-3, 74/1 मि-4, 74/1 मि-8, 74/1 मि-9, 74/2, 75 मि-1, 75 मि-2, 75 मि-3, 75 मि-4, 75 मि-5, 75 मि-6, 75 मि-7, 80/1/1, 80/1 मि-1, 80/1 मि-2, 80/4/1, 80/4/3, 80/5/1, 80/5/2, 80/5/2 मि-1, , 80/5/3, 80/4/2, 136/5/1, 136/5/2, 136/6, 136/7 मि-, 61/1, 61/2, 136/1/1, 136/8, 148, 147/2, 76,77,78,79,81/2,84,85, 86,87,88, 34/4/1, 36/4/2, 36/4/3, 36/3, 158/1, 69/1 मि-1, 70/1, 69/1 मि-2, 69/1 मि-3, 69/1 मि-4, 69/1 मि-5, 69/1 मि-6, 69/1 मि-7, 72/2, 73

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
उज्जैन	उज्जैन	नानाखेड़ा	50, 51/2, 51/1/2/2, 51/5, 51/4, 51/8, 49, 52, 53, 48/2, 62, 92, 89/1 नि-1, 89/1 नि-2, 89/1 नि-3, 89/2, 89/3, 89/4 नि-1, 89/4 नि-2, 89/5, 89/6, 88/1/1, 91/1, 88/1/2, 90/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/13, 81/1/2, 81/1/3, 81/1/4, 81/1/5, 81/2/2, 81/2/3, 81/2/4, 81/2/5, 81/2/6, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 85/2, 86/2, 85/1, 320/2, 320/1, 83/2, 330/4, 330/5, 330/6, 331, 330/2, 330/3, 330/7, 330/10, 330/11, 329/2, 329/3, 333/7	50, 51/1/2/1, 51/2, 51/1/2/2, 51/4, 51/8, 49, 52, 54, 55/2, 48/2, 48/1, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/14, 63/12, 63/13, 62, 92, 93, 89/1 नि-1, 89/1 नि-2, 89/1 नि-3, 89/2, 89/3, 89/4 नि-1, 89/4 नि-2, 89/5, 89/6, 88/1/1, 91/1, 88/1/2, 90/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 81/1/1, 81/1/2, 81/1/3, 81/1/4, 81/1/5, 81/2/2, 81/2/3, 81/2/4, 81/2/5, 81/2/6, 81/3, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 85/2, 86/2, 83/2, 330/4, 330/5, 330/6, 331, 330/2, 330/3, 330/7, 330/8, 330/10, 330/11, 329/2, 329/3, 329/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8
उज्जैन	उज्जैन	करवा उज्जैन	3526, 3522, 3556/2, 3556/1, 3554/2, 3555, 3556, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3523, 3557/1, 3546, 3547, 3546/2, 3541, 3554, 3553, 3668, 3667, 3666, 3689, 3687/2, 3686, 3683/1, 3685, 3666, 3665, 3557/1, 3557/2, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3667, 3686, 3557/1, 3557/2, 3559/3/1, 3559/2, 3545/1, 3545/2	2351, 3526, 3524, 3522, 3556/2, 3556/1, 3555, 3556, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3523, 3543, 3557/1, 3547, 3541, 3551, 3548, 3552, 3550, 3554, 3553, 3668, 3667, 3666, 3689, 3687/2, 3686, 3683/1, 3684, 3685, 3690, 3666, 3664, 3665, 3557/1, 3557/2, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3667, 3686, 3557/1, 3557/2, 3676, 3562/1, 3562/2, 3665, 3544, 3559/2, 3545/1, 3545/2

IV

खण्ड "अ"

अ.क्र.	राजमार्ग का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	राजमार्ग में आने वाले जिले
1	भोपाल-देवास फोरलेन मार्ग (राजमार्ग क्र. 18)	140.79	भोपाल, सीहोर, देवास

खण्ड "ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
भोपाल	हुजूर	बैरागढ़ कलां	496, 469-471-478-479, 467, 468, 470, 454, 470, 494, 493, 492, 453, 486, 487, 485, 477, 473, 474	496, 469-471-478-479, 467, 468, 470, 454, 494, 493, 492, 453, 486, 487, 485, 473, 474
भोपाल	हुजूर	भैंसाखेड़ी	75, 78, 79, 80, 81, 85, 93, 30, 90, 89, 47, 156, 155, 154, 153, 151/1, 163/2, 163/1, 164, 98	75, 78, 79, 80, 81, 85, 30, 90, 89, 47, 156, 155, 154, 153, 151/1, 163/2, 163/1, 164, 100, 98

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
भोपाल	हुजूर	भौरी	620, 619, 622, 624-625, 613, 1194, 1193, 1189, 1190-1192-1195/1, 1189, 1191-1190/2, 1188, 1187, 1217, , 1219, 1220, 631, 632, 1183, 1182, 1181, 1175, 1174, 1173, 1172, 1169, 1168, 1169, 1167, 1165, 1162, 1160, 1159, 1158, 1287, 1291, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1301, 1307, 1209	619, 622, 624-625, 613, 1193, 1189, , 1189, 1191-1190/2, 1188, 1187, 1217, 1216, 1219, 1220, 631, 632, 1183, 1182, 1181, 1175, 1173, 1172, 1169, 1168, 1169, 1167, 1165, 1160, 1159, 1158, 1287, 1291, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1301, 1307, 1209, 1208
भोपाल	हुजूर	जमुनियाछीर	344, 345, 158, 349, 160, 163, 342, 165, 340, 175, 176, 177, 179, 180, 290, 291, 339, 292, 294, 295, 338, 299, 300, 301, 302, 231, 333, 329, 330	344, 345, 158, 349, 159, 157, 156, 160, 162, 163, 342, 165, 166, 340, 175, 176, 177, 179, 180, 290, 291, 339, 292, 294, 295, 338, 299, 300, 301, 302, 231, 334, 236, 329, 330, 328
भोपाल	हुजूर	कोलूखेड़ी	230, 133, 134, 231, 232, 135, 136, 138, 235, 236, 238, 139, 140, 141, 258, 142, 143, 148, 149, 260, 262, 261, 293, 294, 296, 297, 298, 189, 194, 195, 200, 201, 299, 301, 302, 202, 207, 208, 310, 222, 226, 310, 311, 314, 315,	228, 230, 133, 134, 231, 232, 135, 136, 137, 138, 235, 236, 238, 127, 139, 140, 141, 258, 142, 143, 148, 149, 260, 262, 261, 293, 294, 296, 297, 298, 189, 194, 195, 200, 201, 299, 301, 302, 207, 208, 210, 209, 310, 222, 226, 225, 310, 311, 312, 313, 315
भोपाल	हुजूर	खजूरीसड़क	28, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 102, 103, 99, 104/675, 104, 105, 106, 111, 112, 129, 130, 138, 139, 136, 137, 141, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 301, 300, 302, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 345, 346, 347, 348, 555, 556, 557, 558, 553	28, 39, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 87, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 103, 99, 104/675, 104, 105, 106, 112, 129, 130, 138, 139, 135, 136, 137, 141, 146, 148, 145, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 182, 183, 185, 300, 299, 298, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 555, 556, 558, 553
भोपाल	हुजूर	फंदाकलां	435, 436, 445, 447, 448, 515, 516, 118, 121, 124, 517, 518, 519, 520, 124, 125, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 197, 198, 521, 530, 535, 536, 537, 541/3, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 382, 383, 387, 388, 389, 407, 409, 431, 979, 980, 981, 987, 988, 1005, 386, 1006, 656, 644, 657, 658, 659, 660, 662, 661, 653, 664, 667, 665, 876, 197, 211, 257, 258, 260, 259, 213, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 267, 292, 293, 884, 283, 885, 886, 906, 905, 678, 294, 342	436, 445, 447, 448, 118, 121, 124, 517, 518, 519, 124, 125, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 197, 198, 521, 527, 530, 535, 536, 537, 541/3, 644, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 382, 383, 387, 388, 389, 407, 409, 431, 979, 980, 981, 987, 988, 1005, 386, 1006, 656, 644, 657, 658, 659, 660, 662, 661, 668, 667, 665, 876, 197, 211, 257, 258, 260, 259, 213, 261, 262, 264, 265, 268, 292, 884, 283, 887, 886, 906, 907, 905, 678, 294, 342
सीहोर	सीहोर	पचामा	305/1, 308, 307, 309, 310, 317/2, 314/1, 315/1, 320/1/1, 320/2, 321/1/1, 321/2/1, 325/1/1, 333/1, 327-328/1, 327-328/2, 327-328/3, 329/1, 331/1, 305/1, 306, 307, 310, 318, 317/2, 315/3, 320/2/3, 320/2/2, 321/1/3,	305/1, 308, 307, 309, 302, 310, 317/2, 314/1, 315/1, 320/1/1, 320/2, 321/1/1, 21/2/1, 325/1/1, 333/1, 326/1, 326/2, 327-328/1, 327-328/2, 327-328/3, 329/1, 331/1, 305/1, 306, 307, 310,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			321/2/3, 325/1, 332/3	318, 317/2, 316, 315/3, 320/2/3, 320/2/2, 321/1/3, 321/2/3, 335, 325/1, 334, 332/3
सीहोर	सीहोर	लसूडिया परिहार	27-28/2/1, 27-28/2/2, 27-28/2/3, 26/1/1/1, 22-23 25/1, 263/77, 77, 76/462/1, 79/1, 80/1/1, 80/2/1, 107-108/1, 81/2/1, 81/1/4, 81/2/3, 81/3, 81/1/2/1, 81/1/1, 109, 96-97/3, 96-97/4, 96-97/5, 91, 92, 93/1क, 89, 90, 154/1/3, 87/1, 87/2, 87/3/1ग, 87/3/1ख, 87/3/1घ, 87/3/1क, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 27/1, 26/1, 22, 23, 25/3, 78, 79, 76/462/3, 79/3, 80/1/3, 112, 80/2/3, 107, 108/3, 96-97/1, 94-95/1, 94-95/2, 91, 92, 93/2, 89, 90, 154/1/4/3/2, 88, 159, 87/3/3, 160, 164, 165/2, 161, 162/3, 163/3	27-28/2/1, 27-28/2/2, 27-28/2/3, 26/1/1/1, 22-23-25/1, 263/77, 77, 76/462/1, 79/1, 80/1/1, 80/2/1, 107-108/1, 81/2/1, 81/1/4, 81/2/3, 81/3, 81/1/2/1, 81/1/1, 109, 96-97/3, 96-97/4, 96-97/5, 91, 92, 93/1क, 91, 92, 93/1ख, 89, 90, 154/1/1, 89, 90, 154/1/2, 89, 90, 154/1/3, 87/1, 87/2, 87/3/1ग, 87/3/1ख, 87/3/1घ, 87/3/1क, 161, 162/1, 162/2, 27/1, 26/1, 22, 23, 25/3, 78, 79, 76/462/3, 79/3, 80/1/3, 113, 114, 112, 80/2/3, 107, 108/3, 96-97/1, 94-95/1, 94-95/2, 91, 92, 93/2, 89, 90, 154/1/4/3/2, 88, 159, 87/3/3, 160, 164, 165/2, 161, 162/3, 163/3, 160, 164, 165/1क
सीहोर	सीहोर	तकीपुर उर्फ महुआखेड़ा	16/1/1, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 18/1/1, 18/1/2, 18/2/1, 18/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 17/1/1, 218/1/5, 218/2, 219/2, 218/1/1/4/1, 218/1/1/4/2, 218/1/1/4/3, 236/1, 237/1/1, 234/2, 234/1, 238/1/2, 232/1, 244/2, 245/1, 245/2, 248/1/2, 248/1/1, 248/2/1, 248/3/2, 248/4/1, 16/1/1, 19/2/3, 19/3 ख, 19/3 क, 19/4/2, 20/1, 17/1/3, 218/1/3, 218/1/2/3, 218/1/3/2, 218/1/2/6 क, 18/1/2/1/2, 237/1/2 क, 237/1/2 ख, 238/1/2, 239, 243/3, -, 252, 244/2, 245/1/1, 245/2/2, 249/3 ख/2, 249/3 क/2, 249/2/2	16/1/1, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 18/1/1, 18/1/2, 18/2/1, 18/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 17/1/1, 218/1/5, 218/2, 219/2, 218/1/1/4/1, 218/1/1/4/2, 218/1/1/4/3, 236/1, 237/1/1, 234/2, 234/1, 238/1/2, 232/1, 244/2, 245/1, 245/2, 248/1/2, 248/1/1, 248/2/1, 248/3/2, 248/4/1, 16/1/1, 19/2/3, 19/3 ख, 19/3 क, 19/4/2, 20/1, 21/1, 17/1/3, 218/1/3, 218/1/2/3, 218/1/3/2, 218/1/2/6 क, 218/1/2/4, 218/1/1/3/1 क, 218/1/2/1/2, 237/2 क, 237/1/2 ख, 238/1/2, 239, 243/3, 241, 252, 245/2/2, 249/3 ख/2, 249/3 क/2, 249/2/2
सीहोर	सीहोर	बडियाखेडी	173-174/1, 170/1, 175/1, 176/1, 179/1, 180, 178/1/1, 178/4, 187/1, 189/1, 188/1, 188/2, 190, 163/4, 173-174/3, 170/2, 175/3, 176/3, 181, 180/3, 271/280/1, 186/3/2, 189-191/2/2, 192, 188/1, 191/3, 163/3	173-174/1, 172, 170/1, 175/1, 176/1, 179/1, 178/1/1, 178/4, 187/1, 189/1, 188/1, 190, 163/4, 173-174/3, 170/2, 175/3, 181, 180/3, 271/280/1, 186/3/2, 189-191/2/2, 192, 188/1, 191/3, 163/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	सीहोर	शेरपुर	202/218, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 206, 208/1, , 187, 143/1/4, 143/1/3, 144/3, 163/1/1/1, 163/1/1/8, 164/1/2, 164/1/3, 166/1, 166/3, 165/3/1, 168/1/1, 288-270/1/2, 81/3/6, 81/3/5, 81/3/3, 81/3/1, 81/3/2, 220, 219, 228, 202/218, 217, 207, 209, 211, 143/3, 187, 186/1, 186/2, 204/140/1, 163/1/1/1, 166/2, 177, 165/2, 168/2, 168/3, 169/3, 288/1/281/1 - 285/1/1/1क, 285/1/1	202/218, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 206, 208/1, 208/2, 139/2, 187, 143/1/4, 143/1/3, 142/2, 144/3, 144/2, 163/1/1/1, 163/1/1/8, 164/1/2, 164/1/3, 164/1/5, 166/1, 166/3, 165/3/1, 168/1/1, 288-270/1/1, 288-270/1/2, 81/3/6, 81/3/5, 81/3/3, 81/3/1, 81/3/2, 81/2, 220, 221, 219, 228, 217, 216, 207, 209, 215, 210, 211, 259/2, 143/2, 143/3, 187, 186/1, 186/2, 204/140/2, 162/2, 162/3, 166/2, 166/3, 177, 165/2, 168/2, 168/3, 169/2, 169/3, 288/170/2, 288/1/281/1 285/1/1/2 285/1/1/1ख, 285/1/1/1क, 285/1/1
सीहोर	सीहोर	सारंगाखेड़ी	46/1, 47/1, 52/2, 52/1, 54, 49/1, 50-51/2, 50-51/1, 74-77/1/1, 76/1, 74-77/2, 78/1, 79/1, 83, 82/2, 82/1, 97/1, 101/1, 102/1, 99-118/99/1/1, 99/2/1-118/2, 99/3/1-118/99/1, 48/3, 49/3, 50-51/3, 50-51/1, 73/3, 75/2, 79/2, 87/1-87/2, 85, 84, 97/2, 105, 104, 103, 102/3, 99/118/99/1/2, 99/118/99/2/4, 99/118/99/3/3	46/1, 47/1, 55, 52/2, 52/1, 54, 53, 49/1, 50-51/2, 50-51/1, 74-77/1/1, 76/1, 74-77/2, 78/1, 79/1, 83, 82/2, 82/1, 97/1, 101/1, 102/1, 99-118/99/1/1, 99/2/1-118/2, 99/3/1-118/99/1, 48/3, 49/3, 50-51/3, 50-51/1, 73/3, 75/2, 79/2, 87/1-87/2, 86, 85, 84, 97/2, 105, 106/1, 104, 103, 102/3, 99/118/99/1/2, 99/118/99/2/4, 99/118/99/3/3
सीहोर	सीहोर	कस्बा सीहोर	1004, 1006/1, 1021, 1022, 1102/1, 1149/1096, 1093, 1092, 1091, 1111/1, 1110, 1109, 1062/1119, 1119, 1004, 1006/1, 1006/2, 1021/2, 1021/3, 1102/5, 1102/1/3, 1101/6, 1049/1096, 1094, 1092, 1091, 1111/3, 1107, 1108, , 1109, 1062/1119	1004, 1006/1, 1021, 1022, 1102/1, 1149/1096, 1093, 1092, 1091, 1111/1, 1110, 1109, 1062/1119, 1119, 1004, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1021/2, 1021/3, 1102/5, 1102/1/3, 1101/6, 1049/1096, 1094, 1095, 1092, 1091, 1111/3, 1107, 1108, 1123, 1109, 1062/1119, 1120, 1121
सीहोर	सीहोर	रफीकगंज	366/6, 366/5, 369/1/1, 367/2-368/1/6, 369-370/1, 369-370/2, 369-370/2/5, 376/2/4, 376/2/2, 376/2/3, 379/1, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/1, 383/2, 383/3, 384, 385, , 386, 387, 388, 402, 389, 402/379, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 271, 228, 227/1/7, 229, 226/1/2, 226/1/5 ज, 226/1/2 ज, 226/1/3 ज, 224/2, 224/4, 224/5, 224/3, 223/1/3, 223/1/4, 223/1/5, 223/1/2	366/6, 366/1, 366/5, 369/1/1, 367/2-368/1/6, 369-370/1, 369-370/2, 369-370/2/5, 376/2/4, 376/2/2, 376/2/3, 378, 379/1, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/1, 383/2, 383/3, 393/1, 393/2, 393/3, 384, 385, 391, 386, 387, 388, 402, 389, 402/379, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271, 228, 227/1/7, 229, 226/1/2, 226/1/5 ज, 226/1/2 ज, 226/1/3 ज, 226/1/4 ज, 224/2, 224/4, 224/5, 224/3, 223/1/3, 223/1/4, 223/1/5, 223/1/2
सीहोर	सीहोर	नापलाखेड़ी	177/3, 176/2, 176/1, 175, 142/1, 126/2, 125/3, 125/5, 125/4, 124, 123, 153, 121, 120, 92, 91, 90, 88, 89, 80, 76, 75/1, 74, 72, 70, 32, 24, 23/1, 23/2, 20-21-22/1, 20-21-22/2, 19	177/3, 176/2, 176/1, 175, 142/1, 144, 126/2, 125/3, 125/5, 125/4, 124, 123, 121, 120, 92, 91, 90, 88, 89, 80, 77, 76, 75/1, 74, 72, 69, 70, 32, 24, 23/1, 23/2, 20-21-22/1, 20-21-22/2, 19

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	सीहोर	चितोडियाहेमा	175/3, 175/5, 175/3, 175/4, 176-177/5, 176-177/4, 176-177/6, 176-177/2, 178, 182/2, , 188/2, 262/2, 266/3, 266/2, 266/1, 267, 272, 274, 288/274, 275/2, 275/1	175/3, 175/5, 175/3, 175/4, 176-177/5, 176-177/4, 176-177/6, 176-177/2, 178, 182/2, 185, 186/2, 188/2, 188/1, 262/2, 266/3, 266/2, 266/1, 267, 272, 274, 273, 275/2, 275/1
सीहोर	सीहोर	खुशींदपुर	109, 105, 106/1, 60, 59/1, 63/2, 59/2, 68/2, 68/3, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 52, 49/1, 44, 45, 46, 47, 105, 106/3, 109, 65/1, 66/1, 65/2, 63/1, 66/2, 67/3, 101, 70/3, 7/1, 7/2, 49/3, 48	109, 105, 106/1, 60, 59/1, 63/2, 59/2, 68/2, 68/3, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 52, 49/1, 44, 45, 46, 47, 105, 106/3, 109, 65/1, 66/1, 65/2, 63/1, 66/2, 67/3, 101, 70/3, 7/1, 7/2, 49/3, 48
सीहोर	सीहोर	मालीपुरा	81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1 क, 83/1 ख, 83/1 ग, 83/1 घ, 83/2, 87, 88, 89/1, 89/2, 140/1, 143-144, 143-145, 146-150-102/2 क 1, 146-150-164/2 क-2, 146-150-164/2 क-4, 146-150-164/2 क-5, 146-150-164/2 क-6, 164/2, 164/1, 167	81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1 क, 83/1 ख, 83/1 ग, 83/1 घ, 83/2, 87, 88, 89/1, 89/2, 140/1, 143-144, 143-145, 146-150-102/2 क 1, 146-150-164/2 क-2, 146-150-164/2 क-4, 146-150-164/2 क-5, 146-150-164/2 क-6, 164/2, 164/1, 167
सीहोर	सीहोर	उदपुरा	4/2, 67/2, 67/3, 67/7, 67/8, 8/2, 8/1, 10, 11/1, 11/2, 15, 14/2	4/2, 67/2, 67/3, 67/7, 67/8, 8/2, 8/1, 10, 11/1, 11/2, 15, 14/2
सीहोर	सीहोर	जताखेड़ा	53/1 ख, 51/2, 52/4, 52/3, 53/6, 52/3, 53/6, 52/3, 53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 67/1/1 ख, 67/1/1, 67/1/2, 67/2, 68/5, 68/2, 88/1/1, 89, 91/1, 90, 92, 93/3, 94, 112/1, 113-114/1, 113-114/3, 124/548/2, 125/4, 125/3, 126/1, 126/3, 546, 552, 854/547, 553, 554, 228/1, 226/2/2, 226/2/1, 226/1, 218, 217, 216/2, 216/1/2, 216/1/1, 208, 207/1, 184/1, 184/3, 183/2, 183/1, 176/1, 176/2, 176/3, 175, 176/4, 176/5, 173, 176/6, 129/3, 129/2, 129/1, 128, 543	53/1 ख, 51/2, 52/4, 52/3, 53/6, 52/3, 53/6, 52/3, 53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 67/1/1 ख, 67/1/1, 67/1/2, 67/2, 68/5, 68/2, 88/1/1, 89, 91/1, 90, 92, 93/3, 94, 112/1, 113-114/1, 113-114/3, 124/548/2, 125/4, 125/3, 126/1, 126/3, 546, 552, 854/547, 553, 554, 228/1, 226/2/2, 226/2/1, 226/1, 225/5, 218, 217, 216/2, 216/1/2, 216/1/1, 208, 207/1, 184/1, 184/2, 184/3, 183/2, 183/1, 176/1, 176/2, 176/3, 175, 176/4, 176/5, 173, 176/6, 129/3, 129/2, 129/1, 128, 543
सीहोर	सीहोर	खोखरी	16/2, 16/1, 17/3, 17/2, 18, 11/4, , 11/3, , 11/2, 276/10/1, 10/4, 10/6, 10/5, 10/7, 8/2 ख, 26/1 क, 25, 23, 24/1, 24/2, 288/34/2, 288/34/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 40/3, 40/2, 41/1, 41/2, , 42/2, 42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7	16/2, 16/1, 17/3, 17/2, 18, 11/4, 11/1, 11/3, 11/5, 11/2, 276/10/1, 10/4, 10/6, 10/5, 10/7, 8/2 ख, 26/1 क, 26/1 ख, 25, 23, 24/1, 24/2, 288/34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 40/2, 41/2, 41/3, 42/2, 42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
सीहोर	सीहोर	लालाखेड़ी	159/6, 159/7, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 188/160/1, 160, 133, 132, 125/2, 131/1/1, 125/2, 131/2, 125/5, 164/1, 164/3, 164/2, 170/1, 171, 170/2, 170/3, 172/1, 172/2, 174	159/6, 159/7, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 188/160/1, 160, 133, 132, 125/2, 131/1/1, 125/2, 131/2, 125/5, 164/1, 166/1, 165/2, 165/1, 167/1, 170/4, 170/1, 167/2, 167/3, 167/4, 169/1, 171, 170/2, 170/3, 169/2, 169/3, 172/1, 173/1, 173/2, 172/2, 174
सीहोर	सीहोर	सोंडा	96/3, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/2 ख, 90/2, 26/1/7 ग, 26/1, 24/7, 24/5, 24/3, 23/1, 23/2, 127/17, 17, 16, 26/8, 27/1, 27/2, 29, 137/30, 190/1, 26/1/4, 26/1/2, 26/7, 26/10, 26/4	96/3, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/2 ख, , 26/1/7 ग, 26/1, , 24/5, , 23/1, 23/2, 127/17, 17, 16, 26/8, 27/1, 27/2, 29, 137/30, -, 26/1/4, 26/1/2, 26/7, 26/10, 26/4

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	भीलखेड़ी	65/4, 65/5, 145/6, 145/1, 110/2, 145/3, 94, 164/1, 163, 162/2, 162/1, 160, 159, 158/1, 154/1, 153/2, 148, 147	65/4, 65/5, 145/6, 145/1, 110/2, 145/3, 94, 164/1, 163, 162/2, 162/1, 160, 159, 158/1, 154/1, 153/2, 148, 147
सीहोर	आष्टा	गाडराखेड़ी	84/2, 92/2, 94, 39/7/1, 39/7/2, 39/7/3, 39/5, 38/2, 36, 34, 29, 27, 25, 24/4, 21/3, 21/2, 19, 20, 18/19, 18/18, 18/20, 17, 130, 96, 97/2, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 111, 113/2, 113/1, 112, 112/3, 98/1, 98/3, 98/1, 98/3	84/2, 92/2, 94, 39/7/1, 39/7/3, 39/5, 36, 34, 29, 25, 24/4, 21/3, 21/2, 19, 18/18, 18/20, 130, 96, 97/2, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 111, 113/2, 113/1, 112, 112/3, 98/1, 98/3, 38/2
सीहोर	आष्टा	लसुडिया खास	65/4, 65/3/2, 65/3/3, 65/3/4, 65/5, 65/1, 64/1, 58/6, 58/5, 58/7, 58/8, 57/8, 55/1, 55/2, 55/3, 54/2, 47/2, 47/1, 35/4, 46, 45/3, 44, 43, 42, 67/1, 67/3, 68/4, 68/1, 68/2, 68/3, 74/1, 74/3, 74/2, 75, 76, 78/2, 77, 108, 109/2, 109/1, 110/1, 110/11, 110/10, 110/8, 110/5, 110/4/2, 110/4/1, 110/4/5, 110/4/4, 110/4/3, 119/1	65/4, 65/3/2, 65/3/3, 65/3/4, 65/5, 65/1, 64/1, 58/6, 58/5, 58/7, 57/8, 55/2, 55/3, 54/2, 47/2, 47/1, 35/4, 46, 45/3, 42, 67/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68/4, 68/1, 68/2, 68/3, 68/25, 74/1, 74/3, 68/13, 74/2, 75, 76, 78/1, 78/2, 77, 108, 109/2, 109/1, 110/1, 110/11, 110/10, 110/8, 110/5, 110/4/2, 110/4/1, 110/4/5, 110/4/4, 110/4/3, 119/1
सीहोर	आष्टा	मानाखेड़ी	413/2, 423, 422/7, 422/6, 422/1, 422/4, 422/5, 419/10	413/2, 422/7, 422/6, 422/1, 422/4, 422/5, 419/10
सीहोर	आष्टा	कोठरी	201, 202, 203, 218, 217/1, 220, 224, 226, 229/1, 229/2, 230, 231/2, 232, 234/2, 233/1, 233/2, 234/1, 150/1, 149, 147, 146, 144/2, 144/1, 141/3, 139/1, 139/2, 600, 604, 603, 602, 601, 805/2, 808, 809/3, 809/2, 810, 811, 812, 820, 822/3, 822/2, 823, 828, 829, 832, 830, 854, 853, 856, 857, 892/5, 905, 906, 907, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 923/1, 923/2, 925/1925/2, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 316, 315, 314, 313, 312, 310, 309, 308, 300, 298, 297, 287, 263, 262, 259, 256, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4, 238/1, 238/14, 239, 5981, 1119, 1117, 1116, 1115, 1109/1, 1109/2, 1093/1, 1093/2, 1092, 1091, 932/2, 932/29, 932/31, 932/32, 316, 315, 314, 313/1, 313/2, 312, 310, 309, 308, 300, 298, 297, 287, 263, 262/1, 262/2, 256, 256, 255, 254, 236/1, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4, 239, 598/1 क. 598/7, 598/1, 598/1 ग. 549/1, 1176, 1119, 1120, 1117, 1116, 1121, 1115, 1110, 1109/3, 1109/1, 1093/1, 1093/2, 1095	201, 202, 203, 218, 217/1, 217/2, 220, 219/2, 224, 226, 229/1, 229/2, 230, 231/1, 232, 234/2, 233/1, 233/2, 234/1, 251/2, 150/1, 149, 148, 147, 146, 144/2, 145/1, 144/1, 141/3, 139/1, 139/2, 600, 604, 603, 602, 805/2, 804, 806, 808, 809/2, 810, 811, 812, 820, 821, 822/2, 823, 824, 828, 827, 829, 832, 831, 854, 853, 856, 858, 892/5, 905, 906, 907, 908, 909, 924/1, 923/1, 923/2, 925/1, 925/2, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 316, 315, 314, 313, 312, 310, 311, 309, 308, 319/1, 300, 298, 299, 297, 287, 263, 264, 265, 262, 259, 261, 256, 257, 258, 260, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/2, 237/1, 237/3, 237/4, 247, 238/1, 238/14, 238/13, 238/12, 239, 5981, 1119, 1116, 1115, 1110, 1109/1, 1109/2, 1093/1, 1093/2, 1092, 1091, 932/2, 932/29, 932/31, 932/32, 316, 315, 314, 313/1, 313/2, 312, 311, 310, 309, 319/1, 308, 300, 299, 298, 297, 275, 287, 264, 263, 262/1, 262/2, 261, 256, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 247, 238/6, 238/12, 238/13, 238/14, 238/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	बेदाखेडी	26/1/3, 26/1/1, 350/26, 28, 32/2, 33, 45, 48/2, 48/1, 52, 51,53,58/1, 61, 74, 76,82/3, 82, 218/3, 218/2, 218/1, 217, 206, 203, 204, 202/2, 202/1, 201, 200, 198/1, 194/1/2, 194/1/1, 194/2, 193/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191/2, 131, 84/1 क, 84/1 ख, 84/1 ग, 84/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/1, 86/1, 86/2, 87	26/1/3, 26/1/1, 350/26, 28, 32/2, 33, 45, 48/2, 48/1, 52, 51,53,58/1, 61, 74, 76,82/3, 82, 218/3, 218/2, 218/1, 217, 206, 203, 204, 202/2, 202/1, 201, 200, 198/1, 194/1/2, 194/1/1, 194/2, 193/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191/2, 131, 84/1 क, 84/1 ख, 84/1 ग, 84/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/1, 86/1, 86/2, 87
सीहोर	आष्टा	बमुलिया खींची	208, 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/4, 213/2, 213/1, 214/6, 214/1, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1, 228/2, 228/5, 227/1, 236/2, 236/1, 238, 309, 311, 313, 314, 315/2, 315/3, 315/1, 320/2, 320/3, 320/8, 320/14, 320/4/3, 320/4/2, 320/4/1, 320/5, 320/7, 320/11, 320/10, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 327/5, 327/1, 327/2, 327/4, 327/3, 328, 330, 331	208, 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/4, 213/2, 213/1, 214/6, 214/1, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1, 228/2, 228/5, 227/1, 227/2, 236/2, 236/1, 238, 309, 311, 313, 312, 314, 315/2, 315/3, 315/1, 320/2, 320/3, 320/8, 320/14, 320/4/3, 320/4/2, 320/4/1, 320/5, 320/7, 320/11, 320/10, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 327/5, 327/1, 327/2, 327/4, 327/3, 328, 330, 331
सीहोर	आष्टा	सैंधोखेडी	61/3, 61/2, 61/1, 62/2, 62/1, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 64/1, 49, 60/2, 60/1, 59, 57/4, 57/1, 57/5, 66, 67, 68	61/2, 61/1, 62/2, 62/1, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 49, 60/2, 60/1, 59, 57/4, 57/1, 57/5, 66, 67, 68
सीहोर	आष्टा	दलपतपुरा	104/1, 105/1ग/क, 105/1ग/ख, 105/1ग/ग, 105/1ग/घ, 108/2, 110/1, 110/3, 111, 56/1, 56/5, 56/4, 56/6, 54, 56/8 क, 56/9, 56/8 ख, 127/1, 129/1/1, 126, 129/1/2, 124/1, 124/2, 132, 119, 118/1, 118/2, 117, 116, 114/1, 113/1, 113/3, 114/1	104/1, 103, 105/1ग/क, 105/1ग/ख, 105/1ग/ग, 105/1ग/घ, 108/2, 110/1, 110/3, 111, 56/1, 56/5, 56/4, 56/6, 54, 56/8 क, 56/9, 56/8 ख, 127/1, 129/1/1, 126, 129/1/2, 124/1, 124/2, 132, 119, 118/1, 118/2, 116, 113/1, 113/3
सीहोर	आष्टा	किलेरामा	31/1, 29/3, 29/4, 30/1, 22/1, 21, 19/3, 15/1, 15/3, 14/2, 40/2, 39/1, 40/1, 41, 58/1, 58/2, 58/3, 55/4, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 64/1, 65/1, 67/1, 67/2, 70/1, 71/1, 31/8, 31/4, 31/3, 30/3, 35, 36, 37/2, 86, 85, 82/1, 81, 82/3, 80/1, 80/4, 80/10, 80/9, 80/8, 77, 76/1, 76/2, 75/5, 75/2, 75/3, 75/6, 75/1, 75/4, 73/2, 73/1, 72	31/1, 29/3, 29/4, 30/1, 23/1, 22/1, 21, 19/3, 15/1, 16, 14/1, -, 14/2, 13, 40/2, 39/1, -, 41, 42, 58/1, 58/2, 58/3, 55/4, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 64/1, 65/1, 67/1, 67/2, 70/1, -, 31/8, 31/4, 31/5, 31/3, 32, 30/3, 35, 36, 37/2, 86, 85, 84, 82/1, 81, 82/3, 80/2, 80/1,80/4, 80/10, 80/9, 80/8, 77, 76/1, 76/2, 75/5, 75/2, 75/3, 75/6, 75/1, 75/4, 73/2, 73/1, 72
सीहोर	आष्टा	शहबाजपुरा	72, 59/2, 56, 55, 54, 56, 87, 88/1, 72, 73, 78, 79, 51, 52, 48, 47, 46, 87,88/1, 89/1	72, 59/2, 56, 55, 54, 56, 87, 88/1, 72, 73, 78, 79, 51, 48, 47, 46, 87, 86, 88/1, 89/1
सीहोर	आष्टा	डोराबाद	43, 42, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 93, 94, 186/114, 944/2, 43, 48, 45/2, 46, 38, 37, 91, 93, 94, 186/114	42, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 93, 94, 186/114, 188/114, 944/2, 43, 48, 45/2, 46, 37, 91, 93, 92, 94, 186/114
सीहोर	आष्टा	काजीखेडी	118/1, 118/2, 140/1, 152/1, 151/4, 151/3, 159, 160, 172, 171, 170/3, 169, 118/1, 118/2, 140/1, 141/1,152/2, 151/4, 151/3, 150, 172, 171, 170/2,169	117/2, 118/2, 140/1, 152/1, 151/4, 151/3, 159, 160, 172, 171, 170/3, 169, 118/1, 120, 118/2, 119, 141/1, 141/2, 147/1, 151/4, 151/3, 149/1, 150, 172, 171, 170/2, 170/1, 169, 174
सीहोर	आष्टा	अलीपुर	5/2, 11/1, 11/2, 12, 15, 16/2, 20, 19, 21, 22/2, 23/1, 41, 40/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 14, 20, 44/1, 22/2, 44/2, 22/1, 23/1, 41	5/2, 11/1, 11/2, 12, 15, 16/2, 20, 18/2, 19, 21, 22/2, 23/1, 41, 40/2, 12, 13/2, 13/1, 14, 20, 44/1, 22/2, 44/2, 22/1, 23/1, 41

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	बहादुरपुरा	3/1 क, 3/2, 3/1, 195/3/1, 3/2, 195/3/2, 3/1, 195/4, 196/7, 3/1, 195/5, 8/1, 8/2, 8/3 क, 10, 9/1, 16-17/1, 6/2, 9/3-19/1, 9/3-19/4, 9/3-19/5	3/1 क, 3/2, 3/1, 195/3/1, 3/2, 195/3/2, 3/1, 195/4, 3/1, 195/5, 8/1, 8/2, 8/3 क, 10, 9/1, 16-17/1, 16-17/2/2, 9/3-19/1, 9/3-19/4, 9/3-19/5, 9/3-19/6, 9/3-19/8
सीहोर	आष्टा	मालीपुरा	33, 36, 37, 221/64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76/2/3, 76/1क/5, 76/1ख/5, 78	33, 36, 37, 221/64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76/2/3, 76/1क/5, 76/1ख/5, 78
सीहोर	आष्टा	चांचरसी	5/7, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/3, 8/2, 16, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12	5/7, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/3, 8/2, 16, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12
सीहोर	आष्टा	पगारियाचोर	3, 3/1/2 क, 3/1/3, 3/25, 738/4/5, 738/4/4, 738/4/6, 307/1ख/3, 307/1/1, 100/1, 100/2, 101, 79/3, 79/1, 79/4, 79/2, 78/1, 76/1, 76/2, 75/2, 75/3, 70, 68-69/1, 68-69/2, 68-69/3, 67/1, 66/3, 26-27/7, 26-27/8, 26-27/4, 28/2, 722/49, 47, 46, 309, 307/1ख/2, 307/3, 100/1, 101	3, 3/1/2 क, 3/1/3, 3/25, 738/4/5, 738/4/4, 738/4/6, 307/1ख/3, 307/1/1, 100/2, 101, 79/3, 79/1, 79/4, 79/2, 78/1, 76/1, 76/2, 77, 75/2, 75/3, 74, 70, 68-69/1, 68-69/2, 67/1, 66/3, 26-27/7, 26-27/8, 26-27/4, 28/2, 722/49, 49, 47, 46, 309, 307/1ख/2, 307/2, 307/3, 100/1, 101
सीहोर	आष्टा	भिर्जापुर	14/2	14/2
सीहोर	आष्टा	चिरनोटा	140/1, 148/1, 149/1/2, 151/1 ख, 151/2, 152/1/1ग, 536/1/ क/1/2, 536/1/ क/2, 536/3/9 क, 536/5/3/9 ख, 536/5/3/2, 138/4, 139, 140/1-148/1-149/1/6, 140-148/1-149/1/2, 140/3, 148/1, 140/1-148/1-149/1/3, 140/1-148/1-149/1/4, 151/1 क 4, 151/1 ख, 151/2, 152/2 क, 152/2 ख, 152/2 ग, 152/2 घ, 536/1 क 2, 536/1 क 6, 536/5/2, 536/5/3/2, 536/5/3/3, 534/1-534/2/1 क, 144/1/1, 144/1/2, 144/2, 144/3, 542/145 क, 542/145 ख, 542/145 ग, 542/145 घ, 542/145 ङ	140/1, 148/1, 149/1/2, 151/1 ख, 151/2, 152/1/1ग, 536/1/ क/1/2, 536/1/ क/2, 536/3/9 क, 536/5/3/9 ख, 536/5/3/2, 138/4, 139, 140/1-148/1-149/1/6, 140-148/1-149/1/2, 140/3, 148/1, 140/1-148/1-149/1/3, 140/1-148/1-149/1/4, 151/1 क 4, 151/1 ख, 151/2, 152/2 क, 152/2 ख, 152/2 ग, 152/2 घ, 536/1 क 2, 536/1 क 6, 536/5/2, 536/5/3/2, 536/5/3/3, 534/1-534/2/1 क, 534/1-534/2 ख, 144/1/1, 144/1/2, 144/2, 144/3, 542/145 क, 542/145 ख, 542/145 ग, 542/145 घ, 542/145 ङ
सीहोर	आष्टा	हकीमपुर	419/1/1, 477/1/5/1, 477/1/1, 477/5/1, 477/5/2, 479	419/1/1, 477/1/5/1, 477/1/1, 477/5/1, 479
सीहोर	आष्टा	रूपेटा	1/2, 1/1, 167/1/24, 3/1	1/2, 1/1, 167/1/24, 3/1
सीहोर	आष्टा	फूडरा	709/13/1, 711, 709/1/2, 711, 709/13/3	709/13/1, 711, 709/1/2, 711, 709/13/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	डोंडी	351/6 ख, 351/6 क 351/7, 351/6/1 क, 351/6 च, 353/1 घ, 353/1/1/1/1, 353/1/1/1/2, 353/21/1, 353/18/1, 353/5/1, 353/6/1, 353/15/1, 353/14/1, 353/13, 353/1/2, 353/24/1, 353/24/5, 353/24/4, 73/2, 73/1, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3, 84/2, 84/1, 85/1-87/2, 87/1/1/1, 87/1/1/1/3, 88/1, 90/2, 90/7, 90/6, 90/4, 92/1, 94/1, 94/2, 251/6, 251/5, 251/4, 254-255-256/1 घ, 254-255-256/1 क, 256/14, 260/1, 262/5/1, 336/248, 349/2, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 277, 273, 275, 274-279, 251/8, 257/1, 257/2, 257/3, 260/4, 260/2, 339-345/1, 339-345/2, 346/1, 346/2, 347/1/1, 349/4, 355/2/1, 355/2/2, 355/3/1, 355/3/3, 355/3/4, 355/5/1, 355/5/3, 355/5/2, 355/5/6, 355/7, 355/8, 353/14/3, 353/24/3, 355/17/1, 355/17/2	351/6 ख, 351/6 क 351/7, 351/6/1 क, 351/6 च, 351/6 घ, 353/1 घ, 353/1/1/1/1, 353/1/1/1/2, 353/21/1, 353/4, 353/18/1, 353/5/1, 353/9, 353/2/1/1, 353/6/1, 353/15/1, 353/14/1, 353/13, 353/1/2, 353/24/1, 353/24/5, 353/24/4, 73/2, 73/1, 74/2, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3, 84/2, 84/1, 85/1-87/2, 89/4, 88/1, 90/1, 90/2, 90/4, 92/1, 97, 94/2, 94/2, 251/6, 251/5, 251/4, 251/3, 254-255-256/1 घ, 254-255-256/1 ख, 254-255-256/1 क, 256/14, 256/16, 260/1, 262/3, 262/5/1, 336/248, 349/2, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 277, 276, 273, 275, 274-279, 251/8, 257/1, 257/2, 257/4, 257/3, 258, 260/4, 292, 243, 240-241, 339-345/1, 339-345/2, 339-345/6, 339-345/5, 339-345/4, 338, 336/1, 346/2, 347/1/1, 349/4
सीहोर	आष्टा	काकरियाखेडी	351/6 ख, 351/6 घ, 351/6 च, 233-235/8, 233-235/2, 234/3, 233-235/3, 233-235/4, 233-235/5, 233-235/6, 233-235/7, 236, 237/2, 238/9, 238/8, 238/7, 238/10, 238/6, 238/5, 246/1/1, 244/1/1/2, 244/1/1/1, 244/17, 244/16	351/6 ख, 351/6 घ, 351/6 च, 233-235/8, 233-235/2, 234/3, 233-235/3, 233-235/4, 233-235/5, 233-235/6, 233-235/7, 236, 237/2, 238/9, 238/8, 238/7, 238/10, 238/6, 238/5, 246/1/1, 244/1/1/2, 244/1/1/1, 244/17, 244/16
सीहोर	आष्टा	झिलेला	9, 10/2, 9, 10/1, 7-31/2, 17, 19, 21, 23, 24, 26/3, 22, 28, 29, 52, 67, 66, 65, 68/3, 68/1, 69, 72, 72/2, 73, 75, 76, 110/1, 112, 113, 110/2, 108, 109, 114/2/6, 108, 109/5, 114/2/4, 107/1/1, 107/1/2, 106/1/1 क, 106/1/1 ख, 106/1/2, 106/1/3, 106/1/4, 106/1/5, 106/1/6, 106/1/7, 105/1, 103/1, 105/1, 104, 99-100/1, 99-100/2, 99-100/3, 98/1, 98/2, 98/3, 96, 94/2, 94/1, 93/4, 92/1, 92/2, 93/3, 92/3, 93/1, 90/2, 90/1, 89, 88/1, 87/1, 78-85-86/10, 78-85-86/9, 78-85-86/8, 78-85-86/7, 78/1ख, 78/1क, 78/2क, 79	9, 10/2, 9, 10/1, 7-31/2, 17, 19, 21, 23, 24, 26/3, 22, 28, 29, 52, 67, 66, 65, 68/3, 69, 72, 72/2, 73, 74, 75, 76, 110/1, 112, 113, 110/2, 108, 109, 114/2/6, 108, 109, 114/2/3, 107/1/1, 107/1/2, 107/2, 106/1/1 क, 106/1/1 ख, 106/1/2, 106/1/3, 106/1/4, 106/1/5, 106/1/6, 106/1/7, 103/1, 105/1, 105/1, 104, 99-100/1, 99-100/2, 99-100/3, 98/2, 98/3, 96, 94/2, 94/1, 95, 92/1, 92/2, 93/3, 92/3, 93/1, 93/2, 91/1, 91/2, 90/2, 90/1, 89, 88/1, 88/2, 87/2, 87/1, 210, 78-85-86/10, 78-85-86/9, 78-85-86/8, 78-85-86/7, 80-86/2ख, 78-86/2ग, 78/1ख, 78/1क, 78/2क, 79
सीहोर	आष्टा	भाऊखेडी	31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 33/1, 36/1 क, 37, 58, 56, 60, 61, 55, 62, 64, 65, 66, 67	31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 33/1, 36/1 क, 37, 58, 56, 60, 61, 55, 62, 64, 65, 66, 67
सीहोर	आष्टा	गुराडिया बांडा	3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 5, 7/2, 8/2, 9/3, 10/2, 11/1, 11/2, 282/2/1, 282/2, 282/2 ख, 282/3, 282/12, 37/3, 37/2, 41/1, 41/2, 42, 40-59/1, 60/2, 39/2, 39/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70-71-72/1, 70-71-72/2, 70-71-72/3, 73/1, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95-94/3, 281/192, 191, 192	3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 5, 7/2, 8/2, 9/3, 10/2, 10/1, 11/2, 11/3, 282/2/1, 282/2, 282/3, 282/12, 37/3, 37/2, 41/1, 41/2, 42, 44, 43, 40-59/1, 60/2, 39/2, 61, 39/1, 69/1, 68/3, 69/2, 69/3, 70-71-72/1, 70-71-72/2, 70-71-72/3, 73/1, 73/2, 92/1, 92/3, 92/2, 93, 94/1, 91/1, 94/2, 95-94/3, 281/192, 191, 192, 193/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	भावखेड़ा	69, 70/1, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 74/1 ग, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 75, 76/2, 79, 80, 81/1, 126, 127, 128/1/1	69, 70/1, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 74/1 ग, 72, 73/1, 74/1 ख, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 75, 76/2, 78, 79, 80, 81/1, 126, 127, 128/1/1
सीहोर	आष्टा	शेखूखेड़ा	450, 455, 462/2, 463, 464, 441/2, 441/1/2, 441/1/1, 442, 591/441, 598/439/4, 598/439/1, 437/3, 437/2, 436/2, 437/1 क, 435/3 क, 435/3 ख, 435/2, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322, 327, 328/2, 332/2, 330, 343/2, 345, 344/1, 374/345, 576/348/2 ख, 348/1/2 ख, 348/3, 349/348/578, 350/2, 359, 363, 364/1, 364/2/2, 360, 361, 362, 363, 364/1, 634/2/10, 363, 364, 364/2/1 ख, 363, 364/1 364/2/1 ग, 366, 417, 412, 413/2/1, 412, 413/2/2, 476/1, 476/3, 476/4, 472, 473, 471, 470/1, 470/2, 470/3470/4, 468/1 467, 466, 500, 501, 504, 594/505/2, 594, 505/1, 505/5 ग, 505/5 ख, 513, 514, 515, 430, 429, 431, 428, 426/1, 425, 426/3, 427/1, 426, 427, 425/4, 423/2, 421/3, 420/6, 596/420/1/1, 420/1, 596/420, 420, 596/420/1/2, 420, 596/420/1/3, 420/4, 420/5, 420/2, 420/16, 420/8, 420/12, 584/420/2, 535/420	450, 455, 462/2, 462/1, 457/3, 463, 464, 441/2, 441/1/2, 441/1/1, 442, 591/441, 598/439/4, 598/439/1, 437/3, 436/1, 437/2, 436/2, 437/1 क, 436/3 क, 436/3 ख, 435/3 क, 435/3 ख, 435/2, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322, 327, 328/2, 328/1, 332/2, 332/1, 330, 343/2, 345, 344/1, 374/345, 576/348/2 ख, 348/1/2 ख, 348/3, 349/348/578, 350/2, 359, 363, 364/1, 364/2/2, 360, 361, 362, 363, 364/1, 634/2/10, 363, 364, 364/2/1 ख, 363, 364/1 364/2/1 ग, 366, 417, 414/1/1, 412, 413/1, 412, 413/2/1, 412, 413/2/2, 476/1, 476/3, 476/4, 472, 473, 471, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 468/1, 467, 466, 500, 501, 504, 594/505/2, 594, 505/1, 505/5 ग, 505/5 ख, 513, 514, 515, 430, 429, 431, 428, 426/1, 425, 426/3, 427/1, 426, 427, 425/4, 423/2, 421/3, 420/6, 596/420/1/1, 420/1, 596/420, 420, 596/420/1/2, 420, 596/420/1/3, 420/4, 420/5, 420/2, 420/16, 420/8, 420/12, 584/420/2, 535/420
सीहोर	आष्टा	गुराडिया माण्डा	14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26/1 ख, 1, 43/1 क, 44/1, 44/2, 46/6, 66/5, 66/4, 63, 64/1/क/1, 63, 64/1/क/2, 68, 69, 70, 71, 132/72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 97/2, 98/3, 98/2, 98/1 ख, 98/1 क, 118, 119/3, 119/1, 119/2, 120/4, 120/1, 134/122, 122/5	14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26/1 ग/2, 43/1 क, 44/1, 44/2, 66/5, 66/4, 63, 64/1/क/1, 63, 64/1/क/2, 68, 69, 70, 71, 132/72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 97/2, 97/1, 98/3, 98/2, 98/1 ख, 98/1 क, 118, 119/3, 119/1, 119/2, 120/4, 120/1, 134/122, 122/5

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	आष्टा	मेहतवाड़ा	458, 456, 445/2, 444, 443, 442, 441, 440, 437/2, 432/1, 430, 429, 420, 421, 418, 415, 414/1, 413, 1318/412, 409, 204, 202, 205, 206, 249, 250, 248, 247/1, 246, 255, 233, 232, 1295/259, 311, 310, 307, 308, 309, 347, 352, 354, 1117, 1119, 1122, 1199/2, 1124, 1096, 1124, 1095, 1127, 1130/1, 1130/2, 1132, 1133, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 441, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 492/1, 491/1, 491/2, 494, 496/1, 496/2, 495, 498, 499, 400, 502, 503, 135/504, 504, 537, 538, 411/3, 411/2, 411/5, 410/2, 406/1, 406/2, 407/2, 407/3, 203/1, 203/2, 203/3, 205, 1207/251/1, 251/2, 251/1, 255/2, 255/1, 254, 256, 223/2, 257, 239, 259, 260, 258-316/1, 312, 310/2, 313, 346, 350/1, 350/2, 347/1, 347/2, 352/1, 352/2, 354/2, 1115/1, 1115/2, 1114/1, 1119, 1109/1, 1109/2, 1120-1121/2, 1100/1, 1100/2, 1098, 1094, 1097, 1087, 1150, 1149, 1148/1, 1147/1, 1143, 1142, 1141, 1140-1142-1143-1144-1145/1, 1138/2, 1038/1	458, 456, 455, 445/2, 451, 1319/446, 444, 443, 442, 440, 437/2, 432/1, 433, 434, 429, 428, 421, 418, 415, 414/1, 413, 414/2, 1318/412, 409, 202, 201, 206, 249, 248, 246, 255, 233, 232, 1295/259, 311, 307, 308, 309, 347, 352, 1118, 354, 1122, 1199/1, 1124, 1096, 1124, 1095, 1127, 1126, 1131/2, 1130/1, 1132, 1133, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 441, 460-462/3, 460-462/2, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 487/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 492/1, 492/2, 491/2, 493, 494, 496/1, 496/2, 495, 497, 498, 499, 400, 501, 502, 505, 135/504, 504, 537, 538, 544/1, 411/2, 411/5, 410/2, 406/1, 406/2, 407/2, 407/3, 203/1, 203/2, 203/3, 205, 1207/251/1, 1207/251/2, 251/2, 251/1, 251/3, 254, 256, 223/2, 257, 239, 260, 258-316/2, 258-316/1, 312, 313, 346, 350/1, 350/3, 350/4, 347/1, 352/1, 351, 1299/352, 354/2, 1115/1, 1115/2, 1114/1, 1114/2, 1119, 1109/1, 1109/2, 1120-1121/2, 1100/1, 1100/2, 1101/1, 1098, 1094, 1097, 1087, 1150, 1149, 1147/1, 1143, 1142, 1141, 1140-1142-1143-1144-1145/1
सीहोर	आष्टा	कुडिया धागा	498/3, 498/2, 498/4, 500/1/1, 500/5/2, 500/3, 501, 502/3, 498/5, 500/5/2, 501, 502/1/5, 501, 502/1/2, 501, 502/1/2/3	498/3, 498/1, 498/2, 498/4, 500/1/1, 500/5/2, 500/3, 501, 502/3, 498/5, 500/5/2, 501, 502/1/5, 501, 502/1/2, 501, 502/1/2/3
सीहोर	आष्टा	सेमलीवारी	298/111, 15/1/1, 15/1/3 ख, 15/1, 16/2, 18/1, 19, 25/2, 25/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 27/1, 37, 39/1, 41, 42, 48, 47, 52, 103, 104/2, 103, 104/1, 94, 100/2, 111/4, 111/2, 304/111, 114, 140/1, 140/2, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 147, 148-149/1, 148-149/2, 219, 229/1, 229/2, 227-230/1, 227-230/2, 231/2/1, 232/1, 232/2, 233, 103-104/1, 103-104/3, 102/2/2 ख, 101, 99/3	298/111, 15/1/1, 15/1/3 ख, 15/1, 15/2, 16/2, 16/1, 18/1, 19, 24, 25/2, 25/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 27/1, 37, 39/1, 43, 42, 44, 47, 52, 53, 103, 104/2, 103, 104/1, 94, 111/4, 111/2, 304/111, 301/111, 300/111, 114, 140/1, 140/2, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 145, 147, 148-149/1, 148-149/2, 219, 229/1, 229/2, 227-230/1, 227-230/2, 226/1, 231/2/1, 231/2/2, 232/1, 232/2, 233, 236, 103-104/1, 237/2, 103-104/3, 102/2/2 ख, 100/1, 101, 99/3
सीहोर	आष्टा	पगारियाराम	311/2, 311/1, 3/4, 109, 64, 63, 62, 61, 60, 59/1, 56, 723/56, 55, 54, 52, 53	311/2, 311/1, 3/4, 109, 63, 62, 61, 60, 59/1, 56, 723/56, 54, 52, 53
सीहोर	इछावर	भाड़ाखेडी	94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 99, 106, 107, 108, 113/8, 129/1, 129/3, 125, 126	94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 99, 106, 107, 108, 113/8, 129/1, 129/3, 125, 126

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
सीहोर	इछावर	अमलाहा	292/1, 292/2/1, 292/2/2, 300/1/2, 300/2, 300/1/6, 301, 302/2/2, 303, 336, 337, 332/5, 271/1, 271/4/14, 271/4/3, 271/4/2, 271/4/1, 270/1, 269, 268, 266, 265, 251, 215, 214, 213, 212, 210, 208, 205/9, 205/8, 205/1, 204, 205/2/1, 205/2/2, 203/1, 203/2, 203/3, 202, 201/2, 201/1, 354/1, 354/2, 354/3, 354/5, 352/1/4, 352/2, 352/1/3, 353, 351, 347, 348/1/1, 348/1/2, 348/2, 348/3, 346/1, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 344/1, 344/3, 343, 338, 342, 385, 400, 402, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/12, 408, 409, 450, 451, 452, 453, 454, 456/1, 476/1, 494, 495, 498, 500, 508/1	292/1, 292/2/1, 292/2/2, 300/1/2, 300/2, 300/1/6, 301, 302/1/14, 302/1/1, 303, 336, 337, 332/2, 332/3, 332/5, 271/1, 271/4/14, 271/4/3, 271/4/2, 271/4/1, 270/1, 269, 268, 266, 265, 251, 215, 214, 213, 211, 212, 210, 208, 205/9, 205/8, 205/1, 205/2/1, 205/2/2, 203/1, 203/2, 203/3, 202, 201/2, 201/1, 354/1, 355/1, 354/2, 354/3, 354/5, 354/6, 352/1/4, 352/2, 352/1/1, 352/1/3, 353, 348/1/1, 348/1/2, 348/2, 348/3, 346/1, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 344/1, 344/3, 343 - 342, 341, 340/3, 340/2, 340/1, 385, 400, 402, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/12, 407/13, 408, 409, 450, 451, 452, 453, 455/3, 455/1, 456/1, 476/1, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 508/1
देवास	सोनकच्छ	दौलतपुर	503, 504, 505, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 473/1, 473/5, 473/7, 473/2, 472, 471/6, 471/5, 471/4, 471/3, 471/2, 470, 443, 442, 438, 427, 425, 426, 387, 386, 385, 384, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 362, 361, 359, 358, 357, 356, 354, 353, 352/2, 352/1, 351/1, 351/2, 350, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 794, 795, 797, 798, 799, 803, 804/1, 804/2/1, 804/2/2, 805/1, 805/2, 805/3, 806/3, 806/2, 806/1, 807, 850, 532, 531, 534, 535, 536, 548, 549/1, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 561, 562, 623/1, 624, 625, 626, 633, 634, 698, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 717, 716, 732/1/2, 792/1, 792/2, 793, 794	503, 504, 505, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 473/1, 473/7, 473/2, 472, 471/6, 471/5, 471/4, 471/3, 471/2, 470, 443, 442, 471/2, 470, 443, 442, 387, 384, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 362, 361, 359, 358, 357, 356, 354, 353, 352/1, 351/1, 351/2, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 794, 795, 797, 798, 799, 803, 804/1, 804/2/1, 804/2/2, 805/1, 805/2, 805/3, 806/3, 806/2, 806/1, 807, 850, 532, 531, 533, 534, 535, 537, 548, 549/1, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 561, 562, 622, 623/1, 623/2, 624, 626, 627, 633, 634, 698, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 718, 717, 716, 732/1/2, 792/1, 791, 792/2, 793, 794, 716, 425, 387
देवास	सोनकच्छ	अगेरा	377, 451, 453, 456, 458, 459, 463, 465, 466/3, 466/2, 467, 470, 471, 472, 162, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483/3, 355/1, 356/1, 357/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 369/1, 370/1, 377/1/2, 378, 379/1, 452/1, 451/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 460, 463/1, 465/1, 466/3/1, 466/4, 466/2/1, 467/1, 470/1/1, 471, 473, 474, 475, 481/1, 482/1/1, 482/2/1, 482/3/1, 483/1/1, 483/2/1, 483/3/1, 485, 486, 488, 489, 505, 506, 512, 516, 517, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583/1, 587, 588/3, 589/1, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 605	377, 451, 453, 456, 458, 459, 463, 465, 466/3, 466/2, 467, 470, 162, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483/3, 355/1, 356/1, 357/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 369/1, 370/1, 371/1, 377/1/2, 378, 379/1, 452/1, 451/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 460, 463/1, 465/1, 464/2, 466/3/1, 466/4, 466/2/1, 466/1, 467/1, 468/2, 469/2, 470/1/1, 471, 473, 474, 475, 481/1, 482/1/1, 482/2/1, 482/3/1, 480/3, 483/1/1, 483/2/1, 483/3/1, 485, 486, 488, 489, 505, 506, 507, 512, 516, 517, 518, 519, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583/1, 583/2, 587, 588/3, 589/1, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 605

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	पिलवानी	115, 116, 117, 119, 118, 128, 129, 130, 161, 206, 207/1, 207/2, 207/3, 208, 210, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 253, 254, 255, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 216	113/1, 115, 116, 117, 114, 113/2, 119, 118, 128, 129, 130, 161, 206, 207/1, 205, 207/2, 207/3, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 218, 219/1, 219/2, 229/2, 229/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 216
देवास	सोनकच्छ	कराडियागदा	686/1, 690/1, 612, 611/3, 610/1, 608/1, 605, 602/1, 599/1, 598/1, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 532/1, 675/3, 697, 693, 694, 695, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 754, 758, 759, 762/1, 762/2, 772, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2	686/1, 688, 690/1, 613, 614, 612, 611/1, 611/3, 610/1, 608/1, 607, 605, 603, 601, 602/1, 599/1, 598/1, 595/4, 595/3, 597/1, 596, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 539, 532/1, 675/3, 697, 693, 694, 696, 695, 701, 703, 702, 704, 705, 715, 706/1, 706/2, 754, 758, 759, 760, 762/1, 762/2, 773, 772, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2
देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छी	11, 12, 13, 14, 48, 52, 53, 59, 60, 60, 71/1, 71/2, 71/3, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 183, 11/1, 12/1, 13/1/2, 14/2, 48/1, 52/1, 53/1, 59/1/2, 60/1, 70/1, 72/1, 72/2, 175/1, 176/1, 178/1, 179/1, 181/1, 182/1, 184/1, 101/1	11, 12, 13, 14, 48, 52, 53, 59, 60, 61, 60, 71/2, 71/3, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 183, 11/1, 12/1, 10/2, 13/1/1, 10/1, 14/2, 48/1, 47, 49, 52/1, 53/1, 54, 59/1/2, 60/1, 61, 70/1, 72/2, 175/1, 176/1, 178/1, 179/1, 180, 181/1, 182/1, 183, 184/1, 101/1
देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छ	358/1, 358/2, 356/1, 353/3, 352/6, 352/1, 265/2, 266/4, 266/1, 266/2, 329/1, 266/3, 268, 328/1, 273, 274/1, 276/2, 277/1, 277/2, 272/1, 322/1, 321, 307/2, 307/1, 601, 602/1, 605, 604/3, 604/2, 625, 626, 624, 627	358/1, 358/2, 356/1, 353/3, 352/6, 352/1, 265/2, 266/4, 266/1, 266/2, 329/1, 266/3, 268, 328/1, 273, 274/1, 276/2, 277/1, 277/2, 272/1, 322/1, 321, 307/2, 307/1, 601, 602/1, 605, 604/3, 604/2, 625, 626, 624, 627
देवास	सोनकच्छ	सावेर	77/1, 77/2, 252/2, 253/3, 253/1, 254, 256/1, 255, 258, 259, 260, 261/1, 262/1, 269/1, 268, 270/1, 280/2, 280/3, 282/1, 283/2, 284, 292/1, 293/1, 294/1, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 135/1, 139/2, 140/2, 140/1, 249, 250, 248, 247, 241, 242, 245, 476/1, 477/1, 478/1, 481, 486/2, 486/1, 454/1, 428, 379/2, 379/1, 379/3, 380/1, 381, 417/1, 416/1, 415/1-414/1, 407, 406, 546/1, 295/3, 276/3, 477/3, 478/4, 487, 486/3, 491, 454/3, 418/1, 427, 426, 424, 425, 419, 417/3, 414/3, 545/3, 546/3	77/1, 77/2, 252/2, 253/3, 253/1, 254, 256/1, 255, 258, 259, 260, 261/1, 262/1, 263, 269/1, 268, 270/1, 280/2, 280/1, 280/3, 282/1, 283/1, 283/2, 284, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 135/1, 139/2, 140/2, 140/1, 249, 250, 248, 247, 241, 242, 245, 476/1, 477/1, 478/1, 479, 481, 486/2, 484, 486/1, 485, 454/1, 428, 379/1, 379/3, 380/1, 381, 382, 417/1, 416/1, 415/1-414/1, 412/1, 413, 407, 406, 405, 404, 546/1, 295/3, 276/3, 477/3, 478/4, 487, 486/3, 489, 491, 454/3, 427, 426, 424, 425, 419, 417/3, 420, 414/3, 545/3, 546/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	रोलूपिपलिया	1040, 1041, 1042, 738, 1045, 1044, 1043, 1047, 1050, 1053, 1026, 1056, 1058, 1062, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1070, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092/2, 1092/1, 1093, 1040/1, 1034, 1041/1, 1033/1, 1033/2, 1042/1, 1043/2, 1044/1, 1031, 1045/1, 1047/1, 1050, 1052/1, 1051, 1053/1, 1026/1, 1056/1, 1057, 1058/1, 1062/2, 1064/1, 1063, 1065/3, 1067/1, 1067/3, 1070/1, 1071/1, 1079/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094/1, 1097, 1098, 1099, 1100, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1157, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/1, 1201/3, 1208, 1209, 1210, 1211, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234	1040, 1041, 1042, 738, 1045, 1044, 1043, 1047, 1050, 1053, 1026, 1056, 1058, 1062, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1070, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092/2, 1092/1, 1093, 1040/1, 1034, 1041/1, 1033/1, 1033/2, 1042/1, 1043/2, 1044/1, 1031, 1045/1, 1046, 1029, 1050, 1052/1, 1051, 1026/1, 1057, 1058/1, 1062/2, 1062/1, 1063, 1065/4, 1066/2, 1066/3, 1067/1, 1070/1, 1069, 1072, 1073, 1074, 1079/1, 1078, 1080/1, 1090/1, 1089, 1091/1, 1092/1, 1093, 1094/1, 1087, 1097, 1098, 1099, 1100, 1124, 1122, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1134, 1135, 1137, 1136, 1138, 1157, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/1, 1201/3, 1208, 1209, 1214, 1210, 1213, 1212, 1211, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1237/2, 1235/2,
देवास	सोनकच्छ	फावड़ा	155, 156, 157, 167, 168, 169, 170, 176, 175, 177, 174, 184, 185, 186, 187, 193, 192, 195, 194, 196, 199, 234, 233, 231, 230, 243, 245/1, 247, 287, 292, 294, 295, 296, 317, 319, 314, 649, 648, 647, 646, 642, 641, 627, 626, 625, 624, 623/1, 623/2, 622, 570, 569, 568, 567/1, 567/2, 567/3, 566/1000, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 562/1002, 559, 555, 554, 553, 552, 551, 402, 400, 399, 397, 398, 396, 395, 394, 358, 321, 322, 323,	155, 156, 157, 158, 167, 168, 166, 169, 170, 176, 177, 178, 174, 184, 183, 185, 186, 187, 188, 193, 192, 194, 196, 199, 234, 247, 287, 292, 294, 295, 296, 317, 319, 314, 649, 648, 647, 646, 642, 641, 627, 628, 626, 625, 624, 623/2, 622, 570, 569, 576, 568, 578, 567/1, 567/2, 567/3, 566/1000, 566, 565, 564, 563, 561, 560, 559, 556, 557, 558, 554, 553, 552, 551, 402, 473, 430, 403, 400, 399, 383, 384, 398, 396, 391, 395, 394, 358, 321, 322, 326, 325, 323,
देवास	सोनकच्छ	अरनिया जागीर	346/765, 304/1, 303, 302, 301, 290, 282/5/1, 268, 363, 362, 359, 355, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 393/4, 393/3, 393/2, 387, 395, 391, 392, 390, 389, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 315, 312, 313, 310, 309, 305, 308, 311, 307, 298, 299, 292, 282/3, 271, 266, 267, 254, 253, 252, 251, 239, 349, 237, 236, 235, 466, 227, 468, 471, 472, 474, 477, 479	346/765, 347, 304/1, 303, 302, 301, 290, 266, 265, 364, 363, 362, 359, 355, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 393/4, 393/3, 393/2, 394, 387, 395, 391, 392, 390, 337, 389, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 315, 312, 313, 310, 309, 305, 308, 311, 111, 307, 297, 298, 299, 296, 292, 293, 282/3, 271, 266, 265, 254, 253, 252, 251, 239, 349, 237, 236, 235, 227, 468, 469, 470, 471, 475, 477, 476, 478, 479
देवास	सोनकच्छ	खोनपिपरिया	197, 195, 194, 192, 188, 187/1, 187/2, 186/1, 186/2, 177/2, 177/3, 176, 175, 174, 171, 170, 169, 166, 165, 164, 154/4, 154/1, 152, 151, 146, 145, 128, 127, 96, 97, 95, 87, 86, 88, 85, 81, 80, 38, 743, 755, 756/1, 756/2, 757, 768, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 751/1	197, 195, 194, 192, 188, 187/1, 186/1, 186/2, 177/2, 177/3, 176, 175, 174, 171, 169, 166, 165, 164, 154/4, 154/1, 152, 151, 146, 145, 128, 127, 96, 97, 95, 87, 88, 85, 81, 80, 38, 743, 755, 756/1, 756/2, 757, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 751/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
देवास	सोनकच्छ	भौरासा	462, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 793/2, 493/3, 493/4, 675, 664/2, 665/5, 664/3, 664/4, 646/1, 464/2, 644-645, 643, 638, 629/1, 628/1, 627, 618/4, 618/7, 618/5, 618/1, 619/1, 622/1, 619, 619/3/2, 620/1, 621/2, 622/1, 602, 601/2, 601/1, 600, 598, 1911, 1912/1, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1905/2, 1905/1, 1904, 1980, 1979, 1974/2, 1974/1, 1967/1, 1967/2	462, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 793/2, 493/3, 493/4, 675, 664/2, - , 664/3, 664/4, 646/1, 464/2, 644-645, 643, 638, 629/6, 628/1, 627, 618/4, 618/7, 618/5, 618/1, 619/1, 622/1, 619, 619/3/2, 620/1, 621/2, 622/1, 602, 600, 598, 1911, 1912/1, 1910, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1905/2, 1905/1, 1904, 1980, 1967/1, 1967/2
देवास	सोनकच्छ	सुमराखेडी	480, 481, 482, 492, 493/1, 500/1, 500/2, 500/3, 501, 647, 645, 665	456, 480, 481, 482, 492, 493/1, 500/1, 500/2, 500/3, 499, 501, 647, 645, 665, 664, 663, 662, 661
देवास	सोनकच्छ	पिपल्या	199/2, 200/3, 199/1, 203, 204/1, 205/1, 205/3, 208, 209, 290, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 361, 382/1, 382/2, 390, 391, 392, 393, 496, 494, 516, 517, 518, 521, 524, 525, 536, 537, 538, 737/1, 737/2, 740, 741, 802, 811, 800, 812, 799, 798, 781, 782, 783, 785/2, 784	200/2, 200/1, 200/3, 203, 204/1, 205/1, 205/3, 205/2, 207, 224, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 362, 361, 364/1, 382/1, 382/2, 390, 383, 391, 392, 394, 393, 496, 497, 494, 517, 518, 521, 524, 525, 536, 537, 538, 535, 737/1, 737/2, 738, 740, 741, 803, 802, 811, 800, 812, 813, 799, 798, 781, 782, 783, 785/2, 784
देवास	देवास	जामगोद	468, 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 777/2, 777/1, 778, 752, 753, 751, 750/5, 750/4, 750/3, 749/1101, 749, 747/2, 746, 745, 744, 740, 739, 738, 736, 735, 734, 733/1, 100/1, 101, 102, 103, 105, 106, 126/1, 127, 128, 129, 125, 130, 131, 132, 134, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 343, 342, 341, 197, 198, 199, 200, 196, 195, 194/2, 193/1, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 190/2, 190/1, 189/1, 189/2, 188/1, 188/2, 187/1, 187/2, 180/4, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 229, 230, 343, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 795, 794, 793, 792, 790, 789/2/2, 789/2/1, 789/2/3, 788, 781/1, 781/2, 785, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 779/2	468, 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 777/2, 777/1, 778, 752, 753, 751, 750/5, 750/4, 750/3, 749/1101, 749, 747/1, 746, 745, 744, 740, 739, 738, 736, 735, 734, 733/1, 100/1, 101, 102, 103, 105, 106, 126/1, 127, 128, 129, 125, 130, 131, 132, 134, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 343, 342, 341, 197, 198, 199, 200, 196, 195, 194/2, 194/1, 193/1, 205, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 190/1, 189/1, 189/2, 188/2, 187/2, 180/4, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 229, 230, 343, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 795, 794, 793, 799, 791, 792, 790, 789/2/2, 789/2/1, 789/2/3, 788, 787, 781/1, 781/2, 785, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 779/2
देवास	देवास	खटबा	409/1, 405, 408/2, 407/1, 407/3, 392/4, 392/1, 392/2, 392/3, 391/2, 391/3/2, 387, 393/2, 364/3, 364/4, 365/4, 363/1, 363/2, 361/1, 357/2, 360, 359/1, 359/2, 358/2, 339/2, 338/1, 337/1, 334/2/1, 334/1, 332/1, 331, 314/1, 315, 313, 312/1, 309/1, 308/1, 307/1, 311/1, 311/2, 310, 306/2, 275/2, 274/1, 273/1, 272, 271, 278, 269/1, 267/1, 266/2, 266/9, 248, 278/1/3, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/6, 413/5, 413/3, 413/4, 413/2, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 443/2, 443/1, 447, 448, 449, 450, 463, 464, 465, 466, 463, 474, 475/2, 476, 477, 662, 766, 678/1/1, 680/2/1, 680/2/2, 681/1, 682/1, 682/2/1, 697/1/1,	405, 408/2, 407/1, 407/3, 407/4, 392/1, 392/2, 392/3, 391/2, 391/3/1, 391/3/2, 387, 393/2, 365/2, 364/3, 364/4, 365/1, 365/3, 365/4, 363/1, 363/2, 361/1, 357/2, 360, 359/1, 358/1, 339/2, 339/1, 338/1, 337/1, 334/1, 335, 332/1, 331, 315, 313, 312/1, 309/1, 308/1, 307/1, 311/1, 311/2, 310, 306/2, 305, 276, 277, 278, 269/1, 267/1, 266/2, 266/9, 248, 278/1/3, 278/1/2, 411/1, 411/2, 412, 428, 429/1, 229/2, 413/1, 413/6, 413/5, 413/3, 426, 425, 413/4, 413/2, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 443/2, 443/1, 447, 446, 450, 451,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			697/4/1, 697/2/1, 698/2, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 762, 753, 752, 755/2, 751, 750, 747/5, 747/2, 749/1, 749/2, 748, 747/1, 747/4, 747/3, 747/2, 742, 741, 740, 737/4/1, 737/4/2/2, 737/4/2/3, 737/4/2/4, 737/4/2/5, 738/1, 738/2, 738/5, 735, 731, 730, 728, 727, 726/2, 726/3, 725, 724, 723, 722, 960/1, 960/2	463, 462, 464, 465, 466, 463, 474, 475/2, 476, 477, 478, 662, 766, 678/1/1, 680/2/1, 680/2/2, 681/1, 682/1, 682/2/1, 697/1/1, 697/4/1, 697/2/1, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 763, 762, 753, 754, 755/1, 755/2, 751, 746, 745, 747/2, 747/1, 747/4, 747/3, 747/2, 742, 741, 740, 737/4/1, 737/4/2/2, 737/4/2/3, 737/4/2/4, 737/4/2/5, 738/1, 738/2, 738/5, 735, 736/2, 736/1, 734, 733, 732/1, 732/2, 731, 730, 728, 727, 726/2, 726/3, 725, 724, 723, 722, 960/1, 960/2
देवास	देवास	जेतपुरा	88/3, 88/4, 89, 90, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/1, 106/2, 106/3, 106/4, 105, 146/2, 147/1, 147/3, 147/2, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 151/1, 151/2, 153/2, 154/5, 154/2, 156, 372/509, 372/2, 372/1, 372/3, 368/1, 368/2, 367, 365, 364, 357, 350, 349, 348/2, 348/1, 348/1/1, 348/1/2, 348/1/4, 348/1/3, 347/1, 345/2, 345/1, 344/1, 380/2, 380/3, 380/4, 379/2, 380/6, 379/2, 379/1, 379/2, 379/5, 378, 376, 375, 374, 382/7, 384, 411, 413, 414, 416, 417/1, 380/5, 417, 433, 432, 434, 435, 471/3, 471/2, 472, 474, 475, 497, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 501/5, 502/4, 502/1/1, 502/2/1, 502/3, 506	88/1, 88/3, 88/4, 88/2, 89, 90, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/1, 106/2, 106/3, 106/4, 105, 146/2, 146/1, 147/1, 147/3, 147/2, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 151/1, 151/2, 153/2, 154/5, 156, 372/509, 372/2, 372/1, 372/3, 368/1, 368/2, 367, 365, 364, 357, 350, 349, 348/2, 348/1, 348/1/1, 348/1/2, 348/1/4, 347/1, 345/2, 345/3, 345/1, 344/1, 380/2, 380/3, 380/4, 379/2, 380/6, 379/2, 379/1, 379/2, 379/5, 378, 376, 377, 375, 374, 382/7, 384, 411, 413, 414, 416, 417/1, 380/5, 417, 418, 432, 434, 435, 471/2, 471/1, 472, 474, 476, 475, 497, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 501/5, 502/4, 502/1/1, 502/2/1, 502/3, 506

V

खण्ड "अ"

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	कुल लंबाई (किमी. में)	राजमार्ग में आने वाले जिले
1	लेबड़-मानपुर एस.एच.-31-ए	34.30	धार, इन्दौर

“खण्ड-ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	लेबड़	256/1, 255, 253/4, 253/3	256/1, 255, 253/4, 253/3

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	कलसाडा खुर्द	332/1, 329/2, 398/1, 399, 400, 401, 1, 2, 3/1, 4/1, 404/1, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 323, 324, 288, 279/2, 279/2/1/1, 279/2/2, 279/1/1/2, 279/1, 285/1, 287, 289/2, 331	285/2, 332/1, 329/2, 394/1, 398/1, 399, 400, 401, 1, 2, 3/1, 4/1, 404/1, 404/2, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 323, 324, 288, 279/1, 285/1, 287, 289/2, 331, 279/2/क/4, 279/2/ग/1, 279/2/ख/1/1/1, 279/2/ख/1/1/2, 279/2/ख/1/2
धार	धार	एकलदुना	1, 3, 15/1, 29/1/1, 22, 72, 58, 55/1, 73/3/1, 186/1, 186/2/1, 186/2/2, 83/1, 185, 182, 177, 146, 157, 159/2/2, 159/2/1, 122, 18/1, 4/1, 20/1, 20/2, 70/2, 70/1, 65, 57, 73/3/2, 74/1, 74/2, 188, 187, 83/2, 184, 183, 58, 85/2, 180/1, 180/2, 176/1, 175, 152/1, 152/2, 153, 154, 155,	1, 3, 29/1/1, 24/2, 22, 73/1/1, 72, 69, 56, 58, 55/1, 55/2, 73/1/2, 73/3/1, 189, 186/1, 186/2/1, 186/2/2, 186/2/3, 83/1, 185, 182, 145/5, 178, 177, 176/2, 146, 151, 157, 159/2/1, 122, 2, 18/1, 4/1, 20/1, 20/2, 24/1, 71, 70/2, 70/1, 65, 57, 73/3/2, 74/1, 188, 187, 184, 183, 58, 85/2, 180/1, 180/2, 176/1, 175, 152/2, 153, 155, 154,
धार	धार	नजदीक बडौदा	130/2, 130/1, 132/1/2, 136, 82, 81, 28, 34/1, 34/2, 33, 20/1/6, 21, 9/4, 8/4, 7/4, 9/2, 9/3, 22, 32, 78, 81, 137, 136, 135/1, 133/1, 132/2, 132/3, 219/3, 220, 221/1, 131/2, 135/2/1	130/2, 130/1, 132/1/2, 123/6, 136, 82, 34/1, 34/2, 34/3, 20/2/2, 20/2/1, 33, 20/1/6, 20/1/2, 21, 9/4, 8/3, 8/4, 7/4, 9/2, 9/3, 22, 32, 34/3, 78, 60, 81, 137, 136, 135/1, 133/1, 132/2, 132/3, 209, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221/1, 131/2, 135/2/1
धार	धार	करोँदिया	105/2, 105/3, 105/4, 106, 103/2, 102/1, 103/5, 143/2, 143/1, 143/4, 175, 176/1, 176/2, 172, 171, 169/4, 168/1, 203, 204/1/1, 204/2/2/2, 204/2/1, 204/2/3, 210/2, 211, 206/2, 206/1, 165, 167, 169/2, 168, 173, 145, 142/2, 143/3/1, 142/1, 141, 103/1/1, 108/3, 108/2, 108/1, 109, 140, 143/3/2, 169/3, 204/2/1/1, 166/1, 170/1	105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 103/2, 103/5, 143/1, 143/4, 175, 176/2, 172, 171, 169/4, 168/1, 203, 204/1/1, 204/2/2/2, 204/2/1, 204/2/3, 210/2, 211, 216, 206/2, 206/1, 165, 167, 169/1, 169/2, 173, 145, 142/1, 103/1/1, 108/3, 108/2, 108/1, 109, 140, 143/3/2, 169/3, 204/2/1/1
धार	धार	दिग्गान	48, 49/1, 47, 46, 45, 12/1, 37, 43, 44, 13, 31, 39, 35, 33, 56/1, 56/2, 66, 64, 56/2, 59/1, 62, 60, 108, 109, 110, 114/1, 243, 162, 208, 193, 189, 222, 224, 680/2, 676, 670/2, 672, 670/1, 678, 643, 642, 636, 637, 635, 424, 425, 618, 427, 433, 406, 405, 455, 454, 456, 404, 449, 460, 461, 452, 468, 465, 467, 403, 177, 226, 189, 179/2, 223, 224, 222, 164, 106, 466/1, 466/2, 645, 680/1, 674	48, 49/1, 47, 46, 45, 12/1, 43, 44, 14, 13, 42, 39, 35, 56/1, 52, 56/2, 66, 64, 56/2, 59/1, 62, 108, 109, 110, 114/1, 243, 210/2, 162, 208, 172, 171, 193, 217, 216, 189, 222, 224, 680/2, 676, 675, 670/2, 672, 670/1, 678, 637, 643, 642, 636, 635, 424, 425, 618, 427, 433, 467, 406, 405, 455, 454, 456, 404, 449, 460, 461, 452, 468, 465, 467, 403, 177, 226, 189, 179/2, 223, 224, 222, 164, 106, 674, 680/1, 645, 190, 634, 191/2
धार	धार	पिपल्या खास	312/5, 311, 308, 258, 251, 252, 253, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 111, 86, 89, 90, 312, 87, 83, 84, 80, 79, 109/3, 112, 116, 115, 129, 130, 133, 134, 256, 254, 137/1, 137/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 246, 247, 312/3	312/5, 312/4, 311, 310/1, 308, 258, 251, 252, 253, 271, 260, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 107/2, 110, 111, 109/1, 86, 89, 90, 91, 312, 87, 83, 82, 84, 80, 79, 78, 109/3, 112, 117, 120, 115, 129, 130, 132, 133, 134, 256, 254, 137/1, 137/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 246, 247, 312/3
धार	धार	आबुखेडी	25/1, 24/1, 24/2, 30, 26/3, 32, 34, 31, 26/1, 26/2	25/1, 24/1, 24/2, 30, 26/3, 32, 34, 35, 31, 26/1, 26/2
धार	धार	महाराजखेडी	331/2/2, 331/3, 331/2/1, 339/1, 331/4, 347/4, 342/1, 343, 355/1, 346, 331/1	331/2/2, 331/3, 331/2/1, 339/1, 331/4, 347/4, 342/1, 343, 355/1, 346, 331/1
धार	धार	रायण	118/1, 129, 128, 130/2/1/1, 130/2/1/2, 130/2/2, 131, 132/2, 136/1, 137, 138/3/2, 149, 150, 151/1, 152, 163/1, 163/2, 166, 168, 169/2, 169/1, 170, 125, 126/1, 120/2, 119/1, 120/1	118/1, 129, 128, 130/2/1/1, 130/2/1/2, 130/2/2, 131, 132/2, 136/1, 137, 138/3/2, 149, 150, 151/1, 152, 163/1, 163/2, 166, 168, 169/2, 169/1, 170, 125, 126/1, 120/2,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
				119/1, 120/1
धार	धार	बिल्लौद	16/1, 15/2, 18, 20, 15/1, 15/5/1, 39, 15/5/2, 33, 34, 28/2, 70, 69, 67, 63, 55/2, 73, 66, 64, 109, 110, 121, 112, 118, 116, 119/2, 120, 111, 113, 114, 148, 149, 151, 156, 160, 146, 145/1, 144, 153, 154, 143/1, 161, 163/2, 164/1, 362/1, 361/1, 360, 359, 357, 356, 355/1, 355/2, 352, 351/4, 351/2, 570, 689/1, 689/5, 690, 349, 147, 343/3,	16/1, 15/2, 18, 20, 15/1, 15/5/1, 39, 15/5/2, 33, 34, 28/2, 70, 69, 67, 63, 55/2, 73, 66, 64, 109, 110, 121, 112, 118, 117, 116, 122, 119/1, 119/2, 111, 113, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 159, 160, 146, 145/1, 144, 153, 154, 143/1, 161, 163/2, 164/1, 362/1, 361/1, 360, 359, 357, 356, 355/1, 355/2, 344/2/1/1, 352, 351/1/1, 351/1/2, 351/4, 351/2, 689/1, 689/2, 689/4, 689/5, 690, 349, 147, 343/3,
धार	वंजिला	नाई बरोदा मण्डलोई	1, 2, 3/2, 4, 5, 18, 38/3, 17/1/2, 17/1/3, 37, 36, 35, 33, 20/1, 21, 22, 28, 52, 6, 29, 53, 51, 55, 30/1, 115, 116, 117, 120, 32, 54	1, 2, 3/2, 4, 5, 18, 38/3, 17/1/2, 17/1/3, 37, 36, 35, 33, 20/1, 21, 22, 28, 52, 6, 29, 53, 51, 55, 30/1, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 32, 54
धार	धार	नाई बरोदा कानुनगो	91, 96/1, 98/1, 100, 112/2, 113, 211/2, 211/1, 209, 207/1, 207/2, 239, 242/1, 210, 93, 94, 89, 242/2, 207/3, 95, 97, 114, 212, 208, 201, 240, 241, 99, 175, 243/1, 243/2, 214, 112/3,	91, 96/1, 98/1, 100, 112/2, 113, 211/2, 211/1, 209, 207/1, 207/2, 239, 242/1, 210, 93, 94, 89, 242/2, 207/3, 95, 97, 114, 212, 208, 201, 240, 241, 99, 175, 191/2, 243/1, 243/2, 214, 112/3
इन्दौर	महू	खेडी	325/1, 23/3, 23/2, 324/1, 24, 14, 93, 28, 90/2, 91, 282, 283/1, 283/2, 284, 288, 281, 277, 275, 271, 272, 270/3, 269, 268/2, 268/1, 263/1/1, 381/1, 382/1, 377, 363/1/1, 263/1/1, 285, 264/1, 284/5, 284/5/1, 285/4, 272, 285/3, 285/2, 324/2, 327/1, 303, 23/4, 269/527	325/1, 23/3, 23/2, 324/1, 24, 93, 28, 90/2, 90/3, 91, 284, 281, 277, 276, 275, 271, 272, 270/2, 270/3, 269, 268/2, 268/1, 263/1/1, 381/1, 382/1, 377, 363/1/1, 285, 264/1, 264/2, 287, 286, 288/2/2, 324/3, 325/2, 325/3, 339, 327/1, 23/4, 302, 303,
इन्दौर	(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर	सिहोद	294/3, 294/1, 298, 300, 301, 302, 303, 293/6, 293/16, 293/2/2, 293/17, 293/14, 293/15, 294/1/झ, 293/1/छ, 293/1/1/ख, 293/1/1/ग, 293/1/1/घ, 293/1/1/प, 293/1/1/द, 293/1/1/न,	294/3, 294/1, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 293/6, 293/16, 293/2/2, 293/17, 293/14, 293/15, 294/1/झ, 293/1/छ, 293/1/1/ख, 293/1/1/ग, 293/1/1/घ, 293/1/1/प, 293/1/1/द, 293/1/1/न,
इन्दौर	(महू)	दुर्जनपुरा	19/370/3, 196/1/1/3, 196/4, 196/1/2, 191/2/1, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 139/1/1, 139/1/2, 139/1/3, 140, 141, 136/1/2, 136/2, 136/1/3, 136/1/4, 136/1/1, 130, 133/1/1, 128/1, 128/2, 126/1, 126/2, 123/2, 123/1, 119/1, 83/4, 81/2, 81/1, 80/2, 79/369, 30/376, 29/2, 29/1, 28/2, 28/1, 20/3, 20/2, 19/370/2, 191/2/2, 125, 80/1,	19/370/3, 196/1/1/3, 196/4, 196/1/2, 191/2/1, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 139/1/1, 139/1/2, 139/1/3, 140, 136/1/2, 136/2, 136/1/3, 136/1/4, 136/1/1, 130, 133/1/1, 128/1, 128/2, 126/1, 126/2, 123/2, 123/1, 119/1, 81/2, 81/1, 80/2, 79/369, 30/376, 29/2, 29/1, 28/2, 28/1, 20/3, 20/2, 18, 191/2/2, 125, 80/1,
इन्दौर	(महू)	शेरपुर	102/1, 102/2, 101/1/2, 98, 95/1, 95/2, 96, 79, 80, 74, 70, 207, 209, 208, 212/2, 214, 215, 216/2, 221/2, 222, 224, 223, 234, 241/2, 243, 245, 248/4, 248/3, 248/2, 252, 253, 267, 213, 54, 57, 69, 68, 67, 66, 62/2, 83, 89, 90, 91/2, 93, 85, 100, 50/1, 50/3, 62/1, 216/1, 219/3,	102/1, 102/2, 102/3, 101/1/2, 103, 98, 95/1, 95/2, 96, 121, 122, 125, 79, 80, 77, 74, 71, 70, 207, 209, 205, 206, 212/2, 196, 214, 215, 216/2, 221/2, 222, 224, 223, 233, 234, 241/2, 243, 248/4, 248/3, 248/2, 252, 253, 267, 213, 54, 56, 57, 69, 68, 67, 66, 62/2, 83, 89, 90, 91/2, 93, 85, 100, 50/1, 50/3, 62/1, 216/1, 219/3,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
इन्दौर	महू	मानपुर	162, 161, 159, 158, 160, 157/2, 155, 181, 150/1, 149, 216/6, 216/3, 216/4, 216/5/1, 216/5/2, 217, 212, 210, 207, 201/1, 208/1, 199, 200, 198, 308/1, 308/2, 308/4, 315/1, 171, 182, 307, 308/3,	162, 161, 159, 158, 160, 157/2, 155, 181, 150/1, 149, 222, 183/3, 216/6, 216/3, 216/4, 216/5/1, 216/5/2, 217, 212, 211/1, 210, 209, 207, 201/1, 208/1, 199, 200, 198, 308/1, 308/2, 308/4, 315/1, 171, 182, 307, 308/3

VI

खण्ड "अ"

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	कुल लंबाई (किमी. में)	राजमार्ग में आने वाले जिले
1	महू-घाटाबिल्लौद, एस.एच.-1-ए	27.00	धार, इन्दौर

“खण्ड-ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

इन्दौर	महू	महूगांव	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 710, 709, 708, 707, 706, 727, 728, 720, 717, 712, 713, 714, 715, 714/868, 679, 70, 704, 703, 702, 701, 690, 691, 692, 693, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 438, 437, 440, 439, 678, 784, 676, 674, 673, 582, 581, 583, 579, 578, 442, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 577, 573, 574, 515, 514, 511, 510, 509, 503, 489, 490, 494, 493, 491, 486, 487, 488, 359, 502, 498, 461, 504, 580, 675, 455	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 710, 709, 708, 707, 706, 727, 728, 720, 717, 712, 713, 714, 715, 714/868, 679, 70, 704, 703, 702, 701, 690, 691, 692, 693, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 438, 437, 440, 439, 678, 784, 676, 674, 673, 582, 581, 583, 579, 578, 442, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 577, 573, 574, 515, 514, 511, 510, 509, 503, 489, 490, 494, 493, 491, 486, 487, 488, 359, 502, 506, 498, 461, 504, 580, 675, 455
इन्दौर	महू	भाटखेडी	317, 316, 318, 319, 332, 331, 330, 316, 314/3, 314/7, 336/1/1, 336/1/3, 336/1/2/1, 336/1/2/2, 334, 333, 440/1, 441, 442/1, 450, 459/1, 459/2, 451, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 533/1, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 322/2, 321/2/5, 321/3/2, 320, 321/1/2,	317, 316, 318, 319, 332, 331, 330, 316, 314/3, 314/7, 336/1/1, 336/1/3, 336/1/2/1, 336/1/2/2, 334, 333, 440/1, 441, 442/1, 450, 459/1, 459/2, 451, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 533/1, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 322/2, 321/2/5, 321/3/2, 320, 321/1/2, 321/1/1, 335
धार	धार	पीथमपुर	422, 421/1/1, 421/3/1, 420/1/1, 420/2/1, 415, 416, 414, 413, 402, 400, 399, 392/1/1, 392/1/2, 392/1/3, 391/2/1, 391/2/2, 376, 377, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 324, 325/1, 325/2, 326, 369, 368, 367, 366, 364, 363, 522, 523, 524, 521, 518, 519, 517, 515, 514, 513, 322, 301, 308, 111, 114, 115, 140, 142, 143, 144, 145, 97	422, 421/1/1, 421/3/1, 420/1/1, 420/2/1, 415, 416, 414, 413, 402, 400, 399, 392/1/1, 392/1/2, 392/1/3, 391/2/1, 391/2/2, 376, 377, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 323, 324, 325/1, 325/2, 326, 369, 368, 367, 366, 364, 363, 522, 523, 524, 521, 518, 519, 517, 515, 514, 513, 322, 301, 308, 111, 114, 115, 140, 142, 143, 144, 145, 97
धार	धार	आकोल्या	1/1, 3, 4/1/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 19/1, -, 18, 19, 20/1, 21, 24, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 52, 81, 88/1/1, 90, 91, 93, 96, 109, 97, 98, 99, 100, 101	1/1, 2, 3, 4/1/1, 10/1, 10/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 19/1, 16, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 52, 81, 88/1/1, 89, 90, 91, 93, 96, 109, 97, 98, 99, 100, 101

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	बरदरी	58/1, 59, 61, 63, 64, 70/1, 75, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 220, 328, 327, 420, 421, 422, 423, 329, 418, 419, 416, 417, 415, 414, 413, 330, 331, 326, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 364	58/1, 59, 61, 63, 64, 65, 70/1, 71, 78, 75, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 220, 328, 327, 420, 421, 422, 423, 329, 418, 419, 416, 417, 415, 414, 413, 412, 330, 331, 326, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 363, 364
धार	धार	खेडा	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 51, 54, 59, 168, 169, 171, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 96, 122, 123, 121, 124, 119, 118, 126, 125, 134, 136, 137, 135, 880, 879, 138, 139, 140, 142, 143, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 97, 95	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 22, 32, 33, 34, 35, 42, 50, 51, 54, 59, 168, 169, 170, 171, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 96, 122, 123, 121, 120, 124, 119, 118, 126, 125, 134, 136, 137, 135, 880, 879, 138, 139, 140, 142, 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 168, 97, 95
धार	धार	सागौर	130, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139/1, 139/3, 145, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142, 143, 147, 136, 121, 122	130, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139/1, 139/2, 139/3, 145, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142, 143, 147, 148, 136, 121, 122
इन्दौर	देपालपुर	काली बिल्लौद	45, 44, 46, 66	45, 44, 46, 66
धार	धार	बगदून	242, 241, 243, 244, 251/1, 251/2, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 271, 274, 278, 279/2, 279/1, 279/3, 282/2, 280, -, 281, 310, 311, 312, 324, 325, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 342	242, 241, 243, 244, 251/1, 251/2, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 271, 273, 274, 278, 279/2, 279/1, 279/3, 95/2, 95/3, 95/7, 95/9, 282/2, 280, 283, 281, 310, 311, 312, 324, 325, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 342
धार	धार	मंडलावदा	154/1, 156, 157/1, 158, 159, 161/1, 161/2, 162/2/1, 162/2/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 244, 245, 246, 242, 243, 241, 240, 236, 231, 279, 278, 277, 275, 273, 272, 270/1/1/1, 260, 247/1/1, 248, 249, 229, 230, 154/2	154/1, 154/2, 155, 156, 157/1, 158, 159, 161/1, 161/2, 162/2/1, 162/2/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 244, 245, 246, 242, 243, 241, 240, 236, 231, 279, 278, 277, 275, 273, 272, 270/1/1/1, 260, 247/1/1, 248, 249, 282, 283, 229, 230
इन्दौर	देपालपुर	मेठवाडा	28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/8, 41, 44, 45, 385, 378, 370, 369, 368, 371, 367, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 452, 559, 561, 560, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 548/1, 578/1, 578/2/6, 578/2/7, 577, 576, 562, 447, 448, 450, 451, 426, 425, 423, 377, 376, 374, 373, 372, 382	26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 41, 44, 45, 385, 378, 370, 369, 368, 371, 366, 49, 367, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 452, 557, 559, 561, 560, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 548/1, 550/3, 578/1, 578/2/5, 578/2/8, 578/2/6, 578/2/7, 577, 576, 562, 447, 448, 450, 451, 426, 425, 424, 423, 377, 376, 374, 375, 373, 372, 382
इन्दौर	देपालपुर	घाटाबिल्लौद	1, 2/1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 22/1, 22/5, 22/2/1, 22/6, 22/2/2, 22/2/3, 22/8, 21, 18/1, 167, 45, 44/1, 43/1, 42, 41, 37, 36, 30, 29, 27, 25, 24, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 26, 186/5	1, 2/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22/1, 22/5, 22/2/1, 22/6, 22/2/2, 22/2/3, 22/8, 18/1, 167, 45, 44/1, 44/4, 44/2, 43/1, 42, 41, 37, 36, 30, 29, 27, 25, 24, 66, 67, 68,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (मार्ग के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
				69, 70, 71, 72, 73, 26, 65, 186/5, 21

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

पृ क्र. एम 23-01-2014-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-01-2014, दिनांक 16 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Government of Madhya Pradesh
Public Works Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

Bhopal, Dated 16-6-2014

No. 23-01-1014-19. In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby declare for the roads as specified in Part-"A" of the schedule as per specification given below in Part-"B" of the schedule to be the Building line and Control line

SCHEDULE

D)

Part-"A"

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Lebad-Jaora Four lane (SH-31)	124.150	Dhar, Ratlam

Part-"B"

Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
Dhar	Dhar	Lebad	6, 7/4, 7/2, 7/1, 10, 207, 208, 210/1, 210/2/1, 210/2/2, 220, 224/1/2, 224/1/3, 224/1/4, 224/2, 224/2, 224/4, 241, 239, 240, 238, 237/1, 237/2, 236, 267, 271, 266, 270/3, 269, 265, 264, 263, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 242, 243, 260, 259/1, 259/1/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 258, 255, 256/2, 256/1, 253/3, 257, 253/1, 252, 251/2, 250, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 245/1, 245/2क, 245/2ख, 245/2ग, 244, 272, 268	6, 7/4, 7/2, 7/1, 11, 10, 207, 208, 210/1, 210/2/1, 210/2/2, 220, 224/1/2, 224/1/3, 224/1/4, 224/2, 224/2, 224/4, 235/4, 235/3, 241, 239, 240, 238, 237/1, 237/2, 236, 271, 266, 270/3, 269, 264, 263, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 260, 259/1, 259/1/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 258, 255, 256/2, 256/1, 253/3, 253/1, 251/2, 250, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 245/1, 245/2क, 245/2ख, 245/2ग, 244, 272, 268
Dhar	Dhar	Baggad	57/1, 59, 56, 57/2, 52, 47, 48, 46, 40, 45/1, 45/2, 44/1, 44/1/1, 44/2, 42, 43, 139, 138, 139/1, 137/2, 305/1, 303, 302/1, 301, 302/2, 302/3, 319, 318, 316/2, 316/1, 315, 314, 309/1, 132, 61, 62, 65, 67, 76, 75, 77, 70/1, 70/2, 70/3, 78/1/2, 78/1/1, 79	57/1, 59, 56, 57/2, 52, 47, 48, 46, 40, 45/1, 45/2, 44/1, 44/1/1, 44/2, 42, 43, 139, 138, 139/1, 137/2, 305/1, 304, 305/2, 303, 302/1, 301, 302/2, 302/3, 319, 318, 316/2, 316/1, 315, 314, 309/1, 132, 131/1, 132/2, 61, 62, 65, 67, 76, 75, 77, 70/1, 70/2, 70/3, 78/1/2, 78/1/1, 79, 80

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Dhar	Machakda	264, 266, 267, 265, 268, 269, 270, 272, 271/2, 274, 275, 273, 258, 257/2, 260, 264, 263, 262	264, 266, 267, 265, 268, 269, 270, 271/1, 272, 271/2, 275, 273, 258, 257/2, 260, 261, 264, 263, 262
Dhar	Dhar	Harsora	218, 209, 217, 216, 214, 213, 210, 246, 247, 248, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 255/1, 258/2, 257/1, 258/3, 163, 269, 270, 271/1, 273, 153/2/1क, 153/2/1, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164/2, 164/1, 165, 174/1, 174/2, 175, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 207, 202, 208, 201/3, 268, 1, 2, 3	218, 217, 216, 214, 213, 210, 211, 246, 247, 248, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 255/1, 258/2, 257/1, 258/3, 163, 269, 270, 271/1, 273, 153/2/1क, 153/2/1, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164/2, 164/1, 165, 169, 172, 174/1, 174/2, 175, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 207, 203, 202, 268, 271/2, 1, 2, 3
Dhar	Dhar	Sadalpur	155, 156, 157/2/1, 158, 159, 160, 161, 162, 214, 217, 218, 219, 223, 164, 224, 225, 226, 222/2/2 क, 238, 150/3, 151/1/क, 151/1/ख, 152, 153/1/क, 154, 138, 137, 124, 112, 110, 111, 100, 101, 92, 84, 162/1/1	155, 156, 157/2/1, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 214, 217, 218, 219, 223, 164, 224, 225, 226, 222/2/2 क, 238, 150/3, 151/1/क, 151/1/ख, 152, 153/1/क, 154, 138, 137, 124, 112, 110, 111, 100, 101, 92, 84, 162/1/1
Dhar	Dhar	Juhawada	123, 124, 125, 170, 136, 138, 139, 141, 178	123, 136, 138, 139, 141, 178
Dhar	Dhar	Sangesra	26/1, 26/2, 25/1, 28, 80, 81, 82, 49, 78/2, 78/1, 29, 75, 74, 73, 27, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 87/2, 87/1, 86/1, 86/2, 84/1/1, 83/1, 94, 95	26/1, 26/2, 25/1, 28, 49, 45, 77, 29, 78, 75, 74, 73, 30, 27, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 87/2, 87/1, 86/1, 86/2, 84/1/1, 83/1, 94, 95
Dhar	Dhar	Chouki	40, 37/4, 37/3, 37/2, 37/1/2, 37/1/1, 21, 20, 22/2, 23, 24, 22/1, 18, 19, 7, 16/2, 16/1, 15, 13, 12, 25, 27	40, 37/4, 37/3, 37/2, 37/1/1, 21, 22/2, 23, 24, 22/1, 18, 19, 7, 16/2, 16/1, 15, 13, 12, 25, 27
Dhar	Dhar	Musawada	77, 54, 50, 49, 48, 45, 44, 43/1, 41, 39/2, 38, 40/1, 165, 166, 167, 160/2, 160/3, 161, 162, 164, 165, 169/1, 169/2, 186, 187, 189, 41, 17/2, 19, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 21, 22, 23/3, 23/2, 23/1, 25/2, 25/9, 25/8, 25/7, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33	77, 54, 50, 49, 48, 45, 44, 43/1, 41, 39/2, 38, 40/1, 165, 166, 167, 160/2, 160/3, 161, 162, 164, 165, 169/1, 169/2, 186, 187, 189, 41, 17/2, 19, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 21, 22, 23/3, 23/2, 23/1, 25/2, 25/9, 25/8, 25/7, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33
Dhar	Dhar	Kherod	48, 49, 50/2, 50/4, 51, 54, 79, 80, 81, 82, 87/2, 86, 87, 97, 96, 100, 112, 98, 126, 391, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 182, 186, 187, 184, 188, 189, 26, 27, 28, 41, 40/1, 40/2, 42, 46, 24, 25, 111, 126	48, 49, 50/2, 50/4, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 82, 87/2, 86, 87, 97, 96, 100, 112, 98, 126, 391, 390, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 182, 186, 187, 184, 188, 189, 26, 27, 28, 41, 40/1, 40/2, 42, 46, 24, 25, 111, 126
Dhar	Badnawar	Manasa	3, 4, 10, 12, 13, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 77, 75, 73, 76, 79, 80, 81/1/4, 81/1/1, 82, 83, 60/1, 84, 411/1/1, 411/1/2, 411/2, 410, 409, 408, 406/1, 407/1, 350, 356, 120, 117, 85, 94, 89, 88, 87	2/1/2, 3, 4, 10, 8, 11, 12, 15, 13, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 49/3+50+49/2, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 77, 75, 73, 74, 76, 79, 80, 81/1/4, 81/1/1, 82, 83, 60/1, 411/1/1, 411/1/2, 411/2, 412, 410, 409, 408, 406/1, 407/1, 350, 356, 120, 118, 117, 111, 112, 116, 85, 94, 89, 88
Dhar	Badnawar	Rangarakhedi	255/1, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 273, 274/2/2, 272/1, 271, 270, 280, 269, 268/2, 267, 264, 265/2, 293/2, 263/1	255/1, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 273, 274/2/2, 272/1, 269, 268/2, 267, 264, 265/2, 265/1/2, 293/2, 263/1

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Badnawar	Makni	5/1/2, 5/1/3, 6/1, 6/2, 17, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 57, 61/1, 63, 61/2, 58/2, 42, 38, 37, 36, 245, 244, 243, 242, 228, 227/3, 226/1, 226/2, 226/3, 215/1, 213, 214, 212, 210, 209, 208, 205, 206/1, 207, 77, 76, 65, 69, 68, 66, 67, 64,	5/1/2, 5/1/3, 6/1, 6/2, 5/1/6, 17, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 57, 56, 61/1, 63, 61/2, 58/2, 42, 41, 38, 39, 37, 36, 245, 244, 243, 242, 228, 227/3, 226/1, 226/2, 226/3, 215/1, 213, 214, 212, 210, 209, 208, 205, 206/1, 207, 77, 76, 65, 69, 68, 66, 67, 70, 64
Dhar	Badnawar	Nagda	47, 54, 55, 61/2, 64, 339/1, 339/1/2, 49, 68, 342/1, 342/2, 341, 368, 339, 43, 340	47, 54, 55, 61/2, 64, 339/1, 339/1/2, 49, 68, 342/1, 342/2, 341, 368, 339
Dhar	Badnawar	Sanoli	449, 448, 442/2/2, 442/1/2, 442/1, 442/2, 440, 439, 437, 435, 434/1, 433, 431, 432, 370, 422, 430, (424+425), 380/2, 423, 407/1, 407/2/1, 407/2/2/1, 407/2/2/2, 455/1/1, 428, 455/2/2, 459	449, 448, 442/2/2, 442/1/2, 442/1, 442/2, 440, 439, 438, 437, 435, 434/1, 433, 434/2, 445, 432, 370, 436/1, (424+425), 380/2, 423, 407/1, 407/2/1, 407/2/2/1, 407/2/2/2, 455/1/1, 428, 455/2/2, 459
Dhar	Badnawar	Khajuriya	32, 40, 39/2/1, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46/1, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 53/1, 53/2, 52/3, 230, 69/5, 69/4, 69/3, 60/5, 60/4, 60/3, 60/2, 60/1, 59/2, 59/1, 61/2, 58, 20, 21, 26/3, 26/4, 29, 30, 33	32, 40, 39/2/1, 37, 38, 45, 46/1, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 53/1, 53/2, 230, 69/5, 70, 69/4, 69/3, 60/5, 60/4, 60/3, 60/2, 60/1, 59/2, 59/1, 61/2, 58, 20, 21, 26/3, 26/4, 29, 30, 33
Dhar	Badnawar	Khandigara	28/1, 274, 71/1, 57, 75, 69, 70, 308/78, 84, 85, 86, 97/1, 97/2, 99/1, 99/2, 149, 148, 167/1, 19/1क, 20, 26/1क, 28/2, 29, 30/2, 51, 55/1, 52, 55/2, 56/3, 58/1, 72, 284, 288, 286, 287, 161, 167/2, 167/3, 167/4, 159, 27, 26, 18, 7/1, 6, 2/2, 2/1, 302/1, 302/2	28/1, 274, 71/1, 75, 69, 70, 308/78, 84, 85, 86, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 149, 148, 167/1, 19/1क, 20, 26/1क, 28/2, 29, 30/2, 51, 55/1, 52, 55/2, 56/3, 58/1, 72, 284, 288, 286, 287, 161, 160, 167/2, 167/3, 167/4, 159, 27, 26, 18, 7/1, 6, 2/2, 2/1, 302/1, 302/2, 54, 89/2
Dhar	Badnawar	Kanwan	337, 339, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 311, 290, 289, 275, 273, 272, 271, 25, 24, 23, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 1	337, 339, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 311, 290, 289, 289, 275, 273, 272, 271, 25, 24, 23, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 1
Dhar	Badnawar	Chhokla	4, 5, 6, 8, 10, 26, 28, 29, 30, 32, 45, 51, 330, 331, 328, 332, 336, 339, 337, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 409, 406, 405, 403, 398, 396, 389, 388, 379, 376, 356, 387, 316, 318, 317, 101, 120, 107, 108, 106, 96, 95, 94, 93, 63, 59, 58, 57, 104	4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 32, 45, 41, (49+50), 51, 331, 328, 332, 336, 339, 337, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 409, 407, 406, 410, 405, 403, 398, 396, 389, 388, 379, 376, 356, 387, 316, 318, 315, 313, 317, 101, 120, 107, 110, 108, 106, 105, 96, 95, 94, 93, 61, 63, 59, 58, 57, 104, 103
Dhar	Badnawar	Borali	288/1, 289/2, 290/2, 290/3, 308, 320/449, 320+322, 323, 325/2, 326, 327, 324, 328, 329, 330, 392, 393/1, 393/2, 391, 394/2, 396, 399, 400, 401, 402, 403/1, 109, 110, 111, 112, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 185, 186, 319, 234/1, 233, 232, 235, 230, 239, 234/2, 238, 258/1/2, 258/1/1, 257/1/3, 257/1/1/2, 257/1/2/2, 258/2/2, 258/2/1, 287, 286, 284, 285, 271, 283/1/4, 283/1/3, 283/1/2, 283/1/1, 283/2, 281	288/1, 289/2, 290/1, 290/2, 308, 320/449, 320+322, 323, 327, 324, 328, 329, 330, 392, 393/1, 393/2, 391, 394/2, 396, 399, 400, 401, 402, 403/1, 109, 110, 111, 112, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 185, 186, 319, 234/1, 233, 232, 230, 239, 234/2, 238, 239, 258/1/2, 257/2/2, 258/1/1, 257/1/3, 257/2/1, 257/1/1/2, 257/1/2/2, 258/2/2, 258/2/1, 286, 284, 285, 271, 283/1/4, 283/1/3, 283/1/2, 283/1/1, 283/2, 281

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Badnawar	Ghatgara	382, 383, 384, 388/2, 411, 4+5, 399, 402, 403, 404, 405, 437, 506, 507, 508, 510, 511, 519, 528, 524, 546, 482, 483, 588, 591/1, 591/2, 592, 593, 594, 143, 145, 146, 147, 153, 162/2+163, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/2, 167/2, 168, 169, 149, 150, 148, 252, 255, 253, 518, 283, 254, 288, 287, 286, 302, 303, 329, 328, 354, 355/33, 355/2/2, 357, 355/1 355/2/1, 358, 380, 381	382, 384, 388/2, 411, 4+5, 399, 402, 400/1, 400/2, 403, 404, 405, 406, 437, 506, 507, 508, 510, 511, 519, 528, 524, 546, 482, 483, 588, 591/1, 591/2, 592, 593, 143, 145, 146, 147, 153, 152, 154, 162/2+163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/2, 167/2, 168, 169, 149, 150, 148, 252, 255, 253, 283, 254, 288, 287, 286, 302, 303, 329, 328, 354, 355/33, 355/2/2, 357, 355/1, 355/2/1, 358, 380, 381
Dhar	Badnawar	Pitgara	261, 264, 263, 262, 258, 259, 250, 251, 249, 248, 247, 245, 242, 240, 239, 228, 241, 227, 223, 215, 214, 211, 172, 212, 213, 171, 170, 132, 87, 587, 618, 607, 606, 604, 613, 605, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 591, 587, 589, 590, 83, 81, 77, 76, 72, 75/2, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 703/58, 37, 36, 34, 33, 260	264, 263, 262, 258, 257, 250, 251, 249, 246, 245, 244, 242, 240, 239, 228, 227, 226, 225, 223, 224, 222, 215, 214, 211, 172, 212, -, 171, 170, 132, 133, 88, 90, 586, 618, 607, 606, 613, 605, 602, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 591, 587, 590, 83, 81, 77, 76, 72, 75/2, 70, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 703/58, 37, 36, 34, 33, 32
Dhar	Badnawar	Kheda	832, 836, 838/1, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 855, 1169, 1268, 1391, 1388, 1389, 1378, 1375, 1377, 2181, 2188, 2190, 2193, 2192, 2191, 2215, 2216, 2214, 2210, 2217, 2212, 2216, 2218, 2220, 2222, 2219, 2207, 139, 2224, 2223, 2227, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2040, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2090, 2116, 2115, 2117, 2118, 2275, 2274, 1366, 1390, 1404, 1405, 1406, 1131, 1138, 1172, 1159, 1198, 1162, 1161, 1160, 1159, 897, 859, 857, 1166, 855	832, 836, 838/1, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 855, 1169, 1268, 1391, 1388, 1389, 1375, 1377, 2181, 2188, 2190, 2193, 2215, 2216, 2214, 2210, 2217, 2212, 2220, 2222, 2207, 139, 2224, 2223, 2227, 2235, 2236, 2240, 2040, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2090, 2116, 2115, 2117, 2118, 2275, 2274, 1366, 1390, 1404, 1405, 1406, 1131, 1138, 1172, 1159, 1198, 1162, 1161, 1160, 1159, 897, 859, 857, 1376, 855
Dhar	Badnawar	Multhan	2559, 2557, 2558, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2495, 2494, 2493, 2491, 2461, 2447, 2446, 2445, 2428, 2425, 2424, 2423/1, 2084, 2086, 2099, 1970, 1977, 1976/2/1, 1976/2/2, 1953, 1954, 2823, 1958, 1949, 1960, 1961, 1963, 92, 2665, 69, 2665, 2661/2, 2661/1, 2660, 2642, 2641, 65, 2638, 2600, 2599, 2598, 2596/2, 1597, 2586, 2585, 2584, 2581, 3080/6566, 2575, 2576, 74, 72, 73, 2835, 2836, 2837, 2839, 2894, 2893, 2892, 2885, 2884, 2883, 96, 97, 99, 2923, 2958, 2959, 2928, 2986, 2906, 2968, 2899, 2898, 1946	2559, 2557, 2558, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2495, 2494, 2493, 2499, 2490, 2491, 2447, 2448, 2446, 2445, 2428, 2425, 2424, 2423/1, 2084, 2086, 1991, 2099, 1970, 1964, 1977, 1976/2/1, 1976/2/2, 1978, 1951, 1953, 1954, 2823, 1958, 1949, 1960, 1961, 1963, 92, 2665, 69, 2665, 2661/2, 2661/1, 2660, 2642, 2641, 65, 2638, 2600, 2599, 2598, 2596/2, 1597, 2586, 2585, 2584, 2581, 3080/6566, 2575, 2576, 74, 72, 73, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2894, 2893, 2892, 2885, 2886, 2884, 2883, 96, 97, 99, 2923, 2924, 2958, 2959, 2928, 2986, 2906, 2968, 2901, 2899, 2898, 1946
Dhar	Badnawar	Reethoda	22, 21, 18, 24, 25, 17, 16, 14, 13, 11, 5/1+9, 10, 5/2, 4, 28, 29, 33, 34, 58, 59, 62/1, 62/2, 63, 76, 140, 77, 141, 142, 155	22, 21, 18, 17, 16, 14, 13, 11, 5/1+9, 10, 5/2, 4, 28, 29, 33, 34, 58, 59, 61, 62/1, 62/2, 63, 76, 140, 77, 142, 155

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ratlam	Ratlam	Sujlana	29, 30/3, 30/2, 35/9, 35, 135, 140, 114, 112, 111/1, 111/2, 149, 142/1, 142/2, 142/5, 141, 151, 165/1, 165/2, 167, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252, 253, 256, 255/7, 257, 266, 267, 265/2, 268, 269/1	29, 30/2, 35/9, 35, 135, 140, 114, 112, 111/1, 111/2, 149, 142/1, 142/2, 142/5, 151, 165/1, 165/2, 167, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 249, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252, 253, 255/7, 255/6, 255/5, 257, 258, 259, 266, 265/2, 268, 269/1
Ratlam	Ratlam	Simlawda	63, 64, 65, 67/1, 67/2, 74, 68, 89/1, 89/2, 69/2, 69/1, 91, 102, 110/2/1, 110/2/2, 110/2/3, 110/1, 111, 112, 114/1, 113, 121, 358/1, 359, 358/3, 345, 344, 341/4, 341/3, 339/21, 339/1/1, 339/6, 338, 337, 336, 339/2, 339/3, 272/1, 272/2, 472/2, 472/1, 335, 470/3, 470/24, 470/25, 470/26, 470/27, 360, 455, 390/1, 390/2, 390/3, 399, 388, 397, 362/6, 362/2, 697/1, 390, 727, 728, 739/7, 740, 741, 742, 743/1, 386, 743, 746, 747, 749/8, 749/7, 479/2/2, 749/2/1, 748, 749/1/3/1, 749/1/3/2, 90	63, 64, 65, 67/1, 67/2, 74, 68, 89/2, 69/2, 69/1, 88, 91, 102, 110/2/1, 110/2/2, 110/2/3, 110/1, 111, 112, 114/1, 113, 121, 358/1, 359, 358/3, 346/4, 345, 344, 341/3, 341/2, 339/21, 339/1/1, 339/6, 337, 336, 339/2, 339/3, 272/1, 272/2, 472/2, 472/1, 470/3, 470/24, 470/25, 470/26, 470/27, 469, 455, 390/1, 390/2, 390/3, 399, 388, 397, 396/1, 362/6, 362/2, 697/1, 390, 727, 728, 739/7, 740, 741, 742, 743/1386, 743, 746, 747, 749/8, 749/7, 479/2/2, 749/2/1, 748, 749/1/3/1, 749/1/3/2
Ratlam	Ratlam	Rattagarh kheda	476/5, 776/4, 476/2, 477, 478, 479, 481/3/2/1, 481/2, 491/2/4, 491/2/1, 492, 493/2/1, 493/2/3, 475, 473/2, 474, 466/2, 466/3, 464/1, 463/3, 461/1, 463/2/2, 495/1/1, 495/1/3, 495/1/4, 495/1/2, 495/2/1/3, 495/2/1/5, 495/2/1/4, 495/2/1/2, 495/2/2, 495/2/1/1, 495/5	476/5, 776/4, 476/2, 477, 481/1, 478, 479, 481/3/2/1, 481/2, 490, 491/2/5, 491/2/1, 492, 493/2/2, 493/2/1, 493/2/3, 473/2, 474, 472, 466/2, 466/3, 464/1, 461/1, 464/1, 464/2, 463/2/2, 495/1/1, 495/1/3, 495/1/4, 495/1/2, 495/2/1/3, 495/2/1/5, 495/2/1/4, 495/2/1/2, 495/2/2, 495/2/1/1, 495/5
Ratlam	Ratlam	Lochitara	1, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 15/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, 18, 77, 85/1, 85/4, 85/5, 85/6, 78, 80/1, 80/2, 85, 87, 98/1, 98/2, 99, 101, 102/1/1, 102/1/2, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 104, 103, 128	1, 11/1, 11/2, 9, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 15/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, 18, 77, 85/1, 85/4, 85/5, 85/9, 85/10, 85/6, 78, 80/1, 80/2, 85, 87, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102/1/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 104, 103, 128
Ratlam	Ratlam	Sarwad	202, 388, 387, 386, 389, 385, 382, 384, 343, 344, 342, 340, 339, 337, 352, 353, 329, 328, 327, 326, 266, 324, 323, 321, 261/1, 288, 287, 285, 284, 283, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 252/1, 252/2, 253, 254, 231, 230/7, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 228/13, 228/12, 228/6, 228/5, 228/3, 228/4, 227/2, 224/1, 224/3, 222/2, 222/1, 221/1, 217/2, 220, 217/1, 221/2, 223/1, 29/2, 218, 34, 30, 29/1, 28/2, 31, 26, 27/1, 27/2, 24/1, 22, 16, 15, 14, 281/5, 267, 266, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 265/1, 265/2, 258/17, 258/16, 258/15, 258/13, 23/3, 218, 257	202, 388, 387, 386, 389, 391, 385, 382, 384, 343, 344, 342, 340, 339, 337, 352, 353, 329, 328, 327, 326, 266, 324, 323, 321, 261/1, 288, 287, 285, 284, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 252/1, 252/2, 253, 254, 231, 230/7, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 228/13, 228/12, 228/6, 228/5, 228/3, 228/4, 227/2, 224/1, 224/3, 222/2, 222/1, 221/1, 217/2, 220, 217/1, 221/2, 223/1, 29/2, 218, 35, 34, 30, 29/1, 28/2, 31, 26, 27/1, 27/2, 24/1, 22, 16, 15, 14, 281, 281/5, 267, 266, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 258/17, 258/16, 258/15, 258/13, 23/3, 218, 257

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ratlam	Ratlam	Jamuniya	42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45/1/1, 45/1/2, 45/2/1, 45/2/2, 48, 61/2, 61/1, 62, 63/2, 63/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 414/1, 414/2, 413/1, 413/2, 475/615, 412, 513/1, 513/2, 513/609, 514/1/1, 514/1/2, 514/2, 537, 556/1, 556/2, 557, 558/1, 558/2, 510, 511/1, 511/2, 492/1, 492/2, 475, 477/3/1, 477/3/2, 474, 472/1, 472/2, 473, 450, 489, 449/1, 449/2/1, 449/2/2, 449/3, 455, 447/1, 447/2, 446/1, 446/2, 445/1, 445/2, 444, 423/1, 423/2, 416, 422/1/1, 422/1/2, 422/2/1, 422/2/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2	42/1, 42/2, 42/3, 43, 42/4, 44, 45/1/1, 45/1/2, 45/2/1, 45/2/2, 48, 60, 61/2, 61/1, 415, 416, 62, 65, 64, 63/2, 63/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 414/1, 414/2, 413/1, 413/2, 412, 513/1, 513/2, 514/1/1, 514/1/2, 514/2, 537, 556/1, 556/2, 559/1, 559/2, 559/3, 557, 558/1, 558/2, 510, 511/1, 511/2, 493, 492/1, 492/2, 490, 475, 476, 477/3/1, 477/3/2, 474, 472/1, 472/2, 473, 449/1, 449/2/1, 449/2/2, 449/3, 448/1, 448/2, 455, 447/1, 447/2, 446/1, 446/2, 445/1, 445/2, 444, 423/1, 423/2, 416, 422/1/1, 422/1/2, 422/2/1, 422/2/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 424
Ratlam	Ratlam	Rend	29/1, 29/2, 29/3, 32, 31, 33/1, 34, 35, 39/2, 40/528, 40/529, 41/2, 42, 40, 73, 74, 73/1, 73/2, 71/2, 71/1, 70, 69, 63, 66, 65, 62/1, 62/3, 63/1, 63/2, 62/2, 61, 24, 27/6, 92, 91/2, 84, 83/1, 83/2, 79, 78, 76, 476/2, 476/1, 477/1, 483/1, 483/2, 485, 486/2, 495/2, 525, 525/2	29/1, 29/2, 29/3, 32, 31, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 39/2, 40/528, 40/529, 41/2, 42, 40, 73, 74, 73/1, 73/2, 71/2, 71/1, 70, 69, 63, 66, 67/2, 65, 63/1, 63/2, 62/2, 61, 24, 26, 27/5, 27/6, 92, 91/2, 91/1, 84, 83/1, 83/2, 80, 79, 78, 77, 76, 476/2, 476/1, 477/1, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 495/2, 525, 525/2
Ratlam	Ratlam	Mahu	52/1, 53, 179/2/1, 179/2/2, 179/3, 177/1, 177/2, 177/3, 176, 175/1, 174/3, 174/4, 167, 174/2, 174/1, 169/1, 169/3, 169/4, 169/2, 168, 209, 208, 207, 206/2, 180, 179/4, 181/1, 181/3, 181/4, 193/1, 193/2, 192, 195/2, 194, 196/1, 196/2, 200, 203/2, 203/1, 204	52/1, 53, 179/2/1, 179/2/2, 179/3, 177/1, 177/2, 177/3, 176, 175/1, 149/1/2, 174/3, 174/4, 173, 167, 174/2, 174/1, 169/1, 169/3, 169/4, 169/2, 168, 209, 208, 207, 206/2, 181/1, 181/3, 193/1, 183/1, 193/2, 192, 195/2, 194, 196/1, 196/2, 200, 203/2, 203/1, 204
Ratlam	Ratlam	Bilpank	51, 52, 53/4, 53/1, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/3, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 62, 63, 66, 67, 68/1, 70/1, 71, 72, 73, 79, 80, 81/1, 94/1, 94/2, 126, 50, 43/2, 39/2, 39/4, 39/1, 43/2, 43/1, 48, 49, 46, 47, 45, 163/1, 150, 130, 129, 128/1, 128/2, 127/3, 127/1, 127/2, 100/1, 101/1, 89, 98/1, 96, 95, 40	51, 52, 53/4, 53/1, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58/6, 59, 57/1, 57/2, 62, 64, 65, 66, 67, 68/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/5, 71, 70/6, 72, 73, 74, 78/4, 79, 80, 81/1, 94/1, 94/2, 92, 39/2, 39/4, 39/1, 43/1, 48, 49, 46, 47, 45, 163/1, 150, 130, 129, 128/1, 128/2, 127/3, 127/1, 127/2, 100/1, 101/1, 100/4, 89, 98/1, 96, 40
Ratlam	Ratlam	Chikaliya	1, 3/1, 82, 83, 101, 100, 95, 87, 90, 86/6, 85, 86/2, 86/1, 93	1, 3/12, 3/1, 3/4, 82, 83, 101, 100, 84, 94, 95, 87, 90, 86/5, 86/6, 86/2, 86/1, 93
Ratlam	Ratlam	Dharad	230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 232/2, 233, 234/1, 234/5, 234/4, 234/3, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 237/1/1, 237/1/2, 237/1/3, 529/1, 531/3, 531/1, 531/2, 237/1/4, 238, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1/1, 226/1/2, 226/2/1, 226/2/2, 198/3, 198/2, 198/6, 198/3, 198/4, 198/5, 198/1, 197/1, 197/2, 227, 187/1, 187/2, 187/3, 182/2, 186, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 847/2, 847/4, 847/5, 843, 844, 536, 537/2, 537/3, 554, 555, 556,	230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 232/2, 232/1, 233, 234/1, 234/5, 234/4, 234/3, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 237/1/1, 237/1/2, 237/1/3, 529/1, 531/3, 531/1, 531/2, 237/1/4, 238, 529/1, 528/3, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1/1, 226/1/2, 226/2/2, 198/3, 198/2, 198/6, 198/3, 198/4, 198/5, 199/2, 199/1, 198/1, 200/1, 197/1, 197/2, 227, 187/1, 187/2, 187/3, 182/5, 182/2, 186, 184/1,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			559, 560, 561, 564, 565, 567, 568/1 चे, 568/1, 568 चे, 568 चे, 568 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/4, 593/2020/2, 593/2020/3, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 604/2, 606/1, 606/5, 606/3, 606/2, 612/2, 613/3, 613/4, 641/1, 646, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 645/1, 647/1, 645/2, 647/4, 647/3, 647/2, 655/1, 655/2, 657, 658/1, 658/2, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 663/4, 663/1, 663/2, 663/3, 675, 679, 680/3, 680/2, 680/1, 600/2, 682/2, 682/3, 682/1, 712, 713, 716, 717, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/3, 718/2, 718/5, 720, 719, 722, 726, 725/1, 725/2, 735, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738, 739/1 से 5 तक, 740/5 मेसे, 740 मेसे, 740 मेसे, 740/4 मेसे, 740 मेसे, 741/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 742/1, 742/2, 742/3, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 744/1/1, 744/1/2, 744/3, 744/2, 743, 744/4, 744/5, 676	184/2, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 847/2, 847/3, 847/4, 847/5, 843, 844, 845, 536, 537/2, 537/3, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568/1 चे, 568/1, 568 चे, 568 चे, 568 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/1 चे, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/2020/1, 593/2020/2, 593/2020/3, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 604/2, 606/1, 606/5, 606/3, 606/2, 607/1, 612/2, 613/3, 613/4, 641/1, 646, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 645/1, -, 645/2, 647/4, 647/3, 647/2, 655/1, 655/2, 655/3, 654, 657, 658/1, 658/2, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 663/4, 663/1, 663/2, 663/3, 675, 679, 680/3, 680/2, 680/1, 600/2, 682/2, 682/3, 682/1, 712, 713, 716, 717, 717/1, 717/2, 717/3, 718/1, 718/3, 718/2, 718/5, 720, 719, 722, 726, 725/1, 725/2, 735, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738, 739/1 से 5 तक, 740/5 मेसे, 740 मेसे, 740 मेसे, 740/4 मेसे, 740 मेसे, 741/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 742/1, 742/2, 742/3, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 742/1 मेसे, 746, 744/1/1, 744/1/2, 744/3, 744/2, 743, 744/4, 744/5, 676
Ratlam	Ratlam	Mangrol	759/1, 759/2, 759/3, 754, 749, 747, 746, 793/1, 793/2, 793/3, 794, 795, 799, 791/1, 791/2, 779, 780, 790/1, 790/2, 792, 789, 787, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 774, 761/1, 761/6, 761/7, 761/8, 762, 768, 761/2, 761/4, 761/5, 761/3	758/1, 758/2, 758/3, 759/1, 759/2, 759/3, 754, 749, 747, 746, 793/1, 793/2, 793/3, 794, 795, 799, 791/1, 791/2, 779, 780, 790/1, 790/2, 792, 789, 787, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 774, 761/1, 761/6, 761/7, 761/8, 762, 768, 761/2, 761/4, 761/5, 761/3
Ratlam	Ratlam	Kharakhedi	4/1, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 6/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 35, 35/7, 35/5, 107/1, 107/2, 108, 175, 176/2, 176/4, 176/1, 174/2, 171, 158/1, 158/2, 157/2, 157/1, 149, 177, 178, 179, 177, 261/1, 267/1, 267/2, 267/3, 261/4, 260/2, 264/2, 264/1, 260/3, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 244, 180/4, 180/3, 180/2, 180/1, 191/4, 173, 14, 191/3, 191/13, 191/14, 191/8, 191/7, 191/2, 191/6, 191/12, 191/10, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/2, 208/4, 208/7, 211	4/1, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 6/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 35, 35/2, 35/7, 35/5, 35/6, 107/1, 107/2, 108, 175, 176/3, 176/2, 176/4, 176/1, 174/2, 170, 171, 158/1, 158/2, 159, 157/2, 157/1, 156, 149, 177, 261/1, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 261/4, 261/2, 260/2, 264/2, 264/1, 260/3, 260/1, 259, 258, 257, 256, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 244, 180/4, 180/3, 180/2, 180/1, 191/4, 14, 191/3, 191/13, 191/14, 191/8, 191/7, 191/2, 191/12, 191/10, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/2, 208/4, 208/7, 206, 211

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ratlam	Ratlam	Salakhedi	166, 165, 164/2, 164/3, 164/1, 163/2, 163/1, 147, 146, 144/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/9, 143, 145/2, 144/17, 142, 144/15, 144/16, 149, 140, 94/1, 94/4, 94/2, 93, 92, 72/6, 72/5, 72/1, 72/4, 72/3, 72/2, 73/1, 79, 68, 69/1, 68/1, 62, 67, 64/1, 64/4, 64/5, 66/3, 66/4, 64/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/3, 78, 253, 267, 61/2, 61/1, 60, 59, 56, 49/1, 49/4, 49/6, 49/3, 49/5, 28/1, 28/7, 28/6, 28/5, 28/2, 28/3, 28/4, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 23/1, 24/6, 24/1, 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 14/7, 20, 14/2, 14/5, 14/6, 14/1, 15/1, 15/10, 15/11, 15/12, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 12, 11, 5/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/1, 5/1, 4, 3, 2/6, 2/10, 2/8, 2/14, 2/12, 2/15, 2/13, 2/2, 2/1	166, 165, 164/2, 164/3, 164/1, 163/2, 163/1, 163/3, 147, 146, 144/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/9, 144/7, 143, 144/5, 144/6, 145/2, 144/17, 142, 144/10, 144/15, 144/16, 149, 140, 94/1, 94/4, 94/2, 93, 92, 72/6, 72/5, 72/1, 72/4, 72/2, 73/1, 68, 69/1, 68/1, 67, 66/1, 68/2, 64/1, 64/4, 64/5, 66/4, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/3, 78, 253, 267, 61/2, 61/1, 60, 59, 58, 56, 49/2, 49/1, 49/4, 49/6, 49/3, 49/5, 28/1, 28/7, 28/6, 28/5, 28/2, 28/3, 28/4, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 23/1, 24/6, 24/1, 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 14/7, 20, 14/2, 14/5, 14/6, 14/1, 15/1, 15/10, 15/11, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 12, 11, 5/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/1, 5/1, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/10, 2/8, 2/14, 2/12, 2/15, 2/13, 2/2, 2/1
Ratlam	Ratlam	Sanawada	3, 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 9/2, 9/10, 9/3, 9/9, 9/4/1, 9/4/2, 9/5, 9/8, 9/1/2, 9/1/4, 9/1/3, 10, 80/4, 82/1, 82/2, 82/4, 83/2, 85/1, 85/2/1, 85/2/3, 86, 87, 88, 79, 13, 11, 12, 19/2, 19/3	3, 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 9/2, 9/10, 9/3, 9/9, 9/4/1, 9/4/2, 9/5, 9/8, 9/1/2, 9/1/4, 9/1/3, 9/6, 10, 80/4, 80/3, 82/1, 82/2, 82/4, 83/2, 85/1, 85/2/1, 85/2/3, 86, 87, 88, 39, 40, 79, 13, 11, 12, 19/2, 19/3
Ratlam	Ratlam	Bhatuni	109, 122, 129, 132/2, 132/4, 132/3, 138/1, 137, 147/1, 147/4, 147/3, 147/2, 138/2, 146/1, 146/3, 145/1, 145/2, 146, 187, 143, 142, 139/1, 139/2, 139/3, 131, 130	109, 121, 122, 129, 132/2, 132/4, 132/3, 138/1, 138/3, 137, 147/1, 147/4, 147/3, 147/2, 138/2, 146/1, 146/2, 146/3, 145/1, 145/2, 146, 187, 144, 143, 142, 139/2, 139/3, 140, 131, 130
Ratlam	Ratlam	Surakhedi	12, 21, 23, 25, 34, 27, 28, 38, 55, 52, 45, 44, 43, 42, 22	12, 21, 23, 25, 24, 34, 27, 28, 38, 55, 52, 53, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 22
Ratlam	Ratlam	Bhatkhedi	17, 18, 19/3, 19/1/3, 20, 12, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 28, 27, 25, 23, 16	17, 18, 19/1/4, 19/2, 19/3, 19/1/3, 20, 12, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 28, 27, 25, 23, 21, 16
Ratlam	Ratlam	Ghatla	17, 18, 20/3, 20/4, 20/5, 15, 16, 20/6, 20/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 13, 206, 215/2, 215/3, 214/2, 214/3, 214/1, 211/1, 211/2, 213/1, 212, 225, 207, 256/3, 256/2, 254/1, 251/2, 250/2, 243/1, 243/2	17, 18, 20/3, 20/4, 20/5, 15, 16, 20/6, 20/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 13, 206, 215/2, 215/3, 214/2, 214/3, 214/1, 211/1, 211/2, 213/1, 212, 225, 207, 256/3, 256/2, 254/1, 251/2, 250/2, 243/1, 243/2
Ratlam	Ratlam	Dosigaon	-	116, 115, 117/1, 118, 119/1, 119/2, 120
Ratlam	Ratlam	Sejawta	62, 64/4, 64/7, 64/6, 64/2, 64/3, 64/5, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 77/5, 77/1, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 88, 96, 93, 92, 272, 271, 270, 267, 262, 263, 263/510, 356, 352, 351, 350, 375, 373, 372, 371, 370, 358/3, 358/2, 358/1, 259, 261/4, 261/3, 261/5, 261/2, 261/1, 249, 245, 149, 140/9, 140/1, 140/2, 140/10, 133/1, 132, 131/5, 131/8, 129, 128/6, 125/3, 125/8, 125/10, 125/11, 125/2, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 124, 99/4, 99/5, 98, 108	62, 64/4, 64/7, 64/6, 64/2, 64/3, 64/5, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 77/5, 77/1, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 88, 96, 93, 92, 272, 271, 270, 267, 262, 263, 263/510, 356, 352, 351, 350, 375, 373, 372, 371, 370, 358/3, 358/2, 358/1, 259, 261/4, 261/3, 261/5, 261/2, 261/1, 249, 245, 149, 140/9, 140/1, 140/2, 140/10, 133/2, 133/5, 133/1, 132, 131/5, 131, 131/8, 130, 131/9, 129, 128/6, 125/3, 125/8, 125/10, 125/11, 125/2, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 124, 99/4, 99/5, 98, 108, 128/10, 128/12

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ratlam	Ratlam	Dhounswas	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12/2, 11/8, 12/10, 12/6, 12/9, 13, 13/616, 29/2, 31, 21, 273/1, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 377, 381, 378, 382, 383, 394, 391, 395, 393, 396, 394/1, 394/2, 394/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 408/5, 407/603, 561, 560/1, 560/2, 568, 573, 574/1, 574/4, 574/5, 580/3, 580/8, 580/6, 582/1, 582/3, 582/2, 582/4, 582/7, 582/8, 582/5, 582/11, 582/10, 582/9, 582/6, 583, 262, 261, 420, 419, 418, 264, 417, 416, 415, 414, 559, 558, 557/2, 522/1, 551/1, 551/2, 550/2, 549, 548/1, 547/2, 546, 584/13, 584/1, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/9, 584/10, 584/14, 267, 73, 74/1, 72/1, 72/2, 72/3, 71, 70, 69, 66/4, 66/3, 66/2, 65/2, 65/4, 65/5, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 35, 34, 37/1, 36, 37/2, 38/2, 38/1, 39, 142, 143, 153, 155, 157, 159, 265, 264, 33, 266, 547/1/1, 547/2, 394/3/1, 394/3/2	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12/2, 11/1, 11/8, 12/5, 12/10, 12/6, 12/9, 12/7, 13, 13/616, 29/2, 30/1, 31, 21, 274/2, 273/1, 273/2, 275/2, 275/3, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 272, 271, 270, 269, 268, 292, 299, 293, 267, 377, 381, 378, 382, 383, 394, 391, 395, 393, 396, 394/1, 394/2, 394/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 408/5, 407/603, 561, 560/1, 560/2, 568, 573, 574/1, 574/4, 574/5, 580/2, 580/3, 579, 580/8, 580/6, 582/1, 582/3, 582/2, 582/4, 582/7, 582/8, 582/5, 582/11, 582/10, 582/9, 582/6, 583, 262, 261, 420, 419, 418, 255, 264, 417, 416, 415, 414, 559, 558, 557/2, 522/1, 551/1, 551/2, 550/2, 523, 549, 548/1, 547/2, 546, 584/13, 584/1, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/9, 584/10, 584/14, 267, 73, 74/1, 72/1, 72/2, 72/3, 71, 70, 69, 66/4, 66/3, 66/2, 65/2, 65/4, 65/5, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 37/2, 38/2, 38/1, 39, 142, 141, 143, 154, 153, 155, 157, 158, 159, 264, 33, 547/1/1, 547/2, 394/3/1, 394/3/2
Ratlam	Ratlam	Namli	143, 137, 145/15, 145/2, 145/3, 145/4, 889, 885, 883, 882, 878, 876, 876/1/2, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203, 872/1	265, 266, 267, 268, 369, 285, 282, 283, 281, 279, 290, 260/1187, 262, 263/1203, 269, 261, 260, 680, 602, 603, 604, 613, 671, 670, 667, 663, 676, 674, 673, 672, 665, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1037, 143, 191, 189/3, 190/1209, 184/1143, 180, 178, 169, 171/1, 163, 162, 194, 195, 190, 184, 183, 182, 176, 165/1208, 173, 174, 376, 373, 371, 377, 366, 367, 368, 369, 284, 286, 287, 288, 289, 293, 292, 278, 264, 137, 145/15, 145/2, 145/3, 145/4, 888, 889, 887, 886, 885, 883, 882, 878, 876, 876/1/2, 876/1/3, 872/1, 873, 849, 144, 145/9, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/7, 192/5, 193, 199, 200, 209, 203
Ratlam	Ratlam	Mewasa	273/2, 273/1, 274, 271/1, 276/4, 276/1, 276/3, 277, 258, 257, 256, 280/2, 280/1, 279, 281, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 275, 235, 236, 234, 233, 285, 286, 231, 230, 194, 232, 193, 287, 184, 171, 183, 74, 73, 75, 185, 181, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97/1, 97/2, 98, 97/365, 108, 109, 121, 120, 122, 124/1, 124/2/2, 134, 135/4, 137, 143, 144/1, 147, 149, 150, 151, 311, 152, 153, 154, 159, 180, 179, 178, 177, 176, 172, 124/6, 125/1, 127, 128, 129, 343, 349, 340/1, 340/2, 131, 132,	273/2, 273/1, 274, 271/1, 276/4, 276/1, 276/3, 277, 258, 257, 256, 280/2, 280/1, 279, 281, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 275, 235, 236, 234, 233, 285, 286, 231, 230, 194, 232, 193, 287, 184, 171, 183, 74, 73, 75, 185, 181, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97/1, 97/2, 98, 97/365, 108, 109, 121, 120, 122, 124/1, 124/2/2, 134, 135/4, 137, 143, 144/1, 147, 149, 150, 151, 311, 152, 153, 154, 159, 180, 179,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			134	178, 177, 176, 172, 124/6, 125/1, 127, 128, 129, 343, 349, 340/1, 340/2, 131, 132, 134
Ratlam	Ratlam	Nayapura	87, 88, 80/2, 96, 97/1, 97/2, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 149/2, 151, 150, 155, 154, 153, 152	87, 88, 89, 80/2, 96, 97/1, 97/2, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 149/2, 151, 150, 155, 154, 153
Ratlam	Ratlam	Bhadwasa	1, 2, 3, 4, 41, 6, 9, 8/1, 8/3, 5	1, 2, 3, 41, 6, 9, 8/1, 8/3, 8/4
Ratlam	Piploda	Padliya Hasan	161/2, 159/2, 158/3, 159/3, 158/1, 158/2, 156, 154, 145, 140, 135/2, 141, 126, 123, 135/3, 119, 118, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 260, 261, 262, 268/4, 268/5, 280, 279, 278, 286/1, 286/2, 286/5, 152/2/4 क, 152/2/4 ख, 157, 312/1, 312/2, 310, 309, 308/2, 308/4, 308/5, 308/1/2, 308/3, 308/1, 306, 308/1/1, 397, 400, 160, 161/1, 163, 164, 165, 166, 125/2, 125/3, 124, 122, 121, 256, 257, 258, 281/1, 281/3, 281/4, 283, 285, 284/420, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 306, 400/1, 400/2, 416, 125/2, 120/1/1, 120/1/2, 120/1/3, 120/1/4/1, 120/1/4/2, 120/1/5, 120/2, 120/3, 120/4	161/2, 159/2, 158/3, 159/3, 158/1, 158/2, 156, 154, 145, 143, 140, 135/2, 132, 141, 131, 126, 123, 135/3, 119, 118, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 260, 261, 262, 268/4, 280, 279, 278, 286/1, 286/2, 301/1, 301/2, 305, 370/1, 370/2, 403, 152/2/4 क, 152/2/4 ख, 157, 268/6, 268/7, 312/1, 312/2, 310, 309, 308/4, 308/5, 308/1/2, 308/3, 308/1, 308/1/1, 397, 400, 160, 161/1, 163, 164, 165, 166, 125/2, 125/3, 124, 122, 121, 256, 257, 258, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 283, 285, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 306, 400/1, 400/2, 416, 125/2, 120/1/1, 120/1/2, 120/1/3, 120/1/4/1, 120/1/4/2, 120/1/5, 120/2, 120/3, 120/4
Ratlam	Piploda	Araniya Gujar	101, 100, 143, 142, 141, 140, 138, 130, 129, 385, 386, 393/1, 393/2, 403, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 398, 404, 406, 405, 127, 128, 124, 123, 122, 121, 119, 116, 113/1, 113/2, 113/3, 111, 109, 111/408, 112, 108/1, 108/2, 107, 105, 103, 102	101, 100, 143, 142, 141, 96, 140, 145, 138, 139, 137, 136, 135, 130, 129, 383, 384, 385, 386, 387, 393/1, 393/2, 403, 401/1, 401/2, 101, 100, 143, 142, 141, 96, 140, 145, 138, 139, 137, 136, 135, 130, 129, 383, 384, 385, 386, 387, 393/1, 393/2, 403, 401/1, 401/2, 402/2, 402/3, 402/4, 398, 406, 405, 127, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 116, 115, 113/1, 113/2, 113/3, 111, 109, 111/408, 112, 108/1, 108/2, 106, 107, 105, 103, 104
Ratlam	Piploda	Sohangarh	751, 755, 812/1, 782, 783, 777/1, 777/2, 773, 779, 772/1, 772/2, 785, 788/1883, 789, 790, 784, 756, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1768, 1811 मे.से., 1811 मे.से., 1810, 1807, 1806, 1802, 1803, 1813/1, 1813/3, 1819, 1797, 1796, 1795, 1792, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1786, 1812, 1820, 1821, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2/1, 1844/2/2, 1844/3, 1859, 1860	751, 755, 812/1, 782, 783, 786, 777/1, 777/2, 773, 774, 779, 772/1, 772/2, 785, 788/1883, 788, 789, 792, 790, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1768, 1811 मे.से., 1810, 1807, 1806, 1802, 1803, 1813/1, 1813/3, 1814/1, 1816/2, 1817, 1819, 1818, 1797, 1798, 1796, 1799, 1795, 1792, 1793, 1791, 1790, 1787/1, 1787/2, 1788, 1786, 1820, 1821, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2/1, 1844/2/2, 1844/3, 1859, 1860

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ratlam	Piploda	Padliyaumar	164, 165, 166, 167, 176, 177/2, 177/1, 180, 185, 184, 183, 159, 203/1, 204, 206, 207, 222/1/क, 210, 118/2, 151/1/क, 151/1/ख, 119, 153/1/क, 121, 126, 128, 150, 149, 152, 153, 162, 161, 160, 69, 53/2, 53/1, 52, 50, 49, 48, 47, 46	164, 165, 166, 167, 176, 177/2, 177/1, 180, 181, 185, 184, 183, 200, 159, 203/1, 204, 206, 207, 222/1/क, 210, 118/2, 151/1/क, 151/1/ख, 119, 153/1/क, 121, 126, 128, 150, 149, 152, 153, 162, 161, 154, 160, 69, 54, 53/2, 53/1, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46

II)

Part-"A"

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Jaora-Nayagaon Four lane (SH-31)	127.81	Ratlam, Mandsaur, Nimach

Part-"B"

Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40 m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ratlam	Jaora	Lohari	209, 219/1/1/1, 219/1/1/2, 219/1/2, 219/1/3, 220, 221/1, 221/2, 224, 115, 228, 229/3, 229/1/1, 229/1/2, 229/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/2, 234, 234/2/2/2, 238/3, 238/2, 235/1, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247/2, 246/2, 246/1, 247/4, 113, 114, 118/2, 124, 125, 128, 129, 129/4, 93, 130, 149/4, 151/2, 153, 152, 153/1, 156/3, 203/1, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 207/2	209, 219/1/1/1, 219/1/1/2, 219/1/2, 219/1/3, 220, 221/1, 222, 221/2, 224, 115, 228, 229/1/1, 229/1/2, 230, 231/1, 233/3, 233/5, 233/2, 234, 234/2/2/2, 238/3, 238/2, 235/1, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247/2, 246/1, 247/4, 114, 118/2, 124, 125, 128, 129, 129/4, 93, 130, 149/4, 151/2, 153, 152, 153/1, 156/3, 203/1, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 207/2
Ratlam	Jaora	Kumhari	2, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11/5, 11/1, 11/6, 11/7, 6/2, 6/4, 22, 23/1, 23/4, 23/2, 23/3, 24/1, 28/1, 25/2, 26/3, 29, 30/2, 31, 35/17, 35/18, 50, 30/1, 53, 51, 54, 55, 57, 57/3, 57/15, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21	4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11/5, 11/1, 11/6, 11/7, 6/2, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 28/1, 25/2, 29, 30/2, 31, 35/17, 35/18, 50, 30/1, 53, 51, 54, 55, 57, 57/3, 57/15, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21
Ratlam	Jaora	Bannakheda	69, 227, 54, 104, 168, 169, 172, 171, 174, 175, 178, 183, 228, 229, 230, 231, 232, 237/1/1, 237/6, 237/7, 241, 244, 226, 222	69, 227, 54, 104, 168, 163/4, 169, 172, 171, 174, 175, 178, 183, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 237/1/2, 237/1/1, 237/6, 237/7, 241, 240, 244, 226, 222
Ratlam	Jaora	Kasba Jaora	690, 692, 694, 695, 696, 708, 691, 465/5/2, 465/6/1, 465/6/3, 465/8, 464, 463, 463/4, 463/1, 462, 461, 453, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 451, 449, 447, 219, 220, 216/4, 216/1 क, 216/3, 216/1 क, 185, 184/1, 178/3, 178/8, 176/1, 178/2, 176/6, 178/1, 176/4, 176/2, 176/8, 176/3, 175/3, 175/4, 84, 78/2, 78/1, 77/1, 77/2, 76/1, 73/3, 73/5, 73/4, 73/2, 72, 71, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 58/6, 58/1, 58/4, 589, 58/8, 58/7, 60, 61/1/1, 61/1/2, 61/2, 68, 69/2, 69/1, 69/3, 69/4, 433, 443, 444/1, 444/3, 444/2, 443/1, 445/2, 445/3, 445/4, 455/1, 450, 458, 460, 459, 460/1218, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/7, 502/4, 508, 689, 28/2, 28/3, 28/1, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3/1, 30/3/2, 30/4,	690, 692, 694, 695, 696, 708, 691, 465/5/2, 465/6/1, 465/6/3, 465/8, 464, 463, 463/4, 463/1, 462, 461, 453, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 451, 449, 447, 219, 220, 216/4, 216/1 क, 185, 184/1, 178/3, 178/8, 176/1, 178/2, 176/6, 178/1, 176/2, 176/8, 176/3, 175/3, 175/4, 84, 78/2, 78/1, 77/1, 77/2, 76/1, 73/3, 73/5, 73/4, 73/2, 72, 71, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 58/3, 58/2, 58/6, 58/1, 58/4, 58/5, 60, 61/1/1, 61/1/2, 61/2, 68, 69/2, 69/1, 69/3, 69/4, 433, 443, 444/1, 444/3, 444/2, 443/1, 445/2, 445/3, 445/4, 455/1, 450, 455/2, 458, 460, 459, 460/1218, 465/1, 465/2, 465/3,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			30/5, 30/6, 31, 38/1, 38/4, 38/5, 39/1, 42, 45/1, 45/2/1, 45/2/2, 45/3, 46/1, 46/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50	465/4, 465/7, 502/4, 508, 689, 28/2, 28/3, 28/1, 27, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3/1, 30/3/2, 30/4, 30/5, 30/6, 31, 38/1, 38/2, 38/4, 38/5, 39/1, 42, 45/1, 45/2/1, 45/2/2, 45/3, 46/1, 46/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50
Ratlam	Jaora	Araniyapitha	157, 150, 149, 148/1, 148/2, 140, 110, 108, 107, 105, 104, 103, 102/1, 102/3, 52, 51, 50/1, 48, 47, 46, 159/2, 159/1, 168/2, 169, 170, 171, 180, 179, 181, 182, 203, 209, 207, 211, 213, 212, 158,	157, 150, 149, 148/1, 148/2, 140, 141, 109, 106, 103, 102/1, 102/3, 52, 51, 50/1, 48, 49, 159/2, 159/1, 161, 168/2, 169, 170, 171, 180, 179, 178, 181, 182, 203, 209, 207, 211, 213, 212
Ratlam	Jaora	Bagakheda	1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 18/1, 18/3, 19, 20, 26/1, 28, 29, 32, 38, 35, 40, 41, 42, 39, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 98, 129, 134, 140, 141, 142, 143, 145, 143	1, 2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9/861, 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 18/1, 18/2, 17, 19, 20, 26/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 38, 35, 40, 41, 42, 39, 37/1, 38/3, 37/2, 38/2, 38/1, 98, 129, 128, 134, 130, 140, 141, 142, 143, 145, 143
Ratlam	Jaora	Bhaisana	78, 79, 80, 83, 84, 94, 93, 95, 96, 139, 140/3, 140/1, 158, 154, 153, 152, 151, 150, 160, 162, 163, 164, 165, 165/3, 165/4, 166, 167, 178, 177, 179, 180, 183, 184, 81	78, 79, 80, 83, 85, 84, 94, 93, 95, 96, 139, 140/3, 140/1, 158, 154, 153, 152, 151, 150, 161/2, 160, 169, 162, 163, 164, 165, 165/3, 165/4, 166, 167, 178, 177, 179, 180, 183, 184, 81
Ratlam	Jaora	Reechhachanda	483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 569, 570, 571, 567, 572, 573, 575, 576, 577, 579, 552, 580, 581, 582, 589, 590, 592, 593, 594, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 282, 283, 293, 294, 310, 311, 312, 313, 314, 396, 397, 398, 399, 400, 414, 415, 416, 451, 453, 455, 459, 460, 461, 462, 181	484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 567, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 552, 580, 581, 582, 589, 590, 592, 593, 594, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 282, 283, 293, 294, 310, 313, 314, 396, 397, 398, 395, 402, 399, 400, 401, 403, 414, 404, 412, 413, 416, 411, 417, 418, 450, 451, 453, 455, 459, 460, 461, 462, 181
Ratlam	Jaora	Parwaliya	136, 129, 128, 126, 125, 124, 115, 114, 111, 110, 109, 90, 99, 89, 87, 86, 85, 83, 81, 76, 75, 71, 70, 69, 68, 61, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/2/2, 144, 145, 252, 251, 253, 262, 261, 263, 264, 267, 268, 271, 269, 270, 272, 273, 326, 345, 346, 347, 350, 354, 355, 138	136, 129, 128, 126, 124, 115, 114, 111, 110, 108, 109, 90, 91, 87, 86, 84, 83, 81, 76, 75, 71, 70, 69, 68, 61, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/2/2, 144, 145, 252, 251, 253, 257, 263, 264, 267, 271, 269, 270, 272, 273, 326, 345, 347, 348, 350, 354, 355
Ratlam	Piploda	Lasudiyaniathi	72, 73/1, 75, 82, 80, 90, 85, 87, 88, 83, 84, 89	72, 73/1, 74, 75, 82, 80, 90, 85, 87, 88, 84, 89
Ratlam	Jaora	Dhodhar	47, 48, 57, 58, 59, 69/1743, 59/1743, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 87, 89, 90, 93, 95, 99, 101, 102, 104, 103, 262, 259, 257, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 907, 906, 908, 911, 912, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075, 1397, 1408, 1409, 1410, 1316, 1411, 1412, 1315, 1314, 1413, 1299, 1297, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 313, 314, 315, 316,	47, 48, 49, 57, 58, 59, 69/1743, 59/1743, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 262, 259, 258, 269, 268, 270, 271, 272, 273, 278, 281, 282, 292, 293, 294, 295, 296, 907, 906, 908, 909, 911, 912, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1397, 1389, 1408, 1409, 1410, 1421, 1420, 1412, 1418, 1413, 1415, 1416, 1299, 1297, 1296, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 110, 109, 108, 107, 104, 105, 45, 44, 46, 43, 49, 40, 39, 37/1, 36, 30, 29, 28, 27, 26	1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 110, 109, 108, 107, 105, 45, 44, 43, 49, 40, 39, 37/1, 36, 30, 29, 28, 27, 26
Ratlam	Piploda	Manankheda	676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 835, 834, 832, 831, 825, 823, 822, 821, 816, 815, 810, 809, 806, 808, 805, 804, 799, 796, 794, 795, 793, 792, 707, 718, 706, 705, 704, 701, 153, 14, 13, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 164, 163, 162, 161, 160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 699, 698, 696, 694, 692/1, 692/2, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 689, 679, 678, 152, 148, 105, 104, 103, 72, 71, 68, 69, 63, 60, 55, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16	676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 835, 834, 832, 831, 825, 823, 822, 821, 816, 815, 810, 809, 806, 808, 805, 804, 799, 796, 794, 795, 793, 792, 707, 718, 706, 705, 704, 701, 153, 14, 13, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 164, 163, 162, 161, 160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 699, 698, 696, 694, 692/1, 692/2, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 689, 679, 678, 152, 148, 105, 104, 103, 72, 71, 68, 69, 63, 60, 55, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17
Mandsaur	Dalauda	Kachnara	289, 298, 299, 300, 301, 455, 302, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 510, 514, 580, 588, 589, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 611, 612, 613, 614, 615, 987, 988, 1000, 1001, 1027, 1028, 1026, 1029, 1030, 1031, 1063, 1064, 1079, 1080, 1081, 1084, 1083, 1277, 1279, 1280, 1281, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 248/3, 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 265, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 586, 597, 287, 277, 286, 288	289, 298, 299, 300, 301, 455, 302, 487, 489, 490, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 510, 509, 509/1346, 511, 514, 580, 588, 589, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 611, 612, 613, 614, 615, 987, 988, 1000, 1001, 1002, 1027, 1028, 1026, 1030, 1032, 1031, 1063, 1064, 1079, 1080, 1081, 1084, 1083, 1277, 1279, 1280, 1281, 1273, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 248/3, 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 265, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 586, 597, 287, 277, 286, 288
Mandsaur	Dalauda	Akyaumahedha	6, 7, 4, 8, 2, 1, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 38, 40, 47, 48, 49, 58, 57, 45, 97, 98, 71, 99, 100, 88, 1188, 1189, 1134, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1268, 1269, 1271, 1309, 1314, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1335, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 52, 53, 54, 55, 193, 191, 183, 179, 178, 171, 176, 170, 169, 166, 164, 149, 147, 146, 145, 144, 102, 103, 137, 130, 131, 132, 133, 134, 119, 166, 169, 168, 105, 1004, 1007, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1380	5, 6, 7, 4, 8, 2, 1, 13, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 21, 38, 39, 40, 47, 46, 48, 49, 58, 65, 57, 98, 71, 1188, 1189, 1134, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1244, 1246, 1247, 1248, 1268, 1269, 1271, 1309, 1314, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, 1335, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 52, 53, 54, 55, 193, 191, 197, 183, 184, 187, 182, 179, 178, 171, 176, 170, 166, 165, 164, 149, 147, 148, 150, 146, 137, 119, 166, 169, 168, 105, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1365, 1359, 1358

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Mandsaur	Dalanda	Lakhmankhedhi	160, 162, 163/2, 165, 166, 169/1, 169/2, 170, 171, 173, 174, 206, 199, 198, 196, 195/2, 195/1, 194, 191, 315, 456, 457, 458, 459, 460, 471, 472, 475, 478, 507, 505, 504, 508, 521, 522, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 210/2, 209, 208, 228, 242/2, 243, 242/1, 246, 248/1, 248/2, 313, 529, 527, 526, 525, 540, 543, 544, 542, 545, 563, 554, 555, 556, 557	160, 161, 162, 165, 165, 166, 169/1, 169/2, 170, 171, 173, 174, 206, 199, 198, 196, 195/2, 195/1, 194, 191, 315, 456, 457, 458, 459, 460, 471, 470, 472, 475, 478, 507, 505, 504, 508, 521, 522, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 210/2, 209, 208, 228, 227, 229, 242/2, 242/1, 246, 247, 248/1, 248/2, 313, 529, 527, 526, 525, 540, 543, 544, 542, 545, 546, 563, 552, 551, 554, 555, 556, 557
Mandsaur	Dalanda	Dalanda	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 551, 20, 22/1, 21/2, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 115, 116, 113, 118, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 241, 243, 244, 281, 264, 265, 263, 266, 267, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 414, 416, 417, 415, 419, 420, 475/1, 475/2/1, 475/2/2, 475/3, 486, 487, 493, 496, 511, 512, 519, 520, 535, 544, 546, 906, 909/2, 905 मि-1, 906 मि-2, 902, 577, 576, 578, 575, 589, 570, 568/1, 568/2, 566 मि-1 566 मि-2 567, 554, 553, 642 मि-1, 642 मि-2, 645, 647, 651, 652, 117, 709, 708/2, 710, 695, 711, 718, 717, 715, 719, 722, 726, 727, 547, 548, 1142, 1137, 1136, 1135, 1134, 1129, 1127, 1126, 549, 1125, 1124, 721, 732, 731, 1122, 1121, 1119, 1116, 1114, 1113, 946, 947, 944, 943, 940, 550, 923, 941, 922, 917, 918, 721, 722	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 551, 20, 22/1, 21/2, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 115, 116, 113, 118, 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 241, 243, 244, 264, 265, 263, 266, 267, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 414, 416, 417, 415, 419, 420, 475/1, 475/2/1, 475/2/2, 475/3, 486, 487, 493, 496, 511, 512, 519, 520, 535, 544, 546, 906, 907, 909/1, 909/2, 905 मि-1, 906 मि-2, 902, 577, 576, 578, 575, 589, 570, 568/1, 568/2, 566 मि-1 566 मि-2 567, 554, 553, 642 मि-1, 642 मि-2, 645, 647, 649 मि-1, 649 मि-2, 651, 652, 117, 709, 708/2, 710, 695, 711, 718, 715, 719, 722, 726, 727, 547, 548, 1142, 1137, 1136, 1135, 1134, 1129, 1127, 1126, 549, 1125, 1124, 721, 732, 731, 1122, 1121, 1119, 1116, 1114, 1113, 946, 944, 943, 940, 550, 923, 939, 941, 922, 917, 918, 721, 722
Mandsaur	Dalanda	Banikhedi	45, 44, 202, 203, 204, 222, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 920, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220	45, 44, 202, 203, 204, 222, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 920, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219
Mandsaur	Dalanda	Fatehgarhroja	89, 91, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 74, 73, 72, 71, 70, 183, 182, 181, 180, 399, 400, 401, 403, 402, 422, 425, 421, 426, 437, 436, 43/5, 434, 432, 431, 556/1, 557, 558, 580/2, 581, 590/2, 601, 599/2, 600, 602, 555, 450, 449, 172, 178, 82, 611, 603, 604, 605, 542, 543, 544, 547, 553, 541, 540, 533, 532, 531, 530, 529, 466, 467, 171, 174, 175, 176, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 95, 94, 93	89, 91, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 183, 182, 181, 180, 399, 400, 401, 404, 403, 402, 422, 425, 421, 426, 437, 436, 427, 428/3, 43/5, 434, 432, 431, 556/1, 557, 558, 580/2, 581, 590/2, 601, 599/2, 600, 602, 450, 611, 610, 609, 603, 604, 605, 542, 543, 544, 547, 553, 541, 540, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 524, 449, 450, 453, 465, 466, 467, 171, 174, 175, 176, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 95, 94, 93

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Mandsaur	Mandsaur	Songari	3, 4, 22, 25, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 197, 198, 38, 37, 66, 65, 69, 68, 70, 71, 76, 73, 178, 176, 196, 195, 206, 305, 196, 200, 201, 202, 203, 243, 244, 245, 246, 248, 292, 293, 295, 296, 297, 301, 300, 298	3, 4, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 197, 198, 38, 37, 39, 40, 47, 48, 66, 65, 64, 63, 69, 68, 70, 76, 73, 75, 178, 177, 176, 195, 206, 305, 196, 201, 202, 203, 243, 245, 246, 248, 292, 291, 293, 294, 295, 296, 301, 300, 298
Mandsaur	Mandsaur	Nipaniya Meghraj	29, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 40, 32/1, 32/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90/3, 92, 33	29, 28, 30, 31, 33, 41, 40, 38, 32/1, 32/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90/3, 92, 33
Mandsaur	Mandsaur	Azizkhedi	9, 10, 11, 12, 16, 120, 152, 8, 118/4, 118/5, 7, 121, 13, 14, 109, 18, 156, 153, 15, 17, 188, 151, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 110, 112, 114, 108	9, 10, 11, 12, 16, 120, 152, 1, 8, 118/4, 7, 121, 13, 14, 109, 18, 156, 155, 153, 15, 17, 188, 151, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 92, 111, 110, 112, 114, 108
Mandsaur	Mandsaur	Gyaspura	54, 57, 58, 85, 75, 87, 91, 119, 115, 113, 112, 118, 161/1, 162, 76, 84, 117, 104, 116, 114, 108, 109	54, 56, 57, 59, 85, 75, 86, 87, 91, 90/2, 125/1, 119, 115, 113, 112, 118, 110, 161/1, 162, 76, 78, 84, 83, 92, 117, 104, 103, 116, 114, 108, 109
Mandsaur	Mandsaur	Khilchipura	469, 468, 465, 467, 466, 623, 624, 625, 627, 456, 626, 631, 633, 632, 634, 635, 645, 636, 628, 458, 459, 464, 463	469, 468, 465, 467, 466, 623, 619, 624, 625, 627, 456, 631, 633, 632, 634, 635, 645, 641, 640, 637, 636, 628, 458, 459, 464, 463
Mandsaur	Mandsaur	Nalchha	6/1, 6/2, 6/3, 5/1, 5/2, 5/3, 52/1, 52/2, 52/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 72/1, 72/2, 71/1, 71/2, 70, 69, 68/1, 68/2, 68/3, 67, 73, 57, 66/1, 66/2, 65/1, 65/3, 65/2, 64/1, 64/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 62/2, 62/1	6/1, 6/3, 5/1, 5/3, 52/1, 52/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 72/2, 71/2, 70, 69, 68/1, 68/3, 67, 73, 57, 66/1, 66/2, 65/1, 65/3, 64/2, 59/2, 60/1, 60/3, 61, 62/1
Mandsaur	Mandsaur	Beed naulakha	112/4, 112/3, 128, 121/2, 119/2, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 120, 123/1, 124/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4	112/4, 112/3, 128, 121/2, 119/2, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 120, 123/1, 124/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4
Mandsaur	Mandsaur	Nalchha	187, 188, 186, 196, 276, 275/1, 275/2, 275/3, 274/2, 274/1, 273/2, 273/1, 262, 261, 271/1, 272/2, 271/2, 271/3, 285, 286/1, 287/1, 287/2, 289	188, 186, 196, 171, 276, 275/3, 277, 278, 279, 274/2, 273/1, 262, 261, 260, 271/1, 272/2, 271/3, 285, 286/2, 284, 287/1, 288, 290, 289
Mandsaur	Mandsaur	Kasba Mandsaur	1, 40, 1887, 1892, 1895, 1897, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1904, 1912, 1913, 1914, 1919, 1915, 1917, 1980, 1981, 1986, 1987, 1985, 1984, 1983, 1990, 1991, 2000, 1999, 1996, 1998, 1997, 2003, 2015, 2021, 2020	1, 40, 1887, 1892, 1895, 1897, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1904, 1912, 1913, 1914, 1919, 1915, 1917, 1916, 1918, 1980, 1981, 1986, 1987, 1985, 1984, 1983, 1990, 1991, 2000, 1999, 1996, 1998, 1997, 2003, 2015, 2021, 2020
Mandsaur	Mandsaur	Haidarwas	99, 71, 63, 70, 29/264, 55, 66, 68, 73, 215, 214, 213/263, 211, 234, 236, 211/365, 235, 237, 238, 261, 240, 217, 239, 233, 231, 230, 47	99, 63, 70, 29/264, 55, 68, 73, 215, 214, 213/263, 211, 234, 236, 211/365, 235, 237, 238, 261, 240, 217, 239, 233, 231, 230, 47,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	2041, 2045, 2060, 2059, 2065, 2075, 2071, 2072, 2076, 2077, 2103, 2102, 2101, 2103/3427	2041, 2045, 2060, 2058, 2065, 2075, 2071, 2072, 2073, 2076, 2077, 2103, 2102, 2101, 2103/3427
Mandsaur	Mandsaur	Doulatpura	278, 279, 280, 273, 268, 256, 269, 302, 254, 253, 255, 252, 303, 249, 251, 250, 248, 241, 237, 216, 219, 220, 223, 224, 221, 222, 217,	278, 279, 280, 273, 268, 256, 269, 302, 254, 253, 255, 252, 303, 251, 250, 248, 241, 237, 216, 219, 220, 223, 224, 221, 222, 217
Mandsaur	Mandsaur	Multanpura	1201, 1202, 1203, 1265, 1216, 1211, 1209, 1210, 1173	1201, 1202, 1203, 1205, 1265, 1216, 1211, 1209, 1210, 1173
Mandsaur	Mandsaur	Bhuniyakhedi	54, 57, 59, 80, 81, 87, 88, 91, 93, 99, 100, 109, 183, 180, 182, 112, 115, 117, 119, 120, 116, 86, 85, 96	54, 57, 59, 80, 81, 87, 88, 91, 93, 95, 99, 100, 109, 183, 180, 182, 112, 115, 117, 119, 120, 116, 86, 85, 96
Mandsaur	Mandsaur	Guradiyadeda	1252, 1251, 1249, 1223, 1212, 1217, 1117, 1239, 1237, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1224, 1225, 1221, 1222, 1220, 1250, 604, 611, 605, 610, 607, 606, 617/2, 618, 619, 620, 623, 625, 626, 627, 651, 734, 653, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 731, 732, 1443, 1451, 1444, 1510, 1511, 1512, 1528, 1529, 1530, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1559, 1560, 1568, 1569, 1570, 1576, 1577, 1578, 1579, 1582, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1259, 1258, 1262, 1441, 1442, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1409, 735, 742/4, 742/3, 742/2, 742/1, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 587, 588, 580, 582, 589, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 612, 603	1252, 1251, 1249, 1223, 1212, 1217, 1117, 1239, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1225, 1226, 1221, 1222, 1220, 1250, 611, 610, 607, 606, 617/2, 618, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 627, 651, 653, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 731, 732, 1451, 1449, 1444, 1445, 1510, 1511, 1512, 1513, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1550, 1559, 1558, 1560, 1568, 1569, 1570, 1576, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1233, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1259, 1258, 1262, 1440/2, 1441, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1409, 735, 742/4, 742/3, 742/2, 742/1, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 760, 753, 754, 755, 756, 586, 587, 584, 585, 588, 583, 582, 581, 589, 593, 594, 596, 597
Mandsaur	Malhargarh	Botalganj	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 233, 229, 230, 236, 237, 238, 244, 243, 266, 267, 268, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 298, 299, 300, 305, 306, 316, 317, 328, 331, 330, 332, 333, 334/417, 341, 349, 352, 353, 354, 355, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 256	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 233, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 223, 224, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 244, 266, 268, 269/415, 275, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 298, 299, 300, 305, 306, 316, 317, 328, 331, 330, 334/417, 349, 350, 351, 353, 354, 358, 355, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 256
Mandsaur	Malhargarh	Thadhod	82, 79, 78, 77, 76, 427, 262, 414, 433, 452, 453, 495, 496, 497, 511, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 542, 550, 557, 555, 554, 675, 239, 187, 524, 676, 261, 259, 260, 256, 255, 254, 250, 252, 249, 248, 212, 213, 211, 209, 208, 161/2, 160, 156, 157, 158, 88, 89, 90, 84, 83, 153, 86, 87	81, 82, 79, 78, 77, 76, 427, 262, 414, 433, 449, 452, 453, 494, 495, 496, 497, 503, 504, 505, 511, 522, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 542, 544, 543, 548, 545, 550, 551, 552, 558, 557, 555, 554, 675, 239, 187, 164, 524, 676, 259, 260, 257, 256, 255, 254, 252, 253, 249, 248, 212, 213, 214, 211, 210, 209, 208, 261, 161/2, 162, 160, 155, 156, 157, 159, 88, 89, 90, 85, 84, 83, 153, 86, 87

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Mandsaur	Malhargarh	Bahi	1003, 1004, 863, 862, 861, 860, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1191, 1209, 1212, 1214, 1006, 1005, 1013, 1150, 1210, 1211, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1093, 1094, 1126, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142	1003, 1004, 863, 862, 861, 860, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1191, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1209, 1212, 1214, 1006, 1013, 1150, 1007, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1093, 1094, 1126, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141
Mandsaur	Malhargarh	Saukadhi	163, 165, 171, 176, 175, 114, 116/2, 117/1, 118, 170, 172, 173	163, 165, 171, 176, 174, 175, 114, 115, 116, 116/2, 118, 170, 172, 173
Mandsaur	Malhargarh	Pipliyapanth	14/1, 16/1, 15/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15/2, 15/3, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 32/1, 30, 31, 32/2/1/1, 32/2/1/2, 32/2/2, 36/2/1, 36/1/1, 36/2/2, 36/5, 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8, 35, 37, 38, 71, 99, 98, 100, 101, 102, 103, 117, 118, 119, 121, 123/1, 123/2, 123/3, 129, 128, 352/1, 352/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/3, 359/1, 350, 348, 346, 347, 345, 344/1, 344/2, 342/1, 328, 327, 325, 321, 319, 318, 315, 316, 314, 312, 253, 214, 215, 212, 213, 210, 211, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 132, 133, 131, 141, 142, 436, 351	14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 17, 19, 18, 30, 32/2/1/1, 32/2/1/2, 32/2/2, 36/2/1, 36/1/1, 34, 36/2/2, 36/5, 36/8, 38, 39, 70, 71, 99, 98, 105/1, 101, 103, 117, 118, 119, 121, 123/1, 123/2, 123/3, 129, 128, 352/1, 352/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/3, 359/1, 350, 348, 346, 345, 344/2, 343, 342/1, 329/1, 328, 327, 325, 321, 319, 318, 315, 316, 314, 312, 253, 214, 215, 211, 209/1, 209/2, 208/1, 208/2, 132, 133, 131, 141, 142, 436,
Mandsaur	Malhargarh	Khatyakhedi	230, 229, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 212, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 199, 198, 195, 196, 197, 193, 192, 191, 188, 185, 94, 90, 91, 92, 93, 273, 275, 252, 251, 249, 248, 245, 244, 243, 240, 239, 236, 235, 271, 262, 255, 259, 96/455, 233	230, 229, 235, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 211, 210, 212, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 168, 169, 199, 198, 195, 196, 197, 193, 192, 191, 188, 186, 187, 185, 95, 94, 96, 97, 98, 99, 871, 89, 93, 272, 273, 275, 252, 251, 249, 248, 250, 246, 245, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 271, 262, 255, 259, 96/455
Mandsaur	Malhargarh	Barkhedapanth	307, 169, 170, 172, 171, 176/1/3, 176/1/1, 176/1/2, 236/2, 237, 240, 241, 260, 261, 277, 279/2, 304, 303, 568, 567, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 305, 278, 569, 566, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 589, 706, 704, 703, 709, 711, 721, 722, 723, 725, 724, 1044, 1045, 1046, 1047, 1036, 1034, 1035, 310, 565, 590, 312, 313, 318, 319, 320, 325, 326, 327, 335, 339, 346, 347, 348, 352, 355, 355, 350, 359, 360, 361, 525, 526, 527, 528, 557/1, 557/2, 560, 559, 561, 1102, 1104, 710, 308, 309, 336, 337, 338, 349, 351, 357, 358, 558, 556, 1100, 1101, 1095, 1078, 1077, 1076, 1074/1, 1067, 1068, 1063, 1064, 1066, 1065, 1061, 1062, 1049, 1050, 1057, 1051, 1052,	307, 169, 170, 172, 173, 176/1/3, 176/1/1, 176/1/2, 236/1, 236/2, 237, 239, 240, 241, 260, 262, 276/2, 277, 271, 279/1, 279/2, 304, 303, 568, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 276/1, 569, 574, 579, 580, 593, 594, 595, 585, 589, 706, 704, 703, 708, 709, 712, 711, 721, 722, 723, 725, 1043, 1044, 1045, 1046, 1036, 1034, 310, 575, 586, 590, 312, 311, 313, 316, 318, 317, 319, 320, 325, 326, 327, 335, 339, 346, 347, 345, 348, 352, 353, 355, 354, 356, 359, 360, 361, 525, 526, 527, 531, 530, 528, 557/1, 557/2, 560, 561, 1104, 1105, 1106, 1103, 591, 592, 587, 588, 1030, 1028, 308, 337, 357, 358, 558, 1107, 1108, 1100, 1101, 1099, 1095, 1096, 1097, 1098, 1076, 1079, 1075, 1074/1, 1067, 1068, 1063, 1064, 1061, 1062, 1057, 1051, 1052

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Mandsaur	Malhargarh	Suthod	24, 27, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 34, 37, 72, 73, 74, 87, 85, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 139, 140, 157, 156, 158, 159, 160, 161, 197, 218, 203, 208, 478, 487, 488, 489, 625, 634, 335, 655, 653, 654, 675, 676, 677, 678, 680, 728, 679/2, 679/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99/829, 652, 631, 196	24, 26, 27, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 36, 35, 37, 72, 73, 74, 87, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 139, 140, 141, 157, 156, 158, 160, 161, 162, 197, 218, 203, 206, 207, 208, 217, 209, 210, 478, 479, 487, 488, 625, 626, 627, 633, 634, 335, 655, 653, 654, 675, 676, 677, 678, 680, 728, 679/2, 679/1, 731, 99/829 652, 631
Mandsaur	Malhargarh	Malharagarh	243/1, 244, 245, 256, 257, 258, 279, 280, 281, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 243/1506, 292, 293, 285, 304, 295, 224, 242, 294, 309, 310, 319, 320, 321, 322, 322/1509, 323, 351, 352, 343, 353, 354, 466, 467, 468, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 518, 519, 1284, 1285, 1288, 1286, 1287, 1293, 541, 1391, 1390, 1389, 1392, 1400, 1408, 1409, 1410, 1443, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1446, 1444, 1447, 1429, 1428, 1477, 747, 742, 741, 737, 736, 735, 727, 726, 770, 716, 668, 667, 651/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 666, 663, 664, 661, 653, 654, 545, 544, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 562, 563, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 576, 579, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1107, 1102, 1101, 1142, 1393, 1394, 1379/1, 1379/2, 1380, 1375, 1381, 1387, 1452, 1467, 1450, 1468, 1470, 1471/1505, 1474, 1476	243/1, 244, 245, 256, 255, 257, 258, 278, 279, 281, 277, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287, 289, 291, 292, 293, 290, 285, 296, 304, 295, 224, 242, 294, 309, 310, 318/2, 319, 321, 322, 327, 326, 323, 324, 351, 352, 357, 356, 353, 354, 355, 466, 467, 468, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 518, 520, 519, 1284, 1285, 1288, 1286, 1287, 1293, 541, 534, 1391, 1390, 1389, 1392, 1400, 1408, 1409, 1410, 1442, 1443, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1446, 1444, 1447, 1429, 1428, 1477, 747, 742, 741, 737, 738, 736, 735, 727, 726, 725, 724, 717, 718, 770, 716, 668, 667, 651/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 666, 661, 660, 655, 653, 654, 545, 544, 552, 549, 551, 555, 557, 556, 559, 560, 562, 561, 563, 565, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 576, 579, 1096, 1097, 1099, 1100, 1108, 1109, 1107, 1102, 1394, 1379/1, 1379/2, 1380, 1375, 1374, 1381, 1382, 1387, 1451, 1452, 1467, 1450, 1468, 1469, 1470, 1471/1505, 1471, 1473, 1474, 1475
Mandsaur	Malhargarh	Kherkheda (Molya khedi)	391, 393, 421, 422, 422/437, 423, 423/440, 433, 435, 436, 390, 168, 75, 92, 93, 94, 97, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 178, 3, 171, 74, 1, 2, 224, 242	391, 393, 421, 422, 423, 433, 434, 435, 436, 390, 168, 75, 92, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 166, 167, 169, 195, 170, 172, 173, 178, 3, 74, 224, 242
Mandsaur	Malhargarh	Mundli	1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 11/1, 11/2, 16, 12, 13, 15/3, 33, 34, 69, 77, 81, 82, 74, 76, 73, 51, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 14, 167, 159, 157, 153, 158, 152, 150, 151, 149, 108, 98, 95, 91, 92, 148, 128, 102, 100, 99, 94, 84, 171, 83	1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 11/1, 11/2, 16, 15/3, 33, 32, 34, 35, 36, 69, 77, 81, 82, 74, 75, 76, 73, 51, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 14, 31, 169, 167, 159, 157, 153, 152, 151, 149, 108, 98, 95, 91, 92, 148, 136, 128, 101, 102, 84, 171
Mandsaur	Malhargarh	Changeri	820, 819/1, 826, 818/1, 818/2, 854, 855, 859, 800, 801, 803, 816, 813, 812, 861, 861/1039, 861/1034, 862, 781/1033	820, 819/1, 818/1, 818/2, 854, 855, 859, 800, 801, 803, 816, 813, 812, 861, 861/1039, 861/1034, 862, 781/1033, 817, 860

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Neemuch	Jiran	Chaldu	806, 808, 804, 813, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 870, 871, 872, 873, 874, 805, 1674, 1812, 1823, 1819, 1821, 1797, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1790, 1786, 1779, 1764, 1765, 1759, 1760, 1758, 809, 803, 802, 791, 790, 778, 783, 1813, 1820, 1775, 904, 953, 954, 955, 956, 964, 965, 966, 980, 989, 981, 990, 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1593, 785, 786, 787, 781, 782, 752, 749, 659, 654, 653, 652, 639, 633, 634, 635, 636, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 391, 392, 390, 388, 385, 389, 384, 315, 1853, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1865, 1863, 1864, 1881, 1902, 1904, 1905, 1906, 1908, 1910, 689, 632, 526, 396, 395, 386, 1824, 1843, 1824, 1852, 1854, 1841, 637, 1822	806, 807, 808, 812, 813, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 857, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 876, 874, 875, 901, 902, 805, 861, 1674, 1812, 1823, 1818, 1819, 1821, 1797, 1791, 1794, 1795, 1796, 1790, 1786, 1780, 1779, 1777, 1764, 1765, 1759, 1760, 1761, 1758, 809, 803, 802, 798, 792, 791, 790, 788, 778, 783, 1813, 1820, 1782, 1775, 959, 903, 904, 953, 954, 956, 964, 997, 998, 999, 965, 966, 980, 979, 982, 989, 983, 981, 990, 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1593, 903, 961, 1000, 785, 786, 787, 781, 782, 780, 779, 752, 750, 749, 659, 658, 656, 661, 662, 653, 664, 649, 650, 638, 639, 640, 641, 642, 633, 635, 636, 651, 399, 400, 401, 402, 403, 391, 392, 390, 380, 388, 381, 385, 384, 315, 1853, 1857, 1858, 1859, 1865, 1863, 1881, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 689, 629, 632, 526, 408, 396, 386, 1824, 1826, 1824, 1852, 1854, 1841
Neemuch	Jiran	Barkheda Sondhiya	99, 104, 105, 107, 108, 100, 101, 102, 106, 103	98, 99, 104, 105, 107, 108, 100, 101, 102
Neemuch	Jiran	Bhanwrasa	633, 636, 634, 637, 635, 638, 639, 640, 642, 644, 648, 650, 651, 652, 582, 583, 595, 596, 632, 631, 654, 657, 661, 665, 666, 667, 668, 673	636, 634, 635, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 582, 583, 595, 596, 597, 613, 631, 630, 529, 654, 656, 657, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 673
Neemuch	Jiran	Khetakheda Doriya	65/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 79, 77, 78, 103, 106, 144, 146, 147, 148, 149/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76	65/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 81, 80, 79, 90, 91, 77, 78, 103, 106, 146, 145, 147, 148, 149/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75
Neemuch	Jiran	Kachauli	270, 273, 274, 275, 276, 347, 345, 382, 383, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 344, 277, 16, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 230, 234, 235, 236, 237, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 305, 325, 326, 332, 333, 336, 337, 338, 340, 341, 343	270, 273, 276, 347, 345, 382, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 15, 16, 17, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 256, 257, 258, 262, 264, 265, 266, 271, 106, 305, 325, 326, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Neemuch	Jiran	Bhatkheda	177, 171, 172, 158, 161, 160, 159, 154, 17, 91, 92, 89, 93, 103, 123, 124, 122, 127, 129, 130, 668, 669, 176, 174, 175, 155, 156, 157, 151, 152, 149, 170, 145, 140, 139, 133, 132, 360, 366, 367, 368, 382, 394, 393, 460, 461, 462, 465, 168, 387, 11, 82, 12, 13, 14, 15, 16, 94, 107, 108, 109, 110, 384, 111, 113, 112, 496, 495, 490, 514, 515, 639, 640, 641, 642, 654, 653, 667, 673, 674, 675, 685, 687, 688, 689, 178, 137, 383, 392, 394, 393, 417, 418, 460, 463, 464, 467, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 485, 486, 487, 488, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 690	177, 171, 172, 158, 161, 160, 159, 154, 845, 17, 91, 92, 89, 93, 103, 123, 122, 127, 128, 129, 130, 668, 669, 176, 174, 175, 155, 156, 157, 151, 152, 170, 150, 145, 140, 139, 133, 132, 360, 366, 367, 368, 382, 394, 393, 460, 461, 462, 465, 168, 162, 11, 22, 82, 94, 107, 108, 109, 110, 384, 113, 112, 126, 496, 495, 491, 490, 514, 515, 639, 640, 641, 642, 654, 655, 667, 673, 674, 675, 685, 687, 688, 689, 178, 179, 142, 141, 137, 361, 362, 363, 369, 383, 390, 391, 392, 395, 394, 417, 418, 459, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 482, 483, 484, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701
Neemuch	Neemuch	Semli Choudhri	167, 166, 165, 164, 160, 154, 155, 153, 151, 73, 61, 60, 62, 69, 48, 75, 47, 76, 77, 78, 79, 80, 44, 43, 152, 156, 171, 172, 173, 15	167, 166, 165, 164, 160, 154, 155, 153, 73, 61, 60, 62, 71, 69, 48, 75, 47, 76, 77, 78, 79, 80, 44, 43, 68, 70, 59, 81, 150, 141, 142, 156, 171, 172, 173, 163, 15
Neemuch	Neemuch	Barkheda Handa	314, 313, 312, 318, 342, 339, 340, 357, 358, 386, 385, 388, 390, 403, 206, 201, 199, 196, 197, 183, 186, 315, 316, 317, 341, 351, 356, 359, 379, 404, 387, 390/434, 200, 193, 185, 194, 184, 195	314, 313, 311, 312, 318, 320, 321, 342, 339, 338, 340, 336, 357, 358, 386, 385, 384, 388, 390, 403, 220, 219, 208, 207, 206, 201, 199, 196, 197, 182, 186, 315, 316, 317, 343, 341, 351, 355, 356, 359, 360, 379, 404, 387, 390/434, 391, 200, 193, 192, 191, 185
Neemuch	Neemuch	Chauthkheda	397, 398, 396, 424, 425, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 477, 480, 479, 537, 572, 571, 570, 568, 538, 576, 634, 633, 635, 631, 630, 625, 651, 653, 654, 518, 400, 399, 418, 441, 440, 436, 437, 438, 435, 471, 473, 474, 478, 636, 639, 640, 649, 650, 652, 403, 442, 419, 427	397, 398, 396, 424, 425, 445, 446, 447, 449, 450, 477, 480, 479, 537, 535, 572, 571, 570, 568, 538, 576, 634, 633, 635, 631, 630, 625, 624, 651, 653, 654, 518, 400, 399, 418, 417, 421, 441, 440, 436, 437, 438, 434, 435, 471, 473, 474, 478, 637, 636, 639, 640, 648, 649, 650, 652, 403, 442, 419, 427, 569, 567
Neemuch	Neemuch	Ravatkheda	221, 221/468, 224, 319, 323, 325, 327, 328, 341, 342, 343, 463, 455, 456, 458, 459, 324, 460, 462, 461	221, 224, 319, 323, 325, 327, 328, 341, 342, 343, 463, 455, 456, 458, 459, 324, 326, 460, 462, 461
Neemuch	Neemuch	Dulakheda	1, 2, 8, 7, 6, 15, 17, 19, 9, 11, 13, 14, 22, 18, 21, 39, 40, 44, 225/1, 225/2, 310	1, 2, 8, 7, 3, 6, 15, 16, 17, 19, 9, 10, 11, 13, 22, 21, 39, 40, 44, 89, 225/2, 310
Neemuch	Neemuch	Jaitpura	3, 6, 7, 8, 24, 19, 20, 18, 16, 17, 26, 41, 34, 33, 35, 46, 47, 48, 49, 51, 10, 5, 38, 38/55, 37, 45, 52, 53, 31	3, 6, 7, 8, 24, 20, 18, 16, 17, 26, 41, 33, 35, 46, 48, 49, 51, 10, 5, 23, 21, 25, 22, 38, 36, 32, 45, 30, 52, 53, 31
Neemuch	Neemuch	Malkheda	1043, 1042, 1041, 1051, 1050, 1057, 1078, 1077, 1076, 1082, 1083, 1084, 1031, 1126, 1119, 1120, 1121, 1114, 1115, 1109, 1108, 905, 990, 888, 887, 855, 853, 854, 842, 843, 851, 849, 848, 847, 1316, 1317, 1320, 1319, 1339, 1375, 1378, 1379, 1383, 1382, 1397, 1398, 1400, 1402, 96, 97, 1040, 1053, 1052, 1054, 1059, 1074, 1075, 1085, 1097, 1125, 1122, 1123, 1112, 1110, 1107, 908, 909, 841, 855, 844, 1318, 1362, 1373, 1374,	1043, 1042, 1041, 1051, 1050, 1057, 1078, 1080, 1076, 1082, 1083, 1084, 1031, 1126, 1119, 1120, 1118, 1121, 1114, 1117, 1115, 1109, 1108, 905, 990, 889, 888, 887, 855, 853, 854, 842, 843, 851, 849, 848, 847, 850, 1316, 1317, 1320, 1319, 1339, 1375, 1378, 1379, 1383, 1382, 1397, 1398, 1400, 1402, 96, 97, 98, 1038, 1039, 1040, 1053, 1052, 1054, 1056, 1059,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			1376, 1377, 1381, 1519, 1520, 1522, 1523, 1399, 1401, 1403, 1521, 1524, 1525	1074, 1075, 1085, 1097, 1125, 1122, 1123, 1113, 1112, 1110, 1111, 1107, 907, 908, 909, 841, 840, 855, 1359, 844, 846, 1318, 1362, 1373, 1374, 1376, 1377, 1381, 1519, 1520, 1522, 1523, 1401, 1403, 1521, 1524, 1525
Neemuch	Neemuch	Barukheda	265, 281, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 296, 314, 312, 313, 303, 311, 347, 350, 351, 352, 336, 356, 370, 371, 393, 408, 407, 403, 400, 398, 632, 284, 302, 309, 372, 637, 636, 634, 631, 640, 641, 642, 643, 644, 655, 1217, 1219, 1220, 1235, 1226, 266, 267, 279, 278, 277, 289, 295, 315, 645, 1237, 310, 307, 304, 308, 309, 345, 346, 353, 354, 355, 358, 366, 405, 406, 409, 404, 621, 624, 633, 635, 646, 626, 630, 629, 647, 654, 653, 575, 572, 1221, 1232, 1224, 1225	265, 281, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 297, 314, 312, 313, 303, 347, 350, 351, 352, 336, 356, 370, 371, 393, 408, 400, 399, 398, 632, 697, 284, 302, 299, 372, 637, 636, 634, 639, 631, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 655, 1217, 1218, 1219, 1220, 1235, 1226, 266, 267, 278, 277, 289, 290, 295, 315, 1237, 317, 318, 319, 310, 307, 306, 304, 308, 345, 346, 362, 353, 354, 355, 359, 358, 366, 405, 406, 409, 410, 411, 417, 404, 621, 620, 619, 624, 633, 635, 646, 626, 630, 629, 647, 654, 575, 572, 1221, 1232, 1224, 1225
Neemuch	Neemuch	Bharbhadiya	1983, 1984, 1985, 2302, 2303, 2304, 2297, 2295, 2292, 2716, 2717, 2718, 2733, 2731/2, 2860, 2859, 2858, 2857, 2862, 2878, 2879, 2880, 2846, 2882, 2300, 2299, 2298, 2284, 2294, 2293, 2285, 2286, 2290, 2288, 2287, 2719, 2720, 2732, 2731/1, 2729, 2728, 2727, 2726, 2861, 2873, 2876, 2877, 2909/1, 2434, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2428/4, 2881, 2886, 2887, 2451, 2452, 2453, 2440, 2441, 2439, 2435, 2430, 2426, 2425, 2423, 2421, 2417, 2416, 1092, 1093, 1094, 2883, 2447, 2878/1, 1095, 1098, 1099, 1104, 1112, 1113/1, 1113/2, 1116, 1118, 1139, 1160, 1159, 1158, 1170, 1171, 1172, 1174, 2316, 1976, 1119, 1120, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 1002/1, 1002/2, 2428, 1003, 1004/2, 1005, 1085, 1089, 1087, 1091, 1097, 1106, 1105, 1111, 1110, 1126, 1123, 1096, 1090, 1124, 1121, 1122, 1143, 1142, 1149, 1146, 1150, 1151, 1157, 1156, 1155, 1154, 1177, 1977, 1978, 1983, 1984, 2855, 2299, 1985, 1140, 1144, 1145	1983, 1984, 1985, 2303, 2305, 2297, 845, 2295, 2716, 2717, 2718, 2733, 2731/2, 2766, 2714, 2715, 2860, 2859, 2856, 2857, 2862, 2878, 2879, 2880, 2846, 2882, 2301, 2734, 2300, 2279, 2299, 2280, 2298, 2284, 2294, 2285, 2286, 2288, 2287, 2719, 2720, 2732, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2861, 2872, 2873, 2874, 2876, 2877, 2909/1, 2909/2, 2908/1, 2881, 2886, 2887, 2451, 2454, 2441, 2442, 2439, 2435, 2430, 2426, 2425, 2423, 2421, 2420, 2418, 2417, 2415, 2416, 1092, 2410, 2883, 2885, 2447, 2409, 2407, 2406, 1099, 1100, 1104, 1103, 1102, 1116, 1118, 1162, 1160, 1161, 1159, 1169, 1158, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 2316, 1976, 1979, 1022, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 1002/1, 1002/2, 1003, 1004/2, 1004/1, 1005, 1086, 1089, 1087, 1088, 1091, 1106, 1107, 1105, 1111, 1108, 1110, 1126, 1123, 2448, 2449, 2450, 1006, 1124, 1125, 1137, 1121, 1122, 1138, 1142, 1149, 1150, 1151, 1152, 1157, 1156, 1155, 1154, 1177, 1977
Neemuch	Neemuch	Dunglawada	7, 42, 43, 39, 126, 139, 133, 5, 11, 19, 17, 36, 41, 40, 143, 142, 15, 140, 132, 2, 15, 16, 37, 38, 141, 136	6, 7, 48, 42, 43, 39, 126, 139, 133, 11, 19, 17, 36, 41, 40, 143, 142, 15, 140, 132, 131, 13, 14, 49, 37, 38, 141, 136
Neemuch	Neemuch	Changera	111, 110, 109, 151, 150, 149, 148, 159, 147, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 142, 116/1, 143, 144, 145, 140, 160, 163, 146, 135, 120,	111, 110, 109, 151, 150, 149, 148, 159, 142, 116/1, 116/2, 143, 144, 145, 140, 139, 160, 163, 117, 135, 120

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Neemuch	Neemuch	Sagrana	651, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 736, 737, 738, 762, 763, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 674/1093, 764, 79, 80, 81, 92, 91, 90, 82, 102, 103, 335, 771, 770, 768, 816, 817, 818, 833, 832, 834, 835, 836, 837, 97, 98, 778, 767, 765, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1036, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1050, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1082, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089, 1090, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 77, 355, 358, 359, 360, 377, 380, 381, 382, 384, 642, 643, 647, 648, 649, 650, 11, 76, 382, 354	651, 652, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 845, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 735, 736, 737, 738, 762, 763, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 657, 79, 80, 81, 92, 86, 91, 89, 90, 82, 96, 102, 101, 103, 335, 771, 772, 774, 770, 768, 816, 817, 818, 833, 832, 831, 834, 835, 836, 837, 97, 98, 778, 767, 765, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1050, 1055, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1082, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089, 1090, 849, 1040, 1085, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 77, 355, 357, 356, 358, 359, 360, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 641, 642, 643, 647, 650, 11, 76, 382, 354,
Neemuch	Neemuch	Dhasundi	633, 635, 634, 645, 639, 641, 644, 646, 636, 637, 653, 638	633, 635, 634, 645, 640, 639, 641, 644, 636, 637, 653, 627
Neemuch	Jawad	Kanka	302, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 268, 270, 272, 300, 273, 341, 340, 321, 320, 319, 364, 303, 309, 269, 342, 301, 318	302, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 267, 268, 270, 271, 272, 300, 273, 338, 340, 339, 321, 322, 320, 319, 364, 303, 309, 299, 342, 333, 331, 330, 327, 301, 318, 337
Neemuch	Jawad	Kesharpura	1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1151, 1152, 1153, 1154, 1255, 1155, 1251, 1254, 1148, 1149, 1145, 1142, 1139, 1138, 1137, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1076/2, 1256, 1140, 1090, 1094, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 876, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 940, 941, 942, 943, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 967, 968, 969, 970, 976, 939, 977/1, 977/2, 977/3, 977/4, 1064, 1065, 1067, 1066	1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1151, 1152, 1154, 1255, 1155, 1251, 1252, 1253, 1254, 1148, 1149, 1145, 1141, 1142, 1139, 1136, 1138, 1137, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1256, 1140, 1090, 1094, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 876, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 940, 941, 942, 943, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 976, 939, 977/1, 977/2, 977/3, 1064, 1062, 1060, 1059, 1065, 1067, 978, 1066
Neemuch	Jawad	Nayagaon	1669, 1670, 1674, 1668, 1673, 1675, 1676, 1687, 1686, 1694, 1692, 1689, 1688, 1690, 1691, 1699, 1701, 1704, 1702, 1708, 1707, 1705, 1703, 1750, 1749, 1748, 1756, 1742, 1860, 1866, 1870, 1871, 1872, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1655, 1665, 1666, 1667, 1664, 1663, 1661, 1662, 1642, 1640, 1637, 1696, 1604, 1601, 1602, 1603, 1600, 1593, 1592, 1566, 1565, 1547, 1546, 1545, 1541, 1539, 1540, 1538, 1537, 1512, 1510, 1509, 1508, 70, 71, 72, 63, 64, 62, 56, 276, 277, 252, 265, 274, 275, 273, 272, 271, 262, 260, 261, 259, 258, 1890, 1887, 1864, 1506, 1507, 292, 291, 289, 286, 285, 283, 284,	1669, 1670, 1674, 1668, 1673, 1675, 1676, 1687, 1686, 1694, 1692, 1689, 1688, 1690, 1691, 1699, 1701, 1704, 1702, 1708, 1707, 1705, 1750, 1749, 1748, 1756, 1754, 1753, 1742, 1860, 1866, 1870, 1871, 1872, 1883, 1885, 1884, 1886, 1887, 1889, 1655, 1665, 1667, 1664, 1663, 1661, 1662, 1643, 1644, 1642, 1640, 1636, 1637, 1635, 1696, 1604, 1602, 1603, 1600, 1593, 1592, 1566, 1564, 1565, 1547, 1546, 1545, 1541, 1542, 1539, 1538, 1537, 1512, 1513, 1510, 1509, 1508, 70, 71, 72, 63, 64, 62, 56, 276, 277, 252, 265,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			279, 281, 280, 46, 47, 48, 58, 50, 73, 76, 79, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	273, 272, 271, 269, 262, 260, 261, 259, 257, 258, 1890, 1887, 1864, 1506, 1507, 292, 291, 289, 288, 286, 285, 284, 279, 282, 281, 46, 45, 47, 48, 58, 50, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

II)

Part-“A”

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Indore-Ujjain Four lane (SH-27)	48.90	Indore, Ujjain

Part-“B”

Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40 m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Indore	Sanwer	Bhanwrasala	1/1 ख, 12/2, 13, 14/1/1, 14/2, 15/2, 15/1/2, 15/1/3, 16, 17, 21, 148, 147, 141, 140, 135, 125/1/1, 124, 149, 150/2, 181/1/1 ग, 181/1/1 ख, 181/1/1 क, 180/1/1 , 150/3, 150/1 क, 150/1 ख, 179, 177/1, 154/1, 151, 156, 125/1/2, 159/2/1, 159/1/2, 159/1/2/3, 159/1, 191, 213/1, 157/1, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 1/1, 1/2/3, 1/2/2, 1/2/1, 170, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 112/1/2/1, 112/1/2/2, 104, 201/2, 201/2/1, 201/3, 149, 200/1/2/4, 196/2, 196/3/2 क, 196/1/3, 196/1/1, 196/1/2, 196/3/1 ख, 195, 201/1, 202/2 क, 200/4, 200/2 ख, 200/1/2/5, 200/1/2/3, 200/1/2/4, 196/3/1 क, 196/3/1 ख, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 112/1/1, 112/1/2, 112/1/3, 112/2, 110, 110/2 ख	1/1 ख, 12/2, 13, 14/1/1, 14/2, 15/2, 15/1/2, 15/1/3, 16, 17, 19, 20, 21, 148, 147, 141, 140, 136/1, 135, 134, 125/1/1, 124, 149, 150/2, 181/1/1 ग, 181/1/1 ख, 181/1/1 क, 180/1/1 , 179, 177/1, 154/1, 151, 156, 125/1/2, 159/2/1, 159/1/2, 159/1/2/3, 159/1, 157/2, 191, 213/1, 157/1, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 1/1, 1/2/3, 1/2/2, 1/2/1, 170, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 112/1/2/1, 112/1/2/2, 104, 201/2, 201/2/1, 201/3, 200/1/2/4, 196/2, 196/3/2 क, 196/1/3, 196/1/1, 196/1/2, 196/3/1 ख, 195, 201/1, 202/2 क, 200/4, 200/2 ख, 200/1/2/5, 200/1/2/3, 200/1/2/4, 196/3/1 क, 196/3/1 ख, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 112/1/1, 112/1/2, 112/1/3, 112/2, 110, 110/2 ख
Indore	Sanwer	Jakhya	4/1/1, 4/2/1, 4/1/2, 5/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3, 6/2/1 ख, 6/1/1 क/1/1, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/1 ग, 6/1/1 ख, 28/2/1, 28/2/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1/1, 38/1/2, 42/1, 43/1/1, 44/1/1, 44/1/3, 44/2, 45/1/1, 45/2/1, 45/1/2, 46, 4/1/3, 4/1/4, 6/1/1 क, 42/2, 43/1/2, 42/3, 43/1/3, 44/3, 24, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/5 मि-1, 2/2/1, 2/2 मि-1 , 2/2 मि-2, 2/2 मि-3, 2/2 मि-4, 2/2 मि-5, 2/2 मि-6, 2/2 मि-7, 2/2 मि-8, 2/2 मि-9, 2/2 मि-10, 2/2 मि-11	4/1/1, 4/2/1, 4/1/2, 5/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 6/2/1 ख, 6/1/1 क/1/1, 6/1/2, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/1 ग, 6/1/1 ख, 28/2/1, 28/2/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1/1, 38/1/2, 42/1, 43/1/1, 44/1/1, 44/1/3, 44/2, 45/1/1, 45/2/1, 45/1/2, 46, 4/1/3, 4/1/4, 6/1/1 क, 42/2, 43/1/2, 42/3, 43/1/3, 44/3, 24, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/5 मि-1, 2/2/1, 2/2 मि-1 , 2/2 मि-2, 2/2 मि-3, 2/2 मि-4, 2/2 मि-5, 2/2 मि-6, 2/2 मि-7, 2/2 मि-8, 2/2 मि-9, 2/2 मि-10, 2/2 मि-11

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Indore	Sanwer	Baroli	23/1, 23/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 13, 17/2, 14/1, 14/2, 80/2, 79, 155, 130/3/1, 129, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 176/1/1 क, 176/1/1 ख, 174, 175/1, 173, 172/1/1, 172/1/2, 172/1/3, 172/2/1/1, 172/2/1/2/1, 172/2/1/2/2, 172/2/1/3, 172/2/1/4, 172/2 नि-1, 169, 168, 167, 165, 130/3/2, 130/4/1, 130/4/2/1, 130/4/2/2, 130/5/1, 130/5/2, 164, 163, 160/1/1, 160/1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 160/1/1, 76, 25/5/2, 25/5/1, 25/2/2, 25/2/1, 25/1/1, 25/1/2, 24/1, 24/2, 176/1/2, 25/2, 25/3, 25/5, 25/6/1, 77, 18/1, 18/2, 18/3, 10/1/1, 10/1/2, 10/2/1क, 10/2/2, 10/2/2 ख, 10/2/3, 75/1/1, 75/1/2, 75/2, 155	23/1, 23/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 13, 17/2, 16, 15/1, 15/2/1, 15/2/2/2, 14/1, 14/2, 11/1, 80/1, 82, 146/1, 130/3/1, 129, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 176/1/1 क, 176/1/1 ख, 174, 175/1, 173, 172/1/1, 172/1/2, 172/1/3, 172/2/1/1, 172/2/1/2/1, 172/2/1/2/2, 172/2/1/3, 172/2/1/4, 172/2 नि-1, 171, 169, 166, 167, 165, 130/3/2, 130/4/1, 130/4/2/1, 130/4/2/2, 130/5/1, 130/5/2, 164, 163, 160/1/1, 160/1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 160/1/1, 76, 25/5/2, 25/5/1, 25/2/2, 25/2/1, 25/1/1, 25/1/2, 24/1, 24/2, 176/1/2, 25/2, 25/3, 25/5, 25/6/1, 77, 18/1, 18/2, 18/3, 10/1/1, 10/1/2, 10/2/1 क, 10/2/2, 10/2/2 ख, 10/2/3
Indore	Sanwer	Panchderiya	5/287, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/5/1, 5/5/2, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 7/2, 7/6, 46/1/1/2ख, 46/1/5, 46/1/2/1 क, 46/1/1 ख, 46/2/1/2/1 ख, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/4, 53/5, 57, 52/1, 52/2, 51/2, 51/1, 51/3, 51/275/1, 50/1/3/1, 50/1/3/4, 50/1/3/3, 50/1/3/2, 50/1/2, 46/1/2/3 क, 46/1/2/3 ख, 46/1/3/2, 5/6/6	5/287, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/5/1, 5/5/2, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 7/2, 7/5, 7/4, 7/6, 46/1/1/2ख, 46/1/5, 46/1/2/1 क, 46/1/1 ख, 46/2/1/2/1 ख, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/4, 53/5, 57, 51/2, 51/1, 51/3, 51/275/1, 50/1/3/1, 50/1/3/4, 50/1/3/3, 50/1/3/2, 50/1/2, 46/1/2/3 क, 46/1/2/3 ख, 46/1/3/2, 5/6/6
Indore	Sanwer	Ringnodiya	181, 182/1, 182/2, 182/2/1, 182/2/2, 182/3, 185/1, 185/2/1, 185/2/2, 185/3, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189/1, 169/1, 169/2/1, 169/2/2, 170/1/1, 170/1/2, 173, 171/1, 171/2/1, 171/2/2, 172/3, 172/3 नि-1, 172/3 नि-2, 179, 181, 190, 189, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2	181, 182/1, 182/2, 182/2/1, 182/2/2, 182/3, 185/1, 185/2/1, 185/2/2, 185/3, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189/1, 169/1, 169/2/1, 169/2/2, 170/1/1, 170/1/2, 173, 171/1, 171/2/1, 171/2/2, 172/3, 172/3 नि-1, 172/3 नि-2, 179, 190, 189, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2
Indore	Indore	Badodiya Aima	98, 104/2, 104/1, 104/3, 104/1/2, 105/3, 105/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/3/1, 112/4, 112/5, 112/7, 113, 117/3, 117/4, 117/2, 117/6, 117/5, 117/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 114/1/15, 114/1/14, 114/1/13, 114/1/12, 114/1/1, 114/1/10, 114/1, 114/1/9, 114/1/8, 114/1/7, 114/1/6, 114/1/5, 114/3/10, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15, 116/1	98, 104/2, 104/1, 104/3, 104/1/2, 105/3, 105/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/3/1, 112/4, 112/5, 112/7, 117/3, 117/4, 117/2, 117/6, 117/5, 117/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 114/1/15, 114/1/14, 114/1/13, 114/1/12, 114/1/1, 114/1/10, 114/1, 114/1/9, 114/1/8, 114/1/7, 114/1/6, 114/1/5, 114/3/10, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15, 114/3/11, 114/3/12, 114/3/13, 114/3/14, 114/3/15
Indore	Sanwer	Jaitpura Solsinda	347/1, 347/2, 323/1, 323/9, 323/5, 323/3, 323/4, 322/2, 322/1, 321, 320, 319, 318, 318/439/1, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1, 318, 439/2, 429/2/2, 429/2/1, 429/2/3, 429/1, 84/2, 84/4, 84/5, 107/198/2/2, 109/5/1/1, 109/198/2/1, 111/6, 7, 8, 32/1, 10/1, 83, 84/1, 84/3, 107/198/1, 424, 425, 426, 427, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4,	347/1, 347/2, 323/1, 323/9, 323/5, 323/3, 323/4, 322/2, 322/1, 321, 320, 319, 318, 318/439/1, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1, 318, 439/2, 429/2/2, 429/2/1, 429/2/3, 429/1, 84/2, 84/4, 84/5, 107/198/2/2, 109/5/1/1, 109/198/2/1, 111/6, 7, 8, 32/1, 10/1, 83, 84/1, 84/3, 107/198/1, 424, 425,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			82/5, 109/1, 109/2, 107/1/2, 107/2, 109/4, 109/7, 107/197/1, 109/5/2, 5/1/2, 81/1, 81/2, 89/6, 87, 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 89/2/1, 89/2/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 104/1, 104/2, 108, 109/5/1, 323, 324, 325, 326, 88, 90/1, 90/2, 92/1/1, 92/1/2, 92/1/3, 92/2, 111/12, 111/8, 423/1, 424/1, 425/1, 423/2, 423/3, 423/4, 106, 105/1, 105/2	109/1, 109/2, 107/1/2, 107/2, 109/4, 109/7, 107/197/1, 109/5/2, 5/1/2, 81/1, 81/2, 87, 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 89/2/1, 89/2/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90, 104/1, 104/2, 108, 109/5/1, 91, 323, 324, 325, 326, 88, 90/1, 90/2, 92/1/1, 92/1/2, 92/1/3, 92/2, 103, 111/12, 111/8, 423/1, 424/1, 425/1, 423/2, 423/3, 423/4, 106, 105/1, 105/2
Indore	Sanwer	Rajoda	---	282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 286/1, 285, 284, 353, 352, 354, 355, 356/1, 356/2, 356/3, 356/6, 373/394, 370, 372/1, 368, 358/1, 358/2, 360/2, 362/1, 356/365, 325, 323, 324, 322, 311/5, 311/4, 311/3, 311/2, 311/1, 310, 309/1, 309/2, 379/3, 361, 367, 371/1, 371/2, 373/394/1, 373/394/2, 379/1, 377/1, 377/2, 374, 373/2/3, 373/3, 373/4, 373/394/3, 376, 375,
Indore	Sanwer	Siloda	133/1/2, 129, 127/2, 127/1, 126, 119, 120, 107, 106, 108, 109, 105/1, 105/2, 104, 111, 103/1, 103/2, 103/3, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1	133/1/2, 127/2, 127/1, 126, 120, 107, 106, 105/1, 105/2, 104, 103/1, 103/2, 103/3, 101/1/1/1, 101/1/1/2, 101/2, 158/4, 158/8, 112/1, 112/2, 147, 122, 133/1/2, 133/1/1, 133/1/4, 133/1/5, 112/1/1, 112/1/2, 130/2, 130/1, 130/159, 110, 113/1, 112/2, 113/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 133/2, 132/1/2, 132/1/1
Indore	Sanwer	Tarana	115/1, 115/2, 116/4, 116/1/1, 116/1/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 123/3, 123/4, 123/4/2, 123/5/1, 123/5/2, 123/6/1, 123/6/2, 122, 125/6, 125/9, 125/10/1, 125/10/2, 125/11/1, 125/11/2, 125/7/1, 125/7/2, 125/2/1, 125/2/2, 125/1, 126/1, 126/2/1, 126/2/2, 130, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 185/1, 185/2, 1/1/1, 1/1/2, 1/2/1, 1/2/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 124, 180/1/1, 180/1/2/1, 180/1/2/2, 180/1/3, 180/1/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 179/1, 179/2, 178, 176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/3, 174/1, 174/1/1, 174/1/2, 174/2, 174/3/1, 174/3/2, 174/4, 174/5/1, 174/5/2, 172, 173, 257/1/1/1, 256/1/2/1, 257/1/1/2, 256/1/2/2, 257/1/2, 257/2/1, 257/2/2, 257/2/3, 257/3/1, 257/3/2, 257/4/1, 257/4/2, 257/5/2, 257/6/1, 257/6/2, 257/6/3, 257/5/1, 256/1/1, 256/1/2, 256/2/1, 256/2/2/1, 256/2/2/2, 256/2/2/3, 256/3/1, 256/3/2/1, 256/3/2/2, 255/1/1, 255/1/2, 255/2/1, 255/2/2, 255/3/1, 255/3/2, 255/4/1, 255/4/2, 255/5/1, 255/5/3, 255/5/4, 255/5/5/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 252/1/1, 252/1/2, 252/2/1/1, 252/2/1/2, 252/2/2, 252/3/1, 252/3/2, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 226, 227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3,	115/1, 115/2, 116/4, 116/1/1, 116/1/2, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2, 123/3, 123/4, 123/4/2, 123/5/1, 123/5/2, 123/6/1, 123/6/2, 122, 125/6, 125/9, 125/10/1, 125/10/2, 125/11/1, 125/11/2, 125/7/1, 125/7/2, 125/2/1, 125/2/2, 125/1, 126/1, 126/2/1, 126/2/2, 130, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 185/1, 185/2, 1/1/1, 1/1/2, 1/2/1, 1/2/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 181, 180/1/1, 180/1/2/1, 180/1/2/2, 180/1/3, 180/1/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 178, 176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/3, 174/1, 174/1/1, 174/1/2, 174/2, 174/3/1, 174/3/2, 174/4, 174/5/1, 174/5/2, 172, -, 257/1/1/1, 256/1/2/1, 257/1/1/2, 256/1/2/2, 257/1/2, 257/2/1, 257/2/2, 257/2/3, 257/3/1, 257/3/2, 257/4/1, 257/4/2, 257/5/2, 257/6/1, 257/6/2, 257/6/3, 257/5/1, 256/1/1, 256/1/2, 256/2/1, 256/2/2, 256/3/1, 256/3/2, 255/1/1, 255/1/2, 255/2/1, 255/2/2, 255/3/1, 255/3/2, 255/4/1, 255/4/2, 255/5/1, 255/5/3, 255/5/4, 255/5/5/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 252/1/1, 252/1/2, 252/2/1/1, 252/2/1/2, 252/2/2, 252/3/1, 252/3/2, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 226, 227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			204/2/1, 204/2/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/3/1, 206/3/2, 206/3/3, 207, 253	227/1, 227/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 188, 190/1, 189/1, 202/1/1, 202/1/2, 204/1/1, 204/1/2, 204/1/3, 204/2/1, 204/2/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/3/1, 206/3/2, 206/3/3, 207, 253
Indore	Sanwer	Kajlana	1, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3/2, 121/3/1, 121/4, 121/5, 121/6, 122, 120, 121/7, 121/8, 152, 142, 126, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 151, 152/1, 152/2, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 174, 175	1, 2, 3/1, 3/1/1, 4/1/1, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 121/1, 121/2, 121/3/2, 121/3/1, 121/4, 121/5, 120, 121/7, 121/8, 152, 208/6, 142, 141, 126, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 156, 159, 160, 164, 161, 162, 163, 172, 174, 175
Indore	Sanwer	Lakhmankhedi	172, 177, 176/1, 184, 173/220, 175, 173, 174, 173/2/9, 176/2	172, 177, 176/1, 184, 173/220, 174, 173/2/9, 176/2
Indore	Sanwer	Kasba Sanwer	806, 807, 805/1, 799/2, 800/2, 875, 801, 803, 801/1, 80/2, 811, 816/1, 816/2, 817, 818/1, 818/2, 828/2/1, 828/1/2/2, 828/2, 828/3, 833/1, 833/2, 833/3, 852/2, 891, 891/6, 718/6/2, 717, 714/1, 715/1, 715/2, 716/1, 714/1, 715/2, 716/2, 715/1, 714/1/1, 714/2/1, 695/1, 695/3, 696/2, 696/3, 694/2, 872, 873, 874/1, 695/2, 874/2, 876/1, 873, 876 पै-कि, 876/1 पै-कि, 876/1 पै-कि, 696/1/2, 876/1/3, 876/2, 876/4, 876/5, 876/6, 876/7, 876/8, 876/9, 876/10, 877, 812, 797/1/2, 797/2/1, 797/2/2/1, 797/2/2/2, 797/2/3/1, 797/2/3/2, 837/1/1, 837/1/2, 837/3/1, 834/1/1, 834/1/2, 834/2, 834/890, 834/890/1, 869/1/1, 869/1/2, 869/2/1, 869/2/2, 870/1, 870/2/1, 870/2/2, 868/1, 713/1, 713/2, 852/1/1, 852/1/2, 851/891/2/1, 851/891/2/2, 851/891/4, 851/891/5, 851/891/6, 819	806, 807, 805/1, 799/2, 800/2, 875, 801, 803, 801/1, 80/2, 811, 816/1, 816/2, 817, 818/1, 818/2, 828/2, 828/2/1, 828/1/2/2, 828/2, 833/1, 833/2, 833/3, 852/2, 891, 891/6, 718/6/2, 717, 714/1, 715/1, 715/2, 716/1, 714/1, 715/2, 716/2, 715/1, 714/1/1, 714/2/1, 695/1, 695/3, 696/2, 696/3, 694/2, 872, 873, 695/2, 812, 804/1, 804/2, 798, 786, 794, 795, 797/1/2, 797/2/1, 797/2/2/1, 797/2/2/2, 797/2/3/1, 797/2/3/2, 855, 856, 837/1/1, 837/1/2, 837/3/1, 834/1/1, 834/1/2, 834/2, 834/890, 834/890/1, 697, 869/1/1, 869/1/2, 869/2/1, 869/2/2, 870/1, 870/2/1, 870/2/2, 868/1, 713/1, 713/2, 852/1/1, 852/1/2, 851/891/2/1, 851/891/2/2, 851/891/4, 851/891/5, 851/891/6, 819
Indore	Sanwer	Ranwer	70/2, 82, 83/1, 84/2, 81/1, 81/2, 81/2/2, 84/1/1/1, 84/1/1/2, 84/1/3/1, 84/1/3/2, 86/1, 90/1, 90/2, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 95/1/1, 95/1/3, 95/1/1/1, 95/1/1 मि-1, 95/1/1 मि-2, 95/1/2, 95/1/4, 95/2/1, 95/2/2, 93/1, 84/1, 93/2, 94/2, 93/3, 94/3, 93/4, 94/4, 93/5, 94/5, 93/6, 94/6, 94/4 मि-1, 94/5 मि-2, 110/1/1/1, 110/1/1/2, 110/1/2/1, 110/1/2/2, 109/2/3/1, 109/2/3/2, 109/2/4/1, 109/2/4/2, 127, 240, 206/1, 206/2, 205/1, 207/1, 208/1, 205/2, 207/2, 208/2, 209/1/2/1, 209/1/2/2, 225, 224/1, 224/2, 222/1, 222/2, 220/1/1, 220/1/2, 219/1, 228, 215/1, 215/2, 216/3/1, 216/3/2, 216/3 मि-1, 216/3 मि-2, 216/3 मि-3, 216/3 मि-4, 216/3 मि-5, 217/1, 218, 217/2, 374, 358/1/2, 373/1, 373/2,	70/2, 82, 83/1, 84/2, 84/1/1/1, 84/1/1/2, 84/1/3/1, 84/1/3/2, 86/1, 91/3/1, 91/3/2, 91/3 मि-1, 91/3 मि-2, 91/3 मि-3, 85/1/1/1, 85/1/1/2, 85/1/2, 85/2, 85/3, 85/4, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 95/1/1, 95/1/3, 95/1/1/1, 95/1/1 मि-1, 95/1/1 मि-2, 95/1/2, 95/1/4, 95/2/1, 95/2/2, 93/1, 84/1, 93/2, 94/2, 93/3, 94/3, 93/4, 94/4, 93/5, 94/5, 93/6, 94/6, 94/4 मि-1, 94/5 मि-2, 107, 110/1/1/1, 110/1/1/2, 110/1/2/1, 110/1/2/2, 109/2/3/1, 109/2/3/2, 109/2/4/1, 109/2/4/2, 127, 240, 206/1, 206/2, 204, 205/1, 207/1, 208/1, 205/2, 207/2, 208/2, 209/1/2/1, 209/1/2/2, 225, 224/1, 224/2, 223, 221/2, 222/1, 222/2, 220/1/1, 220/1/2, 219/1, 228, 215/1, 215/2, 216/3/1,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Indore	Sanwer	Ranwer	359/2/4, 359/3/1, 359/3/2, 357/1, 357/2, 360/1/1, 360/1/2, 360/2/1/1, 360/2/1/2, 360/2/1/3, 360/2/1/4, 360/2/2, 360/2/3, 360/3/1, 360/3/2, 363/1, 363/2, 343/1, 343/3/1, 343/3/2, 343/3/3, 364/1/1, 364/1/2/1, 364/4/2/1, 364/1/2/2, 364/4/2/2, 364/1/2/2 मि-1, 364/1/2/2 मि-2, 364/1/2/2 मि-3, 364/4/2/2/9903, 364/1/2/3, 364/1/3, 364/1/4, 364/4/1, 364/1/5, 364/4/5, 340/3/1, 340/3/2, 342/1, 342/2/1, 342/2/2, 342/3, 341/1/1, 341/1/2, 341/1/3, 341/2, 340/426, 70/2	216/3/2, 216/3 मि-1, 216/3 मि-2, 216/3 मि-3, 216/3 मि-4, 216/3 मि-5, 217/1, 218, 217/2, 216/2, 374, 358/1/2, 358/2, 373/1, 373/2, 359/1/1, 359/1/2, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3, 359/2/4, 359/3/1, 359/3/2, 357/1, 356/3/3, 360/1/1, 360/1/2, 360/2/1/1, 360/2/1/2, 360/2/1/3, 360/2/1/4, 360/2/2, 360/2/3, 360/3/1, 360/3/2, 361/1, 361/2, 356/3/3, 362, 363/1, 363/2, 343/1, 343/2, 343/2/2, 343/3/1, 343/3/2, 343/3/3, 364/1/1, 364/1/2/1, 364/4/2/1, 364/1/2/2, 364/4/2/2, 364/1/2/2 मि-1, 364/1/2/2 मि-2, 364/1/2/2 मि-3, 364/4/2/2/9903, 364/1/2/3, 364/1/3, 364/1/4, 364/4/1, 364/1/5, 364/4/5, 340/3/1, 340/3/2, 342/1, 342/2/1, 342/2/2, 342/3, 341/1/1, 341/1/2, 341/1/3, 341/2, 340/426, 70/2, 349/1/1, 349/1/2, 349/1/3, 349/2
Indore	Sanwer	Kayasth Khedi	110/6, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 131/1, 131/3, 131/2, 133/1, 133/2, 142/1, 142/2, 142/3, 146/2, 146/1, 146/3/1, 146/3/2, 146/5, 179/8, 155, 157/3/1/1, 157/3/1/2, 157/2/4, 157/2/3, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/2/3, 165/1, 165/2, 154, 166, 167, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 168/3, 168/3, 132, 141, 135, 146/4, 152, 173/1/1, 173/1/2, 172/1	110/6, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 131/1, 131/3, 131/2, 133/1, 133/2, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 144, 146/2, 146/1, 146/3/1, 146/3/2, 146/5, 179/8, 157/3/1/1, 157/3/1/2, 157/2/4, 157/2/3, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/2/3, 165/1, 165/2, 154, 166, 167, 168/1/1, 168/1/2, 168/3, 168/3, 132, 141, 135, 146/4, 152, 173/1/1, 173/1/2, 172/1
Indore	Sanwer	Badodiya Khan	1/1, 329/3, 329/2/2, 329/2/1, 329/1, 332/2, 330, 343, 344/1/1, 344/1/2, 344/3/1, 344/3/2, 346, 366/1, 367/2, 367/3, 370, 371/3, 413/1, 413/2, 413/8, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 421/1, 420/2, 424/2, 425/1/1, 425/1/2, 444/1/1/1 क, 444/1/1/1 ख, 444/1/1/1 ग, 444/1/1/2, 444/1/2, 444/2, 465/1/1, 465/1/2, 465/2, 465/4, 466/1/1, 466/1/2, 466/2, 470/1, 480, 483/1, 483/2, 502, 501, 524/1/1, 524/1/2, 524/2/1, 524/2/2, 524/2/3, 524/3, 504/1, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 506/2, 506/1, 507/1/1, 507/1/2, 507/1/3, 507/2, 520/2, 520/1, 522/3, 522/2, 522/1 392/1/9, 394	1/1, 329/3, 329/2/2, 329/2/1, 329/1, 332/2, 330, 343, 344/1/1, 344/1/2, 344/3/1, 344/3/2, 346, 366/1, 367/2, 367/3, 370, 371/3, 413/1, 413/2, 413/8, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 421/1, -, 424/2, 425/1/1, 425/1/2, 444/1/1/1 क, 444/1/1/1 ख, 444/1/1/1 ग, 444/1/1/2, 444/1/2, 444/2, 465/1/1, 465/1/2, 465/2, 465/4, 466/1/1, 466/1/2, 466/2, 470/1, 480, 483/1, 483/2, 502, 501, 504/1, 506/2, 520/2, 520/1, 523, 522/3, 522/2, 522/1 392/1/9, 393, 394
Indore	Sanwer	Kithoda	167, 179, 168/1, 168/2, 168/3, 187, 188, 166/1, 165/1, 165/2, 165/3, 164, 126/1, 126/2, 125/1/2, 123/1, 123/2, 122, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 242/1, 242/2, 243/1, 233, 228, 232/1/1 क, 232/1/1 ख, 232/1, 232/1/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 186/1, 186/244/1, 231/5, 231/6, 231/7, 189/1, 188/1, 188/2, 118, 243/1	167, 179, 168/1, 168/2, 168/3, 188, 166/1, 165/1, 165/2, 165/3, 164, 126/1, 126/2, 125/1/2, 125/2, 124/2, 123/1, 122, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 242/1, 242/2, 243/1, 233, 228, 232/1/1 क, 232/1/1 ख, 232/1, 232/1/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 186/1, 186/244/1, 231/5, 231/6, 231/7, 215/1, 189/1, 118, 243/1

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Ujjain	Ujjain	Panthiplai	8, 9, 38/1, 38/2/1, 38/2/2, 10, 39, 60, 61, 78, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 430/1, 430/2, 437/1/1, 437/1/2, 437/2, 442, 438/1/1, 438/1/2, 438/2, 439, 440, 231, 547/1, 547/2, 557/1, 557/2, 554, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 199/1, 199/2, 199/3, 198, -, 180/1, 180/2, 180/3, 183, 178/1/1/1, 178/1/1/2, 178/1/2/1, 178/1/2/2, 178/2/1, 178/2/2, 178/2/3, 175/1/1, 175/1/2, 175/2, 175/3/1, 175/3/2, 174/1/1, 174/1/2, 174/2/1, 174/2/2, 176/1/1, 176/1/2, 176/2/1, 176/2/2, 162/1, 162/2, 162/3/1, 162/3/2/1, 162/3/2/2, 162/4/1, 162/4/2, 162/5/1, 162/5/2, 162/6/1, 162/6/2, 162/6/3, 159, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 142/1/1/1, 142/1/2, 142/2/1, 142/2/2, 142/3/1, 142/3/2, 142/4/1, 142/4/2, 141/1, 141/2/1, 141/2/2, 160, 163, 166/1, 166/2/1, 166/2/2, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 558/1, 558/2, 560, 559, 546/1, 546/2, 444/1, 444/2, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 426/1, 426/2/1, 426/2/2, 264/1, 264/2/1, 264/2/2, 264/3/1, 264/3/2, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 275, 277/1, 277/2, 277/3, 284/1/1, 284/1/2, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1/1, 285/2/1/2, 285/2/2/1, 285/2/2/2, 290/1, 290/2, 288/1/1, 288/1/2, 288/2/1, 288/2/2, 288/3, 288/4, 302, 300/3/1/1, 303/1/2, 303/2/1, 303/2/2, 304/1, 304/2, 305, 276, 441, 443, 287/1, 287/2, 287/3, 180/1, 180/2, 180/3	6, 7, 8, 9, 38/1, 38/2/1, 38/2/2, 10, 40, 41, 59, 60, 58, 61, 62/3, 260/3, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 430/1, 430/2, 436/1, 436/2, 437/1/1, 437/1/2, 437/2, 442, 438/1/1, 438/1/2, 438/2, 231, 548/1, 548/2, 556, 547/1, 547/2, 555/1, 555/2, 557/1, 557/2, 554, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 199/1, 199/2, 199/3, 198, 186, 180/1, 180/2, 180/3, 183, 178/1/1/1, 178/1/1/2, 178/1/2/1, 178/1/2/2, 178/2/1, 178/2/2, 178/2/3, 175/1/1, 175/1/2, 175/2, 175/3/1, 175/3/2, 174/1/1, 174/1/2, 174/2/1, 174/2/2, 176/1/1, 176/1/2, 176/2/1, 176/2/2, 162/5/1, 162/5/2, 162/6/1, 162/6/2, 162/6/3, 159, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 142/1/1/1, 142/1/2, 142/2/1, 142/2/2, 142/3/1, 142/3/2, 142/4/1, 142/4/2, 141/1, 141/2/1, 141/2/2, 160, 161/1, 161/2, 163, 166/1, 166/2/1, 166/2/2, 173, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 582, 583, 564/1/1, 564/1/2, 564/1/3, 558/1, 558/2, 560, 563, 546/1, 546/2, 444/1, 444/2, 445, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 426/1, 426/2/1, 426/2/2, 265/1, 265/2, 264/1, 264/2/1, 264/2/2, 264/3/1, 264/3/2, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 274/1, 274/2, 275, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 284/1/1, 284/1/2, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1/1, 285/1/2, 285/2/1/1, 285/2/1/2, 285/2/2/1, 285/2/2/2, 288/1/1, 288/1/2, 288/2/1, 288/2/2, 288/3, 288/4, 301, 302, 300/2, 300/3/1/1, 303/1/2, 303/2/1, 303/2/2, 304/1, 304/2, 305, 276, 230, 287/1, 287/2, 287/3, 180/1, 180/2, 180/3
Ujjain	Ujjain	Ramwasa	157/1, 158, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2 सि-2, 161/2 सि-1, 174, 181, 182, 183, 215, 216, 218, 226/1, 226/2, 226/3, 470, 469, 471/1, 471/2, 498, 499/1/2/1 सि- , 499/1/2/1 सि-2 , 499/1/2/1 सि-3 , 499/1/1, 499/1/2/2, 499/3, 499/2/1, 499/2/3, 499/2/2 सि-1 , 499/2/2 सि-2 , 499/2/2 सि-3 , 501, 500, 506, 507, 508, 508/2/1, 508/2/2, 509, 510/1, 510/2/2, 510/2/3, 518/1, 518/2/1, 518/2/2, 520/1/1/1, 520/1/1/2, 520/1/2/1, 520/1/2/2, 520/1/3/1, 520/1/3/2, 520/1/4/1, 520/1/4/2, 520/1/5/1, 520/1/5/2, 520/2/1, 520/2/2, 522/1, 522/2/1, 522/2/2, 523/1, 523/2, 524, 525, 467/1, 467/3, 467/2/1, 467/2/2, 467/2/3, 467/2/4, 466/1, 466/2/1, 466/2/2, 466/3/1, 466/3/2, 466/4/1, 466/4/2, 459, 455, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 474/3/1, 474/3/2, 474/4/1, 474/4/2, 474/5/1, 474/5/2,	156, 155, 154, 157/1, 153, 158, 159, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2 सि-2, 161/2 सि-1, 174, 181, 182, 183, 215, 216, 217, 218, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 469, 471/1, 471/2, 498, 499/1/2/1 सि- , 499/1/2/1 सि-2 , 499/1/2/1 सि-3 , 499/1/1, 499/1/2/2, 499/3, 499/2/1, 499/2/2 सि-1 , 499/2/2 सि-2 , 499/2/2 सि-3 , 501, 506, 507, 508, 508/2/1, 508/2/2, 510/1, 510/2/2, 510/2/3, 511, 518/1, 518/2/1, 518/2/2, 519, 520/1/1/1, 520/1/1/2, 520/1/2/1, 520/1/2/2, 520/1/3/1, 520/1/3/2, 520/1/4/1, 520/1/4/2, 520/1/5/1, 520/1/5/2, 520/2/1, 520/2/2, 522/1, 522/2/1, 522/2/2, 523/1, 523/2, 524, 525, 467/1, 467/3, 467/2/1, 467/2/2, 467/2/3, 467/2/4, 466/1, 466/2/1, 466/2/2, 466/3/1, 466/3/2,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			474/6, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1/1, 478/1/2, 478/2, 479	466/2/2, 466/3/1, 466/3/2, 466/4/1, 466/4/2, 459, 455, 486/1, 486/2, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 474/3/1, 474/3/2, 474/4/1, 474/4/2, 474/5/1, 474/5/2, 474/6, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1/1, 478/1/2, 478/2, 479, 480
Ujjain	Ujjain	Ninora	3/1, 3/2, 3/3, 5, 12, 13, 14, 15, 15/725, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 45, 48/1, 48/2, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 61/4, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1/1, 70/1/2, 70/2/1, 70/2/2, 74, 485, 484/1/1, 484/1/2, 484/2, 484/3, 483, 482/1, 482/2, 481, 491, 492, 495/1, 495/2/1, 495/2/2, 495/2/3, 495/2/4, 497, 504, 506, 505, 517, 518, 519, 529, 531, 532, 533 मी-1, 533 मी-2, 536/1, 536/2/1, 536/2/2, 537/2, 538, 554/1, 554/2/1, 554/2/2, 554/2/3, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2/1, 556/2/2, 557/1, 557/2, 565/1, 565/2, 566, 567, 570/1, 570/2, 571, 572, 570/3/1, 570/3/2, 573/1, 573/2/1, 573/2/2, 472, 569, 479/1/1/1, 479/1/1/2, 479/1/2/1, 479/1/2/2, 479/2/1, 479/2/2, 479/2/3/1, 479/2/3/2, 479/2/4 मी-1, 479/4 मी-2, 478, 477/1, 477/2, 476, 475/2/1, 475/2/2, 480, 533 मी-1, 533 मी-2, 534, 535	3/1, 3/2, 3/3, 5, 12, 13, 14, 15, 15/725, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 45, 48/1, 48/2, 52, 49, 50, 51, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61/3/1, 61/3/2, 61/3/3, 62, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1/1, 70/1/2, 70/2/1, 70/2/2, 74, 485, 484/1/1, 484/1/2, 484/2, 484/3, 483, 482/1, 482/2, 481, 491, 492, 495/1, 495/2/1, 495/2/2, 495/2/3, 495/2/4, 497, 504, 506, 505, 517, 519, 520, 529, 530, 531, 532, 533 मी-2, 533 मी-2, 536/1, 536/2/1, 536/2/2, 537/2, 538, 554/1, 554/2/1, 554/2/2, 554/2/3, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2/1, 556/2/2, 558, 557/1, 557/2, 564, 565/1, 565/2, 566, 570/1, 570/2, 571, 570/3/1, 570/3/2, 573/1, 573/2/1, 573/2/2, 574/1, 574/2, 472, 569, 479/1/1/1, 479/1/1/2, 479/1/2/1, 479/1/2/2, 479/2/1, 479/2/2, 478, 477/1, 477/2, 476, 475/2/1, 475/2/2, 480, 533 मी-1, 533 मी-2, 534, 535
Ujjain	Ujjain	Karadiya Urf Navakheda	45, 44/1 मी-1, 44/1 मी-2, 44/2, 41/1, 41/2, 40/1, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/3, 40/3, 37, 36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3, 36/4/1, 36/4/2, 34, 35/1/1, 35/1/2, 35/2, 47/1/1, 47/1/2, 47/2/1, 47/2/2, 47/3/1, 47/3/2, 47/4/1, 47/4/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1/1, 53/1/2/1, 53/1/2/2, 53/1/2/3, 53/2/1, 53/2/2/1, 53/2/2/2, 53/2/2/3, 54/1, 54/2, 54/3/1, 54/3/2, 150, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 169/1/1, 169/1/2, 169/2/1, 169/2/2, -, 163/1, 163/2, 226/1/1, 226/1/2, 226/2, 226/3, 227, 225/1, 225/2, 224, 228, 230, 232/1, 232/2/1, 232/2/2, 232/2/3, 223, 171/1, 171/2, 172/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195/1, 195/2/1, 195/2/2, 212, 213, 214, 221, 222, 170, 46	44/1 मी-1, 44/1 मी-2, 44/2, 41/1, 41/2, 40/1, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/3, 40/3, 37, 36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3, 36/4/1, 36/4/2, 34, 35/1/1, 35/1/2, 35/2, 47/1/1, 47/1/2, 47/2/1, 47/2/2, 47/3/1, 47/3/2, 47/4/1, 47/4/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1/1, 53/1/2/1, 53/1/2/2, 53/1/2/3, 53/2/1, 53/2/2/1, 53/2/2/2, 53/2/2/3, 54/1, 54/2, 54/3/1, 54/3/2, 150, 168/1/1, 168/1/2, 168/2, 169/1/1, 169/1/2, 169/2/1, 169/2/2, -, 163/1, 163/2, 226/1/1, 226/1/2, 226/2, 226/3, 227, 225/1, 225/2, 224, 228, 230, 232/1, 232/2/1, 232/2/2, 232/2/3, 223, 171/1, 171/2, 172/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195/1, 195/2/1, 195/2/2, 212, 213, 214, 221, 222, 214, 215, 221, 170, 46
Ujjain	Ujjain	Mendiya	93/2, 93/1/2 मी-2, 94/1/1, 99/1/2, 95/1/1, 98, 96/1, 96/2/1/1, 96/2/1/2, 96/2/2, 106/1, 107 मी-, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107 मी-, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9/1, 106/9/2, 109/1/2, 165/1, 165/2, 164, 166/1, 163/1, 163/2, 162, 161/1, 161/2, 157/1/1, 94/1/2, 108/2/1, 108/2/1/2, 111/2, 113/1, 113/4, 124, 125/1, 125/2, 127/3, 127/2, 126, 160,	92/5, 92/6, 92/7, 92/2/1, 93/2, 94/1/1, 99/1/2, 99/2/2, 98, 97/1/1, 97/1/3, 97/2, 106/1, 107 मी-, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107 मी-, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9/1, 106/9/2, 166/1, 157/1/1, 157/1/2, 157/1/3, 157/1/4, 157/1/5, 157/1/6, 157/1/7, 157/1/9, 157/1/10/1, 157/1/10/2, 157/1/10/3,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			110, 109/1/1, 109/1/2, 109/2, 109/3/1/1, 95/1/1, 108/2/1/1, 95/2/1, 109/3/2/1, 108/2/2/1, 109/3/2/2 मि., 109/3/3/1, 95/3/2, 108/2/3 मि., 109/3/3/2, 108/3/3 मि., 95/3/1, 108/2/3 मि.	157/1/10/4, 157/2, 157/3, 111/3, 111/1, 111/2, 114/1 मि., 113/1, 114/2, 113/3, 113/2, 113/1, 113/4, 114/4, 113/5, 123/3/1, 123/3/2, 123/3/3, 123/1, 122, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 127/3, 127/2, 127/1, 126, 160
Ujjain	Ujjain	Dhendiya	21/1, 21/2, 22/1, 22/1/मि 2, 22/2, 33/1, 33/2, 96/1/1, 96/1/2, 96/1/3, 96/2, 92/1, 91/4, 91/12, 91/11, 91/10, 91/8, 91/1/2, 91/2/3, 91/2/2/2, 91/2/4, 112/1, 112/5, 112/9, 112/6, 112/8, 112/7/1/1, 112/7/1/2, 112/1/2, 112/7/2, 114/1/1, 114/2/1, 114/2/2, 114/2/3, 115, 111, 110, 110/2, 110/1, 109, 108, 107/3, 106, 103, 104/1, 104/2, 105, 102/1/1, 102/2, 101, 97/1, 97/2, 97/3/1, 97/3/2, 97/4/1, 97/5/1, 98/1/1, 16/2/2/1, 16/2/2/2, 16/2/2/3, 16/2/2/4, 16/2/2/5, 16/2/2/6, 16/2/1/1, 16/2/1/2, 16/2/1/3, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/1/1, 16/3, 17, 93/2	21/1, 21/2, 22/1, 22/1/मि 2, 22/2, 33/1, 33/2, 96/1/1, 96/1/2, 96/1/3, 96/2, 92/1, 91/4, 91/12, 91/11, 91/10, 91/8, 91/1/2, 91/2/3, 91/2/2/2, 91/2/4, 112/1, 112/5, 112/9, 112/6, 112/8, 112/7/1/1, 112/7/1/2, 112/1/2, 112/7/2, 114/1/1, 114/2/1, 114/2/2, 114/2/3, 115, , 110, 110/2, 110/1, 107/3, 106, 104/1, 104/2, 105, 102/1/1, 102/2, 101, 97/1, 97/2, 97/3/1, 97/3/2, 97/4/1, 97/5/1, 98/1/1, 16/2/2/1, 16/2/2/2, 16/2/2/3, 16/2/2/4, 16/2/2/5, 16/2/2/6, 16/2/1/1, 16/2/1/2, 16/2/1/3, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/1/1, 16/3, 93/2
Ujjain	Ujjain	Goylakhurd	5/1/1, 5/1/2, 5/1/2/1, 5/1/2/2, 5/1/2/3, 5/2 मि-1, 5/2 मि-2, 5/2 मि-3, 5/2 मि-4, 5/2 मि-5, 5/3, 5/4, 5/5 मि-1, 5/5 मि-2, 5/5 मि-3, 5/6, 24/1/1, 24/1/2, 23/1/2, 24/2/1, 24/2/2, 24/2/3, 24/2 मि-2, 7/3, 23/3, 24/3/1, 24/3/2, 24/3/3, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 28/1/1/1, 28/1/3, 28/1/2/1, 28/1/9, 28/1/8, 28/1/10, 28/1/11, 29/1, 29/2, 23/1/1, 23/1/2, 23/2, 23/3, 30, 38 मि-1, 38 मि-2, 42/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 38/2, 42/5, 39, 42/6, 40/6, 44/2/2, 44/2/3, 44/2/7, 44/2 मि-1, 44/2 मि-5, 44/2 मि-8, 40/1, 40/2, 42/6, 40/3, 42/7, 40/4, 42/8, 40/5, 42/9, 40/6, 42/10, 42/11, 40/7, 43/1, 43/2, 45/1, 45/1/2, 45/1/3, 45/1/4, 45/1/5, 45/1/6, 45 मि-1, 45 मि-2, 45/1/7, 45/8/8, 45/1/10, 45/2/3, 45/2/4, 45/2/7, 45/2/16, 46/1/11, 45/2 मि-1, 45/2 मि-2, 45/2 मि-8, 45/2 मि-5, 45/2 मि-10, 45/2 मि-11, 45/2 मि-12, 45/2 मि-13, 45/2 मि-14, 55, 58/2, 58/1, 57, 136/5/1, 136/5/2, 136/2, 147/6/1, 147/3, 147/5, 136/3 मि-60/1, 59, 68, 69/2, 69/3, 72/1 मि-1, 72/1 मि-2, 74/1 मि-1, 74/1 मि-2, 74/1 मि-3, 74/1 मि-4, 74/1 मि-8, 74/1 मि-9, 74/2, 75 मि-1, 75 मि-2, 75 मि-3, 75 मि-4, 75 मि-5, 75 मि-6, 75 मि-7, 80/1/1, 80/1 मि-1, 80/1 मि-2, 80/4/1, 80/4/3, 80/5/1, 80/5/2, 80/5/2 मि-1, 80/5/3, 80/4/2, 136/5/1, 136/5/2, 136/6, 136/7 मि-61/1, 61/2, 136/1/1, 136/8, 148, 147/2, 76,77,78,79,81/2,84,85, 86,87,88, 34/4/1, 36/4/2, 36/4/3, 36/3, 158/1, 69/1 मि-1, 70/1, 69/1 मि-2, 69/1 मि-3, 69/1 मि-4, 69/1 मि-5, 69/1 मि-6, 69/1 मि-7, 72/2, 73	5/1/1, 5/1/2, 5/1/2/2, 5/1/2/3, 5/2 मि-1, 5/2 मि-2, 5/2 मि-3, 5/2 मि-4, 5/2 मि-5, 5/3, 5/4, 5/5 मि-1, 5/5 मि-2, 5/5 मि-3, 5/6, 24/1/1, 24/1/2, 23/1/2, 24/2/1, 24/2/2, 24/2/3, 24/2 मि-2, 7/3, 23/3, 24/3/1, 24/3/2, 24/3/3, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 25/1/3, 25/2, 25/3/1, 25/3/2, 28/1/1/1, 28/1/3, 28/1/2/1, 28/1/9, 28/1/8, 28/1/10, 28/1/11, 23/1/1, 23/1/2, 23/2, 23/3, 30, 38 मि-1, 38 मि-2, 42/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 38/2, 42/5, 39, 42/6, 40/6, 44/2/2, 44/2/3, 44/2/4, 44/2/6, 44/2/7, 44/2 मि-1, 44/2 मि-5, 44/2 मि-8, 40/2, 42/6, 40/3, 42/7, 40/4, 42/8, 40/5, 42/9, 40/6, 42/10, 42/11, 40/7, 43/1, 43/2, 45/1, 45/1/2, 45/1/3, 45/1/4, 45/1/5, 45/1/6, 45 मि-1, 45 मि-2, 45/1/7, 45/8/8, 45/1/10, 45/2/3, 45/2/4, 45/2/7, 45/2/16, 46/1/11, 45/2 मि-1, 45/2 मि-2, 45/2 मि-8, 45/2 मि-5, 45/2 मि-10, 45/2 मि-11, 45/2 मि-12, 45/2 मि-13, 45/2 मि-14, 55, 136/5/1, 136/5/2, 147/1/1, 147/1/2, 147/6/1, 147/3, 147/5, 136/3 मि-64/1 मि-1, 64/1 मि-2, -, 60/2 मि-68, 69/2, 69/3, 70/2, 72/1 मि-1, 72/1 मि-2, 74/1 मि-1, 74/1 मि-2, 74/1 मि-3, 74/1 मि-4, 74/1 मि-8, 74/1 मि-9, 74/2, 75 मि-1, 75 मि-2, 75 मि-3, 75 मि-4, 75 मि-5, 75 मि-6, 75 मि-7, 80/1/1, 80/1 मि-1, 80/1 मि-2, 80/4/1, 80/4/3, 80/5/1, 80/5/2, 80/5/2 मि-1, 80/5/3, 80/4/2, 136/5/1, 136/5/2, 136/6, 136/7 मि-61/1, 61/2, 136/1/1, 136/8, 148, 147/2, 76,77,78,79,81/2,84,85, 86,87,88, 34/4/1, 36/4/2, 36/4/3, 36/3, 158/1, 69/1 मि-1, 70/1, 69/1 मि-2, 69/1 मि-3, 69/1 मि-4, 69/1 मि-5, 69/1 मि-6, 69/1 मि-7, 72/2, 73

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
				164, 165, 158/1, 69/1 सि-1, 70/1, 69/1 सि-2, 69/1 सि-3, 69/1 सि-4, 69/1 सि-5, 69/1 सि-6, 69/1 सि-7, 73
Ujjain	Ujjain	Nanakheda	50, 51/2, 51/1/2/2, 51/5, 51/4, 51/8, 49, 52, 53, 48/2, 62, 92, 89/1 सि-1, 89/1 सि-2, 89/1 सि-3, 89/2, 89/3, 89/4 सि-1, 89/4 सि-2, 89/5, 89/6, 88/1/1, 91/1, 88/1/2, 90/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/13, 81/1/2, 81/1/3, 81/1/4, 81/1/5, 81/2/2, 81/2/3, 81/2/4, 81/2/5, 81/2/6, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 85/2, 86/2, 85/1, 320/2, 320/1, 83/2, 330/4, 330/5, 330/6, 331, 330/2, 330/3, 330/7, 330/10, 330/11, 329/2, 329/3, 333/7	50, 51/1/2/1, 51/2, 51/1/2/2, 51/4, 51/8, 49, 52, 54, 55/2, 48/2, 48/1, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/14, 63/12, 63/13, 62, 92, 93, 89/1 सि-1, 89/1 सि-2, 89/1 सि-3, 89/2, 89/3, 89/4 सि-1, 89/4 सि-2, 89/5, 89/6, 88/1/1, 91/1, 88/1/2, 90/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 81/1/1, 81/1/2, 81/1/3, 81/1/4, 81/1/5, 81/2/2, 81/2/3, 81/2/4, 81/2/5, 81/2/6, 81/3, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 85/2, 86/2, 83/2, 330/4, 330/5, 330/6, 331, 330/2, 330/3, 330/7, 330/8, 330/10, 330/11, 329/2, 329/3, 329/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8
Ujjain	Ujjain	Kasba Ujjain	3526, 3522, 3556/2, 3556/1, 3554/2, 3555, 3556, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3523, 3557/1, 3546, 3547, 3546/2, 3541, 3554, 3553, 3668, 3667, 3666, 3689, 3687/2, 3686, 3683/1, 3685, 3666, 3665, 3557/1, 3557/2, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3667, 3686, 3557/1, 3557/2, 3559/3/1, 3559/2, 3545/1, 3545/2	2351, 3526, 3524, 3522, 3556/2, 3556/1, 3555, 3556, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3523, 3543, 3557/1, 3547, 3541, 3551, 3548, 3552, 3550, 3554, 3553, 3668, 3667, 3666, 3689, 3687/2, 3686, 3683/1, 3684, 3685, 3690, 3666, 3664, 3665, 3557/1, 3557/2, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3667, 3686, 3557/1, 3557/2, 3676, 3562/1, 3562/2, 3665, 3544, 3559/2, 3545/1, 3545/2

IV)

Part-“A”

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Bhopal –Dewas Four lane (SH-18)	140.79	Bhopal, Sehore, Dewas

Part-“B”

Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40 m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Bhopal	Huzur	Bairagarh Kalan	496, 469-471-478-479, 467, 468, 470, 454, 470, 494, 493, 492, 453, 486, 487, 485, 477, 473, 474	496, 469-471-478-479, 467, 468, 470, 454, 494, 493, 492, 453, 486, 487, 485, 473, 474
Bhopal	Huzur	Bhaisa Khedi	75, 78, 79, 80, 81, 85, 93, 30, 90, 89, 47, 156, 155, 154, 153, 151/1, 163/2, 163/1, 164, 98	75, 78, 79, 80, 81, 85, 30, 90, 89, 47, 156, 155, 154, 153, 151/1, 163/2, 163/1, 164, 100, 98

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Bhopal	Huzur	Bhounri	620, 619, 622, 624-625, 613, 1194, 1193, 1189, 1190-1192-1195/1, 1189, 1191-1190/2, 1188, 1187, 1217, , 1219, 1220, 631, 632, 1183, 1182, 1181, 1175, 1174, 1173, 1172, 1169, 1168, 1169, 1167, 1165, 1162, 1160, 1159, 1158, 1287, 1291, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1301, 1307, 1209	619, 622, 624-625, 613, 1193, 1189, , 1189, 1191-1190/2, 1188, 1187, 1217, 1216, 1219, 1220, 631, 632, 1183, 1182, 1181, 1175, 1173, 1172, 1169, 1168, 1169, 1167, 1165, 1160, 1159, 1158, 1287, 1291, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1301, 1307, 1209, 1208
Bhopal	Huzur	Jamuniya Chhir	344, 345, 158, 349, 160, 163, 342, 165, 340, 175, 176, 177, 179, 180, 290, 291, 339, 292, 294, 295, 338, 299, 300, 301, 302, 231, 333, 329, 330	344, 345, 158, 349, 159, 157, 156, 160, 162, 163, 342, 165, 166, 340, 175, 176, 177, 179, 180, 290, 291, 339, 292, 294, 295, 338, 299, 300, 301, 302, 231, 334, 236, 329, 330, 328
Bhopal	Huzur	Kolukhedi	230, 133, 134, 231, 232, 135, 136, 138, 235, 236, 238, 139, 140, 141, 258, 142, 143, 148, 149, 260, 262, 261, 293, 294, 296, 297, 298, 189, 194, 195, 200, 201, 299, 301, 302, 202, 207, 208, 310, 222, 226, 310, 311, 314, 315,	228, 230, 133, 134, 231, 232, 135, 136, 137, 138, 235, 236, 238, 127, 139, 140, 141, 258, 142, 143, 148, 149, 260, 262, 261, 293, 294, 296, 297, 298, 189, 194, 195, 200, 201, 299, 301, 302, 207, 208, 210, 209, 310, 222, 226, 225, 310, 311, 312, 313, 315
Bhopal	Huzur	Khajuri Sadak	28, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 102, 103, 99, 104/675, 104, 105, 106, 111, 112, 129, 130, 138, 139, 136, 137, 141, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 301, 300, 302, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 345, 346, 347, 348, 555, 556, 557, 558, 553	28, 39, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 87, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 103, 99, 104/675, 104, 105, 106, 112, 129, 130, 138, 139, 135, 136, 137, 141, 146, 148, 145, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 182, 183, 185, 300, 299, 298, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 555, 556, 558, 553
Bhopal	Huzur	Phanda Kalan	435, 436, 445, 447, 448, 515, 516, 118, 121, 124, 517, 518, 519, 520, 124, 125, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 197, 198, 521, 530, 535, 536, 537, 541/3, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 382, 383, 387, 388, 389, 407, 409, 431, 979, 980, 981, 987, 988, 1005, 386, 1006, 656, 644, 657, 658, 659, 660, 662, 661, 653, 664, 667, 665, 876, 197, 211, 257, 258, 260, 259, 213, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 267, 292, 293, 884, 283, 885, 886, 906, 905, 678, 294, 342	436, 445, 447, 448, 118, 121, 124, 517, 518, 519, 124, 125, 126, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 197, 198, 521, 527, 530, 535, 536, 537, 541/3, 644, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 382, 383, 387, 388, 389, 407, 409, 431, 979, 980, 981, 987, 988, 1005, 386, 1006, 656, 644, 657, 658, 659, 660, 662, 661, 668, 667, 665, 876, 197, 211, 257, 258, 260, 259, 213, 261, 262, 264, 265, 268, 292, 884, 283, 887, 886, 906, 907, 905, 678, 294, 342
Sehore	Sehore	Pachama	305/1, 308, 307, 309, 310, 317/2, 314/1, 315/1, 320/1/1, 320/2, 321/1/1, 321/2/1, 325/1/1, 333/1, 327-328/1, 327-328/2, 327-328/3, 329/1, 331/1, 305/1, 306, 307, 310, 318, 317/2, 315/3, 320/2/3, 320/2/2, 321/1/3, 321/2/3, 325/1, 332/3	305/1, 308, 307, 309, 302, 310, 317/2, 314/1, 315/1, 320/1/1, 320/2, 321/1/1, 21/2/1, 325/1/1, 333/1, 326/1, 326/2, 327-328/1, 327-328/2, 327-328/3, 329/1, 331/1, 305/1, 306, 307, 310, 318, 317/2, 316, 315/3, 320/2/3, 320/2/2, 321/1/3, 321/2/3, 335, 325/1, 334, 332/3

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Sehore	Lasudiya Parihar	27-28/2/1, 27-28/2/2, 27-28/2/3, 26/1/1/1, 22-23 25/1, 263/77, 77, 76/462/1, 79/1, 80/1/1, 80/2/1, 107-108/1, 81/2/1, 81/1/4, 81/2/3, 81/3, 81/1/2/1, 81/1/1, 109, 96-97/3, 96-97/4, 96-97/5, 91, 92, 93/1क, 89, 90, 154/1/3, 87/1, 87/2, 87/3/1ग, 87/3/1ख, 87/3/1घ, 87/3/1क, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 27/1, 26/1, 22, 23, 25/3, 78, 79, 76/462/3, 79/3, 80/1/3, 112, 80/2/3, 107, 108/3, 96-97/1, 94-95/1, 94-95/2, 91, 92, 93/2, 89, 90, 154/1/4/3/2, 88, 159, 87/3/3, 160, 164, 165/2, 161, 162/3, 163/3	27-28/2/1, 27-28/2/2, 27-28/2/3, 26/1/1/1, 22-23-25/1, 263/77, 77, 76/462/1, 79/1, 80/1/1, 80/2/1, 107-108/1, 81/2/1, 81/1/4, 81/2/3, 81/3, 81/1/2/1, 81/1/1, 109, 96-97/3, 96-97/4, 96-97/5, 91, 92, 93/1क, 91, 92, 93/1ख, 89, 90, 154/1/1, 89, 90, 154/1/2, 89, 90, 154/1/3, 87/1, 87/2, 87/3/1ग, 87/3/1ख, 87/3/1घ, 87/3/1क, 161, 162/1, 162/2, 27/1, 26/1, 22, 23, 25/3, 78, 79, 76/462/3, 79/3, 80/1/3, 113, 114, 112, 80/2/3, 107, 108/3, 96-97/1, 94-95/1, 94-95/2, 91, 92, 93/2, 89, 90, 154/1/4/3/2, 88, 159, 87/3/3, 160, 164, 165/2, 161, 162/3, 163/3, 160, 164, 165/1क
Sehore	Sehore	Takipur Urf Mahuakheda	16/1/1, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 18/1/1, 18/1/2, 18/2/1, 18/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 17/1/1, 218/1/5, 218/2, 219/2, 218/1/1/4/1, 218/1/1/4/2, 218/1/1/4/3, 236/1, 237/1/1, 234/2, 234/1, 238/1/2, 232/1, 244/2, 245/1, 245/2, 248/1/2, 248/1/1, 248/2/1, 248/3/2, 248/4/1, 16/1/1, 19/2/3, 19/3 ख, 19/3 क, 19/4/2, 20/1, 17/1/3, 218/1/3, 218/1/2/3, 218/1/3/2, 218/1/2/6 क, 18/1/2/1/2, 237/1/2 क, 237/1/2 ख, 238/1/2, 239, 243/3, -, 252, 244/2, 245/1/1, 245/2/2, 249/3 ख/2, 249/3 क/2, 249/2/2	16/1/1, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 18/1/1, 18/1/2, 18/2/1, 18/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 17/1/1, 218/1/5, 218/2, 219/2, 218/1/1/4/1, 218/1/1/4/2, 218/1/1/4/3, 236/1, 237/1/1, 234/2, 234/1, 238/1/2, 232/1, 244/2, 245/1, 245/2, 248/1/2, 248/1/1, 248/2/1, 248/3/2, 248/3/1, 248/4/1, 16/1/1, 19/2/3, 19/3 ख, 19/3 क, 19/4/2, 20/1, 21/1, 17/1/3, 218/1/3, 218/1/2/3, 218/1/3/2, 218/1/2/6 क, 218/1/2/4, 218/1/1/3/1 क, 218/1/2/1/2, 237/2 क, 237/1/2 ख, 238/1/2, 239, 243/3, 241, 252, 245/2/2, 249/3 ख/2, 249/3 क/2, 249/2/2
Sehore	Sehore	Badiyakhedi	173-174/1, 170/1, 175/1, 176/1, 179/1, 180, 178/1/1, 178/4, 187/1, 189/1, 188/1, 188/2, 190, 163/4, 173-174/3, 170/2, 175/3, 176/3, 181, 180/3, 271/280/1, 186/3/2, 189-191/2/2, 192, 188/1, 191/3, 163/3	173-174/1, 172, 170/1, 175/1, 176/1, 179/1, 178/1/1, 178/4, 187/1, 189/1, 188/1, 190, 163/4, 173-174/3, 170/2, 175/3, 181, 180/3, 271/280/1, 186/3/2, 189-191/2/2, 192, 188/1, 191/3, 163/3
Sehore	Sehore	Sherpur	202/218, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 206, 208/1, , 187, 143/1/4, 143/1/3, 144/3, 163/1/1/1, 163/1/1/8, 164/1/2, 164/1/3, 166/1, 166/3, 165/3/1, 168/1/1, 288-270/1/2, 81/3/6, 81/3/5, 81/3/3, 81/3/1, 81/3/2, 220, 219, 228, 202/218, 217, 207, 209, 211, 143/3, 187, 186/1, 186/2, 204/140/1, 163/1/1/1, 166/2, 177, 165/2, 168/2, 168/3, 169/3, 288/1/281/1 - 285/1/1/1क, 285/1/1	202/218, 19/2/1 क, 19/2/1 ख, 206, 208/1, 208/2, 139/2, 187, 143/1/4, 143/1/3, 142/2, 144/3, 144/2, 163/1/1/1, 163/1/1/8, 164/1/2, 164/1/3, 164/1/5, 166/1, 166/3, 165/3/1, 168/1/1, 288-270/1/1, 288-270/1/2, 81/3/6, 81/3/5, 81/3/3, 81/3/1, 81/3/2, 81/2, 220, 221, 219, 228, 217, 216, 207, 209, 215, 210, 211, 259/2, 143/2, 143/3, 187, 186/1, 186/2, 204/140/2, 162/2, 162/3, 166/2, 166/3, 177, 165/2, 168/2, 168/3, 169/2, 169/3, 288/170/2, 288/1/281/1 285/1/1/2 285/1/1/1ख 285/1/1/1क, 285/1/1

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Sehore	Sarangakhedi	46/1, 47/1, 52/2, 52/1, 54, 49/1, 50-51/2, 50-51/1, 74-77/1/1, 76/1, 74-77/2, 78/1, 79/1, 83, 82/2, 82/1, 97/1, 101/1, 102/1, 99-118/99/1/1, 99/2/1-118/2, 99/3/1-118/99/1, 48/3, 49/3, 50-51/3, 50-51/1, 73/3, 75/2, 79/2, 87/1-87/2, 85, 84, 97/2, 105, 104, 103, 102/3, 99/118/99/1/2, 99/118/99/2/4, 99/118/99/3/3	46/1, 47/1, 55, 52/2, 52/1, 54, 53, 49/1, 50-51/2, 50-51/1, 74-77/1/1, 76/1, 74-77/2, 78/1, 79/1, 83, 82/2, 82/1, 97/1, 101/1, 102/1, 99-118/99/1/1, 99/2/1-118/2, 99/3/1-118/99/1, 48/3, 49/3, 50-51/3, 50-51/1, 73/3, 75/2, 79/2, 87/1-87/2, 86, 85, 84, 97/2, 105, 106/1, 104, 103, 102/3, 99/118/99/1/2, 99/118/99/2/4, 99/118/99/3/3
Sehore	Sehore	Kasba Sehore	1004, 1006/1, 1021, 1022, 1102/1, 1149/1096, 1093, 1092, 1091, 1111/1, 1110, 1109, 1062/1119, 1119, 1004, 1006/1, 1006/2, 1021/2, 1021/3, 1102/5, 1102/1/3, 1101/6, 1049/1096, 1094, 1092, 1091, 1111/3, 1107, 1108, , 1109, 1062/1119	1004, 1006/1, 1021, 1022, 1102/1, 1149/1096, 1093, 1092, 1091, 1111/1, 1110, 1109, 1062/1119, 1119, 1004, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1021/2, 1021/3, 1102/5, 1102/1/3, 1101/6, 1049/1096, 1094, 1095, 1092, 1091, 1111/3, 1107, 1108, 1123, 1109, 1062/1119, 1120, 1121
Sehore	Sehore	Rafikganj	366/6, 366/5, 369/1/1, 367/2-368/1/6, 369-370/1, 369-370/2, 369-370/2/5, 376/2/4, 376/2/2, 376/2/3, 379/1, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/1, 383/2, 383/3, 384, 385, , 386, 387, 388, 402, 389, 402/379, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 271, 228, 227/1/7, 229, 226/1/2, 226/1/5 ज, 226/1/2 ज, 226/1/3 ज, 224/2, 224/4, 224/5, 224/3, 223/1/3, 223/1/4, 223/1/5, 223/1/2	366/6, 366/1, 366/5, 369/1/1, 367/2-368/1/6, 369-370/1, 369-370/2, 369-370/2/5, 376/2/4, 376/2/2, 376/2/3, 379/1, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/1, 383/2, 383/3, 393/1, 393/2, 393/3, 384, 385, 391, 386, 387, 388, 402, 389, 402/379, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271, 228, 227/1/7, 229, 226/1/2, 226/1/5 ज, 226/1/2 ज, 226/1/3 ज, 226/1/4 ज, 224/2, 224/4, 224/5, 224/3, 223/1/3, 223/1/4, 223/1/5, 223/1/2
Sehore	Sehore	Naplakhedi	177/3, 176/2, 176/1, 175, 142/1, 126/2, 125/3, 125/5, 125/4, 124, 123, 153, 121, 120, 92, 91, 90, 88, 89, 80, 76, 75/1, 74, 72, 70, 32, 24, 23/1, 23/2, 20-21-22/1, 20-21-22/2, 19	177/3, 176/2, 176/1, 175, 142/1, 144, 126/2, 125/3, 125/5, 125/4, 124, 123, 121, 120, 92, 91, 90, 88, 89, 80, 77, 76, 75/1, 74, 72, 69, 70, 32, 24, 23/1, 23/2, 20-21-22/1, 20-21-22/2, 19
Sehore	Sehore	Chitodiya Hema	175/3, 175/5, 175/3, 175/4, 176-177/5, 176-177/4, 176-177/6, 176-177/2, 178, 182/2, , 188/2, 262/2, 266/3, 266/2, 266/1, 267, 272, 274, 288/274, 275/2, 275/1	175/3, 175/5, 175/3, 175/4, 176-177/5, 176-177/4, 176-177/6, 176-177/2, 178, 182/2, 185, 186/2, 188/2, 188/1, 262/2, 266/3, 266/2, 266/1, 267, 272, 274, 273, 275/2, 275/1
Sehore	Sehore	Khurshidpur	109, 105, 106/1, 60, 59/1, 63/2, 59/2, 68/2, 68/3, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 52, 49/1, 44, 45, 46, 47, 105, 106/3, 109, 65/1, 66/1, 65/2, 63/1, 66/2, 67/3, 101, 70/3, 7/1, 7/2, 49/3, 48	109, 105, 106/1, 60, 59/1, 63/2, 59/2, 68/2, 68/3, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 52, 49/1, 44, 45, 46, 47, 105, 106/3, 109, 65/1, 66/1, 65/2, 63/1, 66/2, 67/3, 101, 70/3, 7/1, 7/2, 49/3, 48
Sehore	Sehore	Malipura	81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1 क, 83/1 ख, 83/1 ग, 83/1 घ, 83/2, 87, 88, 89/1, 89/2, 140/1, 143-144, 143-145, 146-150-102/2 क 1, 146-150-164/2 क-2, 146-150-164/2 क-4, 146-150-164/2 क-5, 146-150-164/2 क-6, 164/2, 164/1, 167	81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1 क, 83/1 ख, 83/1 ग, 83/1 घ, 83/2, 87, 88, 89/1, 89/2, 140/1, 143-144, 143-145, 146-150-102/2 क 1, 146-150-164/2 क-2, 146-150-164/2 क-4, 146-150-164/2 क-5, 146-150-164/2 क-6, 164/2, 164/1, 167

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Sehore	Udpura	4/2, 67/2, 67/3, 67/7, 67/8, 8/2, 8/1, 10, 11/1, 11/2, 15, 14/2	4/2, 67/2, 67/3, 67/7, 67/8, 8/2, 8/1, 10, 11/1, 11/2, 15, 14/2
Sehore	Sehore	Jatakheda	53/1 ख, 51/2, 52/4, 52/3, 53/6, 52/3, 53/6, 52/3, 53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 67/1/1 ख, 67/1/1, 67/1/2, 67/2, 68/5, 68/2, 88/1/1, 89, 91/1, 90, 92, 93/3, 94, 112/1, 113-114/1, 113-114/3, 124/548/2, 125/4, 125/3, 126/1, 126/3, 546, 552, 854/547, 553, 554, 228/1, 226/2/2, 226/2/1, 226/1, 218, 217, 216/2, 216/1/2, 216/1/1, 208, 207/1, 184/1, 184/3, 183/2, 183/1, 176/1, 176/2, 176/3, 175, 176/4, 176/5, 173, 176/6, 129/3, 129/2, 129/1, 128, 543	53/1 ख, 51/2, 52/4, 52/3, 53/6, 52/3, 53/6, 52/3, 53/6, 52/3, 53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 67/1/1 ल, 67/1/1, 67/1/2, 67/2, 68/5, 68/2, 88/1/1, 89, 91/1, 90, 92, 93/3, 94, 112/1, 113-114/1, 113-114/3, 124/548/2, 125/4, 125/3, 126/1, 126/3, 546, 552, 854/547, 553, 554, 228/1, 226/2/2, 226/2/1, 226/1, 225/5, 218, 217, 216/2, 216/1/2, 216/1/1, 208, 207/1, 184/1, 184/2, 184/3, 183/2, 183/1, 176/1, 176/2, 176/3, 175, 176/4, 176/5, 173, 176/6, 129/3, 129/2, 129/1, 128, 543
Sehore	Sehore	Khokhri	16/2, 16/1, 17/3, 17/2, 18, 11/4, , 11/3, , 11/2, 276/10/1, 10/4, 10/6, 10/5, 10/7, 8/2 ख, 26/1 क, 25, 23, 24/1, 24/2, 288/34/2, 288/34/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 40/3, 40/2, 41/1, 41/2, , 42/2, 42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7	16/2, 16/1, 17/3, 17/2, 18, 11/4, 11/1, 11/3, 11/5, 11/2, 276/10/1, 10/4, 10/6, 10/5, 10/7, 8/2 ख, 26/1 क, 26/1 ख, 25, 23, 24/1, 24/2, 288/34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 40/2, 41/2, 41/3, 42/2, 42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
Sehore	Sehore	Lalakhedi	159/6, 159/7, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 188/160/1, 160, 133, 132, 125/2, 131/1/1, 125/2, 131/2, 125/5, 164/1, 164/3, 164/2, 170/1, 171, 170/2, 170/3, 172/1, 172/2, 174	159/6, 159/7, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 188/160/1, 160, 133, 132, 125/2, 131/1/1, 125/2, 131/2, 125/5, 164/1, 166/1, 165/2, 165/1, 167/1, 170/4, 170/1, 167/2, 167/3, 167/4, 169/1, 171, 170/2, 170/3, 169/2, 169/3, 172/1, 173/1, 173/2, 172/2, 174
Sehore	Sehore	Sonda	96/3, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/2 ख, 90/2, 26/1/7 ग, 26/1, 24/7, 24/5, 24/3, 23/1, 23/2, 127/17, 17, 16, 26/8, 27/1, 27/2, 29, 137/30, 190/1, 26/1/4, 26/1/2, 26/7, 26/10, 26/4	96/3, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/2 ख, , 26/1/7 ग, 26/1, , 24/5, , 23/1, 23/2, 127/17, 17, 16, 26/8, 27/1, 27/2, 29, 137/30, - , 26/1/4, 26/1/2, 26/7, 26/10, 26/4
Sehore	Ashta	Bhilkhedi	65/4, 65/5, 145/6, 145/1, 110/2, 145/3, 94, 164/1, 163, 162/2, 162/1, 160, 159, 158/1, 154/1, 153/2, 148, 147	65/4, 65/5, 145/6, 145/1, 110/2, 145/3, 94, 164/1, 163, 162/2, 162/1, 160, 159, 158/1, 154/1, 153/2, 148, 147
Sehore	Ashta	Gadrakhedi	84/2, 92/2, 94, 39/7/1, 39/7/2, 39/7/3, 39/5, 38/2, 36, 34, 29, 27, 25, 24/4, 21/3, 21/2, 19, 20, 18/19, 18/18, 18/20, 17, 130, 96, 97/2, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 111, 113/2, 113/1, 112, 112/3, 98/1, 98/3, 98/1, 98/3	84/2, 92/2, 94, 39/7/1, 39/7/3, 39/5, 36, 34, 29, 25, 24/4, 21/3, 21/2, 19, 18/18, 18/20, 130, 96, 97/2, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 111, 113/2, 113/1, 112, 112/3, 98/1, 98/3, 38/2
Sehore	Ashta	Lasudiyakhas	65/4, 65/3/2, 65/3/3, 65/3/4, 65/5, 65/1, 64/1, 58/6, 58/5, 58/7, 58/8, 57/8, 55/1, 55/2, 55/3, 54/2, 47/2, 47/1, 35/4, 46, 45/3, 44, 43, 42, 67/1, 67/3, 68/4, 68/1, 68/2, 68/3, 74/1, 74/3, 74/2, 75, 76, 78/2, 77, 108, 109/2, 109/1, 110/1, 110/11, 110/10, 110/8, 110/5, 110/4/2, 110/4/1, 110/4/5, 110/4/4, 110/4/3, 119/1	65/4, 65/3/2, 65/3/3, 65/3/4, 65/5, 65/1, 65/1, 64/1, 58/5, 58/7, 57/8, 55/2, 55/3, 54/2, 47/2, 47/1, 35/4, 46, 45/3, 42, 67/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68/4, 68/1, 68/2, 68/3, 68/25, 74/1, 74/3, 68/13, 74/2, 75, 76, 78/1, 78/2, 77, 108, 109/2, 109/1, 110/1, 110/11, 110/10, 110/8, 110/5, 110/4/2, 110/4/1, 110/4/5, 110/4/4, 110/4/3, 119/1
Sehore	Ashta	Manakhedi	413/2, 423, 422/7, 422/6, 422/1, 422/4, 422/5, 419/10	413/2, 422/7, 422/6, 422/1, 422/4, 422/5, 419/10

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Ashta	Kothri	201, 202, 203, 218, 217/1, 220, 224, 226, 229/1, 229/2, 230, 231/2, 232, 234/2, 233/1, 233/2, 234/1, 150/1, 149, 147, 146, 144/2, 144/1, 141/3, 139/1, 139/2, 600, 604, 603, 602, 601, 805/2, 808, 809/3, 809/2, 810, 811, 812, 820, 822/3, 822/2, 823, 828, 829, 832, 830, 854, 853, 856, 857, 892/5, 905, 906, 907, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 923/1, 923/2, 925/1925/2, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 316, 315, 314, 313, 312, 310, 309, 308, 300, 298, 297, 287, 263, 262, 259, 256, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4, 238/1, 238/14, 239, 5981, 1119, 1117, 1116, 1115, 1109/1, 1109/2, 1093/1, 1093/2, 1092, 1091, 932/2, 932/29, 932/31, 932/32, 316, 315, 314, 313/1, 313/2, 312, 310, 309, 308, 300, 298, 297, 287, 263, 262/1, 262/2, 256, 256, 255, 254, 236/1, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4, 239, 598/1 क, 598/7, 598/1, 598/1 ग, 549/1, 1176, 1119, 1120, 1117, 1116, 1121, 1115, 1110, 1109/3, 1109/1, 1093/1, 1093/2, 1095	201, 202, 203, 218, 217/1, 217/2, 220, 219/2, 224, 226, 229/1, 229/2, 230, 231/1, 232, 234/2, 233/1, 233/2, 234/1, 251/2, 150/1, 149, 148, 147, 146, 144/2, 145/1, 144/1, 141/3, 139/1, 139/2, 600, 604, 603, 602, 805/2, 804, 806, 808, 809/2, 810, 811, 812, 820, 821, 822/2, 823, 824, 828, 827, 829, 832, 831, 854, 853, 856, 858, 892/5, 905, 906, 907, 908, 909, 924/1, 923/1, 923/2, 925/1, 925/2, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 316, 315, 314, 313, 312, 310, 311, 309, 308, 319/1, 300, 298, 299, 297, 287, 263, 264, 265, 262, 259, 261, 256, 257, 258, 260, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/2, 237/1, 237/3, 237/4, 247, 238/1, 238/14, 238/13, 238/12, 239, 5981, 1119, 1116, 1115, 1110, 1109/1, 1109/2, 1093/1, 1093/2, 1092, 1091, 932/2, 932/29, 932/31, 932/32, 316, 315, 314, 313/1, 313/2, 312, 311, 310, 309, 319/1, 308, 300, 299, 298, 297, 275, 287, 264, 263, 262/1, 262/2, 261, 256, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 247, 238/6, 238/12, 238/13, 238/14, 238/1
Sehore	Ashta	Bedakhedi	26/1/3, 26/1/1, 350/26, 28, 32/2, 33, 45, 48/2, 48/1, 52, 51,53,58/1, 61, 74, 76,82/3, 82, 218/3, 218/2, 218/1, 217, 206, 203, 204, 202/2, 202/1, 201, 200, 198/1, 194/1/2, 194/1/1, 194/2, 193/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191/2, 131, 84/1 क, 84/1 ख, 84/1 ग, 84/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/1, 86/1, 86/2, 87	26/1/3, 26/1/1, 350/26, 28, 32/2, 33, 45, 48/2, 48/1, 52, 51,53,58/1, 61, 74, 76,82/3, 82, 218/3, 218/2, 218/1, 217, 206, 203, 204, 202/2, 202/1, 201, 200, 198/1, 194/1/2, 194/1/1, 194/2, 193/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191/2, 131, 84/1 क, 84/1 ख, 84/1 ग, 84/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/1, 86/1, 86/2, 87
Sehore	Ashta	Bamuliya Khinchi	208, 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/4, 213/2, 213/1, 214/6, 214/1, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1, 228/2, 228/5, 227/1, 236/2, 236/1, 238, 309, 311, 313, 314, 315/2, 315/3, 315/1, 320/2, 320/3, 320/8, 320/14, 320/4/3, 320/4/2, 320/4/1, 320/5, 320/7, 320/11, 320/10, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 327/5, 327/1, 327/2, 327/4, 327/3, 328, 330, 331	208, 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/4, 213/2, 213/1, 214/6, 214/1, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1, 228/2, 228/5, 227/1, 236/2, 236/1, 238, 309, 311, 313, 312, 314, 315/2, 315/3, 315/1, 320/2, 320/3, 320/8, 320/14, 320/4/3, 320/4/2, 320/4/1, 320/5, 320/7, 320/11, 320/10, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 327/5, 327/1, 327/2, 327/4, 327/3, 328, 330, 331
Sehore	Ashta	Sendhokhedi	61/3, 61/2, 61/1, 62/2, 62/1, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 64/1, 49, 60/2, 60/1, 59, 57/4, 57/1, 57/5, 66, 67, 68	61/2, 61/1, 62/2, 62/1, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 49, 60/2, 60/1, 59, 57/4, 57/1, 57/5, 66, 67, 68
Sehore	Ashta	Dalpatpura	104/1, 105/1ग/क, 105/1ग/ख, 105/1ग/ग, 105/1ग/घ, 108/2, 110/1, 110/3, 111, 56/1, 56/5, 56/4, 56/6, 54, 56/8 क, 56/9, 56/8 ख, 127/1, 129/1/1, 126, 129/1/2, 124/1, 124/2, 132, 119, 118/1, 118/2, 117, 116, 114/1, 113/1, 113/3, 114/1	104/1, 103, 105/1ग/क, 105/1ग/ख, 105/1ग/ग, 105/1ग/घ, 108/2, 110/1, 110/3, 111, 56/1, 56/5, 56/4, 56/6, 54, 56/8 क, 56/9, 56/8 ख, 127/1, 129/1/1, 126, 129/1/2, 124/1, 124/2, 132, 119, 118/1, 118/2, 116, 113/1, 113/3

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Ashta	Kilerama	31/1, 29/3, 29/4, 30/1, 22/1, 21, 19/3, 15/1, 15/3, 14/2, 40/2, 39/1, 40/1, 41, 58/1, 58/2, 58/3, 55/4, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 64/1, 65/1, 67/1, 67/2, 70/1, 71/1, 31/8, 31/4, 31/3, 30/3, 35, 36, 37/2, 86, 85, 82/1, 81, 82/3, 80/1, 80/4, 80/10, 80/9, 80/8, 77, 76/1, 76/2, 75/5, 75/2, 75/3, 75/6, 75/1, 75/4, 73/2, 73/1, 72	31/1, 29/3, 29/4, 30/1, 23/1, 22/1, 21, 19/3, 15/1, 16, 14/1, -, 14/2, 13, 40/2, 39/1, -, 41, 42, 58/1, 58/2, 58/3, 55/4, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 64/1, 65/1, 67/1, 67/2, 70/1, -, 31/8, 31/4, 31/5, 31/3, 32, 30/3, 35, 36, 37/2, 86, 85, 84, 82/1, 81, 82/3, 80/2, 80/1, 80/4, 80/10, 80/9, 80/8, 77, 76/1, 76/2, 75/5, 75/2, 75/3, 75/6, 75/1, 75/4, 73/2, 73/1, 72
Sehore	Ashta	Shahbajpura	72, 59/2, 56, 55, 54, 56, 87, 88/1, 72, 73, 78, 79, 51, 52, 48, 47, 46, 87, 88/1, 89/1	72, 59/2, 56, 55, 54, 56, 87, 88/1, 72, 73, 78, 79, 51, 48, 47, 46, 87, 86, 88/1, 89/1
Sehore	Ashta	Dorabad	43, 42, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 93, 94, 186/114, 944/2, 43, 48, 45/2, 46, 38, 37, 91, 93, 94, 186/114	42, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 93, 94, 186/114, 188/114, 944/2, 43, 48, 45/2, 46, 37, 91, 93, 92, 94, 186/114
Sehore	Ashta	Kajikhedi	118/1, 118/2, 140/1, 152/1, 151/4, 151/3, 159, 160, 172, 171, 170/3, 169, 118/1, 118/2, 140/1, 141/1, 152/2, 151/4, 151/3, 150, 172, 171, 170/2, 169	117/2, 118/2, 140/1, 152/1, 151/4, 151/3, 159, 160, 172, 171, 170/3, 169, 118/1, 120, 118/2, 119, 141/1, 141/2, 147/1, 151/4, 151/3, 149/1, 150, 172, 171, 170/2, 170/1, 169, 174
Sehore	Ashta	Alipur	5/2, 11/1, 11/2, 12, 15, 16/2, 20, 19, 21, 22/2, 23/1, 41, 40/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 14, 20, 44/1, 22/2, 44/2, 22/1, 23/1, 41	5/2, 11/1, 11/2, 12, 15, 16/2, 20, 18/2, 19, 21, 22/2, 23/1, 41, 40/2, 12, 13/2, 13/1, 14, 20, 44/1, 22/2, 44/2, 22/1, 23/1, 41
Sehore	Ashta	Bahadurpura	3/1 क, 3/2, 3/1, 195/3/1, 3/2, 195/3/2, 3/1, 195/4, 196/7, 3/1, 195/5, 8/1, 8/2, 8/3 क, 10, 9/1, 16-17/1, 6/2, 9/3-19/1, 9/3-19/4, 9/3-19/5	3/1 क, 3/2, 3/1, 195/3/1, 3/2, 195/3/2, 3/1, 195/4, 3/1, 195/5, 8/1, 8/2, 8/3 क, 10, 9/1, 16-17/1, 16-17/2/2, 9/3-19/1, 9/3-19/4, 9/3-19/5, 9/3-19/6, 9/3-19/8
Sehore	Ashta	Malipura	33, 36, 37, 221/64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76/2/3, 76/1क/5, 76/1ख/5, 78	33, 36, 37, 221/64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76/2/3, 76/1क/5, 76/1ख/5, 78
Sehore	Ashta	Chancharsi	5/7, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/3, 8/2, 16, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12	5/7, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/3, 8/2, 16, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12
Sehore	Ashta	Pagariya Chor	3, 3/1/2 क, 3/1/3, 3/25, 738/4/5, 738/4/4, 738/4/6, 307/1ख/3, 307/1/1, 100/1, 100/2, 101, 79/3, 79/1, 79/4, 79/2, 78/1, 76/1, 76/2, 75/2, 75/3, 70, 68-69/1, 68-69/2, 68-69/3, 67/1, 66/3, 26-27/7, 26-27/8, 26-27/4, 28/2, 722/49, 47, 46, 309, 307/1ख/2, 307/3, 100/1, 101	3, 3/1/2 क, 3/1/3, 3/25, 738/4/5, 738/4/4, 738/4/3, 738/4/6, 307/1ख/3, 307/1/1, 100/1, 100/2, 101, 79/3, 79/1, 79/4, 79/2, 78/1, 76/1, 76/2, 77, 75/2, 75/3, 74, 70, 68-69/1, 68-69/2, 67/1, 66/3, 26-27/7, 26-27/8, 26-27/4, 28/2, 722/49, 49, 47, 46, 309, 307/1ख/2, 307/2, 307/3, 100/1, 101
Sehore	Ashta	Mirjapur	14/2	14/2

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Ashta	Chirnota	140/1, 148/1, 149/1/2, 151/1 ख, 151/2, 152/1/1ग, 536/1/ क/1/2, 536/1/ क/2, 536/3/9 क, 536/5/3/9 ख, 536/5/3/2, 138/4, 139, 140/1-148/1-149/1/6, 140-148/1-149/1/2, 140/3, 148/1, 140/1-148/1-149/1/3, 140/1-148/1-149/1/4, 151/1 क 4, 151/1 ख, 151/2, 152/2 क, 152/2 ख, 152/2 ग, 152/2 घ, 536/1 क 2, 536/1 क 6, 536/5/2, 536/5/3/2, 536/5/3/3, 534/1-534/2/1 क, 144/1/1, 144/1/2, 144/2, 144/3, 542/145 क, 542/145 ख, 542/145 ग, 542/145 घ, 542/145 ङ	140/1, 148/1, 149/1/2, 151/1 ख, 151/2, 152/1/1ग, 536/1/ क/1/2, 536/1/ क/2, 536/3/9 क, 536/5/3/9 ख, 536/5/3/2, 138/4, 139, 140/1-148/1-149/1/6, 140-148/1-149/1/2, 140/3, 140/1/9, 148/1, 140/1-148/1-149/1/3, 140/1-148/1-149/1/4, 151/1 क 4, 151/1 ख, 151/2, 152/2 क, 152/2 ख, 152/2 ग, 152/2 घ, 536/1 क 2, 536/1 क 6, 536/5/2, 536/5/3/2, 536/5/3/3, 534/1-534/2/1 क, 534/1-534/2 ख, 144/1/1, 144/1/2, 144/2, 144/3, 542/145 क, 542/145 ख, 542/145 ग, 542/145 घ, 542/145 ङ
Sehore	Ashta	Hakimpur	419/1/1, 477/1/5/1, 477/1/1, 477/5/1, 477/5/2, 479	419/1/1, 477/1/5/1, 477/1/1, 477/5/1, 479
Sehore	Ashta	Rupeta	1/2, 1/1, 167/1/24, 3/1	1/2, 1/1, 167/1/24, 3/1
Sehore	Ashta	Phoodra	709/13/1, 711, 709/1/2, 711, 709/13/3	709/13/1, 711, 709/1/2, 711, 709/13/3
Sehore	Ashta	Dondi	351/6 ख, 351/6 क 351/7, 351/6/1 क, 351/6 घ, 353/1 घ, 353/1/1/1/1, 353/1/1/1/2, 353/21/1, 353/18/1, 353/5/1, 353/6/1, 353/15/1, 353/14/1, 353/13, 353/1/2, 353/24/1, 353/24/5, 353/24/4, 73/2, 73/1, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3, 84/2, 84/1, 85/1-87/2, 87/1/1/1, 87/1/1/1/3, 88/1, 90/2, 90/7, 90/6, 90/4, 92/1, 94/1, 94/2, 251/6, 251/5, 251/4, 254-255-256/1 घ, 254-255-256/1 क, 256/14, 260/1, 262/5/1, 336/248, 349/2, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 277, 273, 275, 274-279, 251/8, 257/1, 257/2, 257/3, 260/4, 260/2, 339-345/1, 339-345/2, 346/1, 346/2, 347/1/1, 349/4, 355/2/1, 355/2/2, 355/3/1, 355/3/3, 355/3/4, 355/5/1, 355/5/3, 355/5/2, 355/5/6, 355/7, 355/8, 353/14/3, 353/24/3, 355/17/1, 355/17/2	351/6 ख, 351/6 क 351/7, 351/6/1 क, 351/6 घ, 351/6 छ, 353/1 घ, 353/1/1/1/1, 353/1/1/1/2, 353/21/1, 353/4, 353/18/1, 353/5/1, 353/9, 353/2/1/1, 353/6/1, 353/15/1, 353/14/1, 353/13, 353/1/2, 353/24/1, 353/24/5, 353/24/4, 73/2, 73/1, 74/2, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3, 84/2, 84/1, 85/1-87/2, 89/4, 88/1, 90/1, 90/2, 90/4, 92/1, 97, 94/2, 94/2, 251/6, 251/5, 251/4, 251/3, 254-255-256/1 घ, 254-255-256/1 ख, 254-255-256/1 क, 256/14, 256/16, 260/1, 262/3, 262/5/1, 336/248, 349/2, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 277, 276, 273, 275, 274-279, 251/8, 257/1, 257/2, 257/4, 257/3, 258, 260/4, 292, 243, 240-241, 339-345/1, 339-345/2, 339-345/6, 339-345/5, 339-345/4, 338, 336/1, 346/2, 347/1/1, 349/4
Sehore	Ashta	Kakriyakhedi	351/6 ख, 351/6 घ, 351/6 च, 233-235/8, 233-235/2, 234/3, 233-235/3, 233-235/4, 233-235/5, 233-235/6, 233-235/7, 236, 237/2, 238/9, 238/8, 238/7, 238/10, 238/6, 238/5, 246/1/1, 244/1/1/2, 244/1/1/1, 244/17, 244/16	351/6 ख, 351/6 घ, 351/6 च, 233-235/8, 233-235/2, 234/3, 233-235/3, 233-235/4, 233-235/5, 233-235/6, 233-235/7, 236, 237/2, 238/9, 238/8, 238/7, 238/10, 238/6, 238/5, 246/1/1, 244/1/1/2, 244/1/1/1, 244/17, 244/16

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Ashta	Jhilela	9, 10/2, 9, 10/1, 7-31/2, 17, 19, 21, 23, 24, 26/3, 22, 28, 29, 52, 67, 66, 65, 68/3, 68/1, 69, 72, 72/2, 73, 75, 76, 110/1, 112, 113, 110/2, 108, 109, 114/2/6, 108, 109/5, 114/2/4, 107/1/1, 107/1/2, 106/1/1 क, 106/1/1 ख, 106/1/2, 106/1/3, 106/1/4, 106/1/5, 106/1/6, 106/1/7, 105/1, 103/1, 105/1, 104, 99-100/1, 99-100/2, 99-100/3, 98/1, 98/2, 98/3, 96, 94/2, 94/1, 93/4, 92/1, 92/2, 93/3, 92/3, 93/1, 90/2, 90/1, 89, 88/1, 87/1, 78-85-86/10, 78-85-86/9, 78-85-86/8, 78-85-86/7, 78/1ख, 78/1क, 78/2क, 79	9, 10/2, 9, 10/1, 7-31/2, 17, 19, 21, 23, 24, 26/3, 22, 28, 29, 52, 67, 66, 65, 68/3, 69, 72, 72/2, 73, 74, 75, 76, 110/1, 112, 113, 110/2, 108, 109, 114/2/6, 108, 109, 114/2/3, 107/1/1, 107/1/2, 107/2, 106/1/1 क, 106/1/1 ख, 106/1/2, 106/1/3, 106/1/4, 106/1/5, 106/1/6, 106/1/7, 103/1, 105/1, 105/1, 104, 99-100/1, 99-100/2, 99-100/3, 99-100/5, 98/2, 98/3, 96, 94/2, 94/1, 95, 92/1, 92/2, 93/3, 92/3, 93/1, 93/2, 91/1, 91/2, 90/2, 90/1, 89, 88/1, 88/2, 87/2, 87/1, 210, 78-85-86/10, 78-85-86/9, 78-85-86/8, 78-85-86/7, 80-86/2ख, 78-86/2ग, 78/1ख, 78/1क, 78/2क, 79
Sehore	Ashta	Bhaukhedi	31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 33/1, 36/1 क, 37, 58, 56, 60, 61, 55, 62, 64, 65, 66, 67	31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 33/1, 36/1 क, 37, 58, 56, 60, 61, 55, 62, 64, 65, 66, 67
Sehore	Ashta	Guradiya banda	3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 5, 7/2, 8/2, 9/3, 10/2, 11/1, 11/2, 282/2/1, 282/2, 282/2 ख, 282/3, 282/12, 37/3, 37/2, 41/1, 41/2, 42, 40-59/1, 60/2, 39/2, -, 39/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70-71-72/1, 70-71-72/2, 70-71-72/3, 73/1, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95-94/3, 281/192, 191, 192	3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 5, 7/2, 8/2, 9/3, 10/2, 10/1, 11/2, 11/3, 282/2/1, 282/2, 282/3, 282/12, 37/3, 37/2, 41/1, 41/2, 42, 44, 43, 40-59/1, 60/2, 39/2, 61, 39/1, 69/1, 68/3, 69/2, 69/3, 70-71-72/1, 70-71-72/2, 70-71-72/3, 73/1, 73/2, 92/1, 92/3, 92/2, 93, 94/1, 91/1, 94/2, 95-94/3, 281/192, 191, 192, 193/1
Sehore	Ashta	Bhavkheda	69, 70/1, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 74/1ग, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 75, 76/2, 79, 80, 81/1, 126, 127, 128/1/1	69, 70/1, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 74/1ग, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 75, 76/2, 78, 79, 80, 81/1, 126, 127, 128/1/1
Sehore	Ashta	Shekhukheda	450, 455, 462/2, 463, 464, 441/2, 441/1/2, 441/1/1, 442, 591/441, 598/439/4, 598/439/1, 437/3, 437/2, 436/2, 437/1 क, 435/3 क, 435/3 ख, 435/2, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322, 327, 328/2, 332/2, 330, 343/2, 345, 344/1, 374/345, 576/348/2 ख, 348/1/2 ख, 348/3, 349/348/578, 350/2, 359, 363, 364/1, 364/2/2, 360, 361, 362, 363, 364/1, 634/2/10, 363, 364, 364/2/1ख, 363, 364/1 364/2/1 ग, 366, 417, 412, 413/2/1, 412, 413/2/2, 476/1, 476/3, 476/4, 472, 473, 471, 470/1, 470/2, 470/3470/4 468/1 467, 466, 500, 501, 504, 594/505/2, 594, 505/1, 505/5 ग, 505/5 ख, 513, 514, 515, 430, 429, 431, 428, 426/1, 425, 426/3, 427/1, 426, 427, 425/4, 423/2, 421/3, 420/6, 596/420/1/1, 420/1, 596/420, 420, 596/420/1/2, 420, 596/420/1/3, 420/4, 420/5, 420/2, 420/16, 420/8, 420/12, 584/420/2, 535/420	450, 455, 462/2, 462/1, 457/3, 463, 464, 441/2, 441/1/2, 441/1/1, 442, 591/441, 439/2, 598/439/4, 598/439/1, 437/3, 436/1, 437/2, 436/2, 437/1 क, 436/3 क, 436/3 ख, 435/3 क, 435/3 ख, 435/2, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322, 327, 328/2, 328/1, 332/2, 332/1, 330, 343/2, 345, 344/1, 374/345, 576/348/2 ख, 348/1/2 ख, 348/3, 349/348/578, 350/2, 359, 363, 364/1, 364/2/2, 360, 361, 362, 363, 364/1, 634/2/10, 363, 364, 364/2/1ख, 363, 364/1 364/2/1 ग, 366, 417, 414/1/1, 412, 413/1, 412, 413/2/1, 412, 413/2/2, 476/1, 476/3, 476/4, 472, 473, 471, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 468/1, 467, 466, 500, 501, 504, 594/505/2, 594, 505/1, 505/5 ग, 505/5 ख, 513, 514, 515, 430, 429, 431, 428, 426/1, 425, 426/3, 427/1, 426, 427, 425/4, 423/2, 421/3, 420/6, 596/420/1/1, 420/1, 596/420, 420, 596/420/1/2, 420, 596/420/1/3, 420/4, 420/5, 420/2, 420/16, 420/8, 420/12, 584/420/2, 535/420

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Ashta	Guradiya Manda	14, 15, 16, 20, 21, 23,24,25,26/1 ख, 1, 43/1 क, 44/1, 44/2, 46/6, 66/5, 66/4, 63, 64/1/क/1, 63, 64/1/क/2, 68, 69, 70, 71, 132/72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 97/2, 98/3, 98/2, 98/1 ख, 98/1 क, 118, 119/3, 119/1, 119/2, 120/4, 120/1, 134/122, 122/5	14, 15, 16, 20, 21, 23,24,25,26/1 ग/2, 43/1 क, 44/1, 44/2, 66/5, 66/4, 63, 64/1/क/1, 63, 64/1/क/2, 68, 69, 70, 71, 132/72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 97/2, 97/1, 98/3, 98/2, 98/1 ख, 98/1 क, 118, 119/3, 119/1, 119/2, 120/4, 120/1, 134/122, 122/5
Sehore	Ashta	Mehatwada	458, 456, 445/2, 444, 443, 442, 441, 440, 437/2, 432/1, 430, 429, 420, 421, 418, 415, 414/1, 413, 1318/412, 409, 204, 202, 205, 206, 249, 250, 248, 247/1, 246, 255, 233, 232, 1295/259, 311, 310, 307, 308, 309, 347, 352, 354, 1117, 1119, 1122, 1199/2, 1124, 1096, 1124, 1095, 1127, 1130/1, 1130/2, 1132, 1133, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 441, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 492/1, 491/1, 491/2, 494, 496/1, 496/2, 495, 498, 499, 400, 502, 503, 135/504, 504, 537, 538, 411/3, 411/2, 411/5, 410/2, 406/1, 406/2, 407/2, 407/3, 203/1, 203/2, 203/3, 205, 1207/251/1, 251/2, 251/1, 255/2, 255/1, 254, 256, 223/2, 257, 239, 259, 260, 258-316/1, 312, 310/2, 313, 346, 350/1, 350/2, 347/1, 347/2, 352/1, 352/2, 354/2, 1115/1, 1115/2, 1114/1, 1119, 1109/1, 1109/2, 1120-1121/2, 1100/1, 1100/2, 1098, 1094, 1097, 1087, 1150, 1149, 1148/1, 1147/1, 1143, 1142, 1141, 1140-1142-1143-1144-1145/1, 1138/2, 1038/1	458, 456, 455, 445/2, 451, 1319/446, 444, 443, 442, 440, 437/2, 432/1, 433, 434, 429, 428, 421, 418, 415, 414/1, 413, 414/2, 1318/412, 409, 202, 201, 206, 249, 248, 246, 255, 233, 232, 1295/259, 311, 307, 308, 309, 347, 352, 11/8, 354, 1122, 1199/1, 1124, 1096, 1124, 1095, 1127, 1126, 1131/2, 1130/1, 1132, 1133, 1135/1, 1135/2, 1136/2, 441, 460-462/3, 460-462/2, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 487/2487/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 492/1, 492/2, 491/2, 493, 494, 496/1, 496/2, 495, 497, 498, 499, 400, 501, 502, 505, 135/504, 504, 537, 538, 544/1, 411/2, 411/5, 410/2, 406/1, 406/2, 407/2, 407/3, 203/1, 203/2, 203/3, 205, 1207/251/1, 1207/251/2, 251/2, 251/1, 251/3, 254, 256, 223/2, 257, 239, 260, 258-316/2, 258-316/1, 312, 313, 346, 350/1, 350/3, 350/4, 347/1, 352/1, 351, 1299/352, 354/2, 1115/1, 1115/2, 1114/1, 1114/2, 1119, 1109/1, 1109/2, 1120-1121/2, 1100/1, 1100/2, 1101/1, 1098, 1094, 1097, 1087, 1150, 1149, 1147/1, 1143, 1142, 1141, 1140-1142-1143-1144-1145/1
Sehore	Ashta	Kundiya Dhaga	498/3, 498/2, 498/4, 500/1/1, 500/5/2, 500/3, 501, 502/3, 498/5, 500/5/2, 501, 502/1/5, 501, 502/1/2, 501, 502/1/2/3	498/3, 498/1, 498/2, 498/4, 500/1/1, 500/5/2, 500/3, 501, 502/3, 498/5, 500/5/2, 501, 502/1/5, 501, 502/1/2, 501, 502/1/2/3
Sehore	Ashta	Semaliwari	298/111, 15/1/1, 15/1/3 ख, 15/1, 16/2, 18/1, 19, 25/2, 25/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 27/1, 37, 39/1, 41, 42, 48, 47, 52, 103, 104/2, 103, 104/1, 94, 100/2, 111/4, 111/2, 304/111, 114, 140/1, 140/2, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 147, 148-149/1, 148-149/2, 219, 229/1, 229/2, 227-230/1, 227-230/2, 231/2/1, 232/1, 232/2, 233, 103-104/1, 103-104/3, 102/2/2 ख, 101, 99/3	298/111, 15/1/1, 15/1/3 ख, 15/1, 15/2, 16/2, 16/1, 18/1, 19, 24, 25/2, 25/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 27/1, 37, 39/1, 43, 42, 44, 47, 52, 53, 103, 104/2, 103, 104/1, 94, 111/4, 111/2, 304/111, 301/111, 300/111, 114, 140/1, 140/2, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 145, 147, 148-149/1, 148-149/2, 219, 229/1, 229/2, 227-230/1, 227-230/2, 226/1, 231/2/1, 231/2/2, 232/1, 232/2, 233, 236, 103-104/1237/2, 103-104/3, 102/22 ख, 100/1, 101, 99/3,
Sehore	Ashta	Pagariya Ram	311/2, 311/1, 3/4, 109, 64, 63, 62, 61, 60, 59/1, 56, 723/56, 55, 54, 52, 53	311/2, 311/1, 3/4, 109, 63, 62, 61, 60, 59/1, 56, 723/56, 54, 52, 53

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Sehore	Ichhawar	Bhadakhedi	94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 99, 106, 107, 108, 113/8, 129/1, 129/3, 125, 126	94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 99, 106, 107, 108, 113/8, 129/1, 129/3, 125, 126
Sehore	Ichhawar	Amlaha	292/1, 292/2/1, 292/2/2, 300/1/2, 300/2, 300/1/6, 301, 302/2/2, 303, 336, 337, 332/5, 271/1, 271/4/4, 271/4/3, 271/4/2, 271/4/1, 270/1, 269, 268, 266, 265, 251, 215, 214, 213, 212, 210, 208, 205/9, 205/8, 205/1, 204, 205/2/1, 205/2/2, 203/1, 203/2, 203/3, 202, 201/2, 201/1, 354/1, 354/2, 354/3, 354/5, 352/1/4, 352/2, 352/1/3, 353, 351, 347, 348/1/1, 348/1/2, 348/2, 348/3, 346/1, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 344/1, 344/3, 343, 338, 342, 385, 400, 402, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/12, 408, 409, 450, 451, 452, 453, 454, 456/1, 476/1, 494, 495, 498, 500, 508/1	292/1, 292/2/1, 292/2/2, 300/1/2, 300/2, 300/1/6, 301, 302/1/14, 302/1/1, 303, 336, 337, 332/2, 332/3, 332/5, 271/1, 271/4/4, 271/4/3, 271/4/2, 271/4/1, 270/1, 269, 268, 266, 265, 251, 215, 214, 213, 211, 212, 210, 208, 205/9, 205/8, 205/1, 205/2/1, 205/2/2, 203/1, 203/2, 203/3, 202, 201/2, 201/1, 354/1, 355/1, 354/2, 354/3, 354/5, 354/6, 352/1/4, 352/2, 352/1/1, 352/1/3, 353, 348/1/1, 348/1/2, 348/2, 348/3, 346/1, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 344/1, 344/3, 343 - 342, 341, 340/3, 340/2, 340/1, 385, 400, 402, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/12, 407/13, 408, 409, 450, 451, 452, 453, 455/3, 455/1, 456/1, 476/1, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 508/1
Dewas	Sonkatch	Doulatpur	503, 504, 505, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 473/1, 473/5, 473/7, 473/2, 472, 471/6, 471/5, 471/4, 471/3, 471/2, 470, 443, 442, 438, 427, 425, 426, 387, 386, 385, 384, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 362, 361, 359, 358, 357, 356, 354, 353, 352/2, 352/1, 351/1, 351/2, 350, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 794, 795, 797, 798, 799, 803, 804/1, 804/2/1, 804/2/2, 805/1, 805/2, 805/3, 806/3, 806/2, 806/1, 807, 850, 532, 531, 534, 535, 536, 548, 549/1, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 561, 562, 623/1, 624, 625, 626, 633, 634, 698, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 717, 716, 732/1/2, 792/1, 792/2, 793, 794	503, 504, 505, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 473/1, 473/5, 473/7, 473/2, 472, 471/6, 471/5, 471/4, 471/3, 471/2, 470, 443, 442, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 362, 361, 359, 358, 357, 356, 354, 353, 352/1, 351/1, 351/2, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 794, 795, 797, 798, 799, 803, 804/1, 804/2/1, 804/2/2, 805/1, 805/2, 805/3, 806/3, 806/2, 806/1, 807, 850, 532, 531, 533, 534, 535, 537, 548, 549/1, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 561, 562, 622, 623/1, 623/2, 624, 626, 627, 633, 634, 698, 699, 700, 701, 702, 706/1, 714, 722, 718, 717, 716, 732/1/2, 792/1, 791, 792/2, 793, 794, 716, 425, 387
Dewas	Sonkatch	Agera	377, 451, 453, 456, 458, 459, 463, 465, 466/3, 466/2, 467, 470, 471, 472, 162, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483/3, 355/1, 356/1, 357/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 369/1, 370/1, 377/1/2, 378, 379/1, 452/1, 451/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 460, 463/1, 465/1, 466/3/1, 466/4, 466/2/1, 467/1, 470/1/1, 471, 473, 474, 475, 481/1, 482/1/1, 482/2/1, 482/3/1, 483/1/1, 483/2/1, 483/3/1, 485, 486, 488, 489, 505, 506, 512, 516, 517, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583/1, 587, 588/3, 589/1, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 605	377, 451, 453, 456, 458, 459, 463, 465, 466, 466/3, 466/2, 467, 470, 162, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483/3, 355/1, 356/1, 357/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 369/1, 370/1, 371/1, 377/1/2, 378, 379/1, 452/1, 451/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 460, 463/1, 465/1, 466/2, 466/3/1, 466/4, 466/2/1, 466/1, 467/1, 468/2, 469/2, 470/1/1, 471, 473, 474, 475, 481/1, 482/1/1, 482/2/1, 482/3/1, 480/3, 483/1/1, 483/2/1, 483/3/1, 485, 486, 488, 489, 505, 506, 507, 512, 516, 517, 518, 519, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 583/1, 583/2, 587, 588/3, 589/1, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 605

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dewas	Sonkatch	Pilwani	115, 116, 117, 119, 118, 128, 129, 130, 161, 206, 207/1, 207/2, 207/3, 208, 210, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 253, 254, 255, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 216	113/1, 115, 116, 117, 114, 113/2, 119, 118, 128, 129, 130, 161, 206, 207/1, 205, 207/2, 207/3, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 218, 219/1, 219/2, 229/2, 229/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 216
Dewas	Sonkatch	Karadiya Gada	686/1, 690/1, 612, 611/3, 610/1, 608/1, 605, 602/1, 599/1, 598/1, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 532/1, 675/3, 697, 693, 694, 695, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 754, 758, 759, 762/1, 762/2, 772, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2	686/1, 688, 690/1, 613, 614, 612, 611/1, 611/3, 610/1, 608/1, 607, 605, 603, 601, 602/1, 599/1, 598/1, 595/4, 595/3, 597/1, 596, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 539, 532/1, 675/3, 697, 693, 694, 696, 695, 701, 703, 702, 704, 705, 715, 706/1, 706/2, 754, 758, 759, 760, 762/1, 762/2, 773, 772, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2
Dewas	Sonkatch	Sonkatchhi	11, 12, 13, 14, 48, 52, 53, 59, 60, 60, 71/1, 71/2, 71/3, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 183, 11/1, 12/1, 13/1/2, 14/2, 48/1, 52/1, 53/1, 59/1/2, 60/1, 70/1, 72/1, 72/2, 175/1, 176/1, 178/1, 179/1, 181/1, 182/1, 184/1, 101/1	11, 12, 13, 14, 48, 52, 53, 59, 60, 61, 60, 71/2, 71/3, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 183, 11/1, 12/1, 10/2, 13/1/1, 10/1, 14/2, 48/1, 47, 49, 52/1, 53/1, 54, 59/1/2, 60/1, 61, 70/1, 72/2, 175/1, 176/1, 178/1, 179/1, 180, 181/1, 182/1, 183, 184/1, 101/1
Dewas	Sonkatch	Sonkatch	358/1, 358/2, 356/1, 353/3, 352/6, 352/1, 265/2, 266/4, 266/1, 266/2, 329/1, 266/3, 268, 328/1, 273, 274/1, 276/2, 277/1, 277/2, 272/1, 322/1, 321, 307/2, 307/1, 601, 602/1, 605, 604/3, 604/2, 625, 626, 624, 627	358/1, 358/2, 356/1, 353/3, 352/6, 352/1, 265/2, 266/4, 266/1, 266/2, 329/1, 266/3, 268, 328/1, 273, 274/1, 276/2, 277/1, 277/2, 272/1, 322/1, 321, 307/2, 307/1, 601, 602/1, 605, 604/3, 604/2, 625, 626, 624, 627
Dewas	Sonkatch	Sanwer	77/1, 77/2, 252/2, 253/3, 253/1, 254, 256/1, 255, 258, 259, 260, 261/1, 262/1, 269/1, 268, 270/1, 280/2, 280/3, 282/1, 283/2, 284, 292/1, 293/1, 294/1, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 135/1, 139/2, 140/2, 140/1, 249, 250, 248, 247, 241, 242, 245, 476/1, 477/1, 478/1, 481, 486/2, 486/1, 454/1, 428, 379/2, 379/1, 379/3, 380/1, 381, 417/1, 416/1, 415/1-414/1, 407, 406, 546/1, 295/3, 276/3, 477/3, 478/4, 487, 486/3, 491, 454/3, 418/1, 427, 426, 424, 425, 419, 417/3, 414/3, 545/3, 546/3	77/1, 77/2, 252/2, 253/3, 253/1, 254, 256/1, 255, 258, 259, 260, 261/1, 262/1, 263, 269/1, 268, 270/1, 280/2, 280/1, 280/3, 282/1, 283/1, 283/2, 284, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 135/1, 139/2, 140/2, 140/1, 249, 250, 248, 247, 241, 242, 245, 476/1, 477/1, 478/1, 479, 481, 486/2, 484, 486/1, 485, 454/1, 428, 379/1, 379/3, 380/1, 381, 382, 417/1, 416/1, 415/1-414/1, 412/1, 413, 407, 406, 405, 404, 546/1, 295/3, 276/3, 477/3, 478/4, 487, 486/3, 489, 491, 454/3, 427, 426, 424, 425, 419, 417/3, 420, 414/3, 545/3, 546/3

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dewas	Sonkatch	Rolupipliya	1040, 1041, 1042, 738, 1045, 1044, 1043, 1047, 1050, 1053, 1026, 1056, 1058, 1062, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1070, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092/2, 1092/1, 1093, 1040/1, 1034, 1041/1, 1033/1, 1033/2, 1042/1, 1043/2, 1044/1, 1031, 1045/1, 1047/1, 1050, 1052/1, 1051, 1053/1, 1026/1, 1056/1, 1057, 1058/1, 1062/2, 1064/1, 1063, 1065/3, 1067/1, 1067/3, 1070/1, 1071/1, 1079/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094/1, 1097, 1098, 1099, 1100, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1157, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/1, 1201/3, 1208, 1209, 1210, 1211, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234	1040, 1041, 1042, 738, 1045, 1044, 1043, 1047, 1050, 1053, 1026, 1056, 1058, 1062, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1070, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092/2, 1092/1, 1093, 1040/1, 1034, 1041/1, 1033/1, 1033/2, 1042/1, 1043/2, 1044/1, 1031, 1045/1, 1046, 1029, 1050, 1052/1, 1051, 1026/1, 1057, 1058/1, 1062/2, 1062/1, 1063, 1065/4, 1066/2, 1066/3, 1067/1, 1070/1, 1069, 1072, 1073, 1074, 1079/1, 1078, 1080/1, 1090/1, 1089, 1091/1, 1092/1, 1093, 1094/1, 1087, 1097, 1098, 1099, 1100, 1124, 1122, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1134, 1135, 1137, 1136, 1138, 1157, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/1, 1201/3, 1208, 1209, 1214, 1210, 1213, 1212, 1211, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1237/2, 1235/2,
Dewas	Sonkatch	Phawda	155, 156, 157, 167, 168, 169, 170, 176, 175, 177, 174, 184, 185, 186, 187, 193, 192, 195, 194, 196, 199, 234, 233, 231, 230, 243, 245/1, 247, 287, 292, 294, 295, 296, 317, 319, 314, 649, 648, 647, 646, 642, 641, 627, 626, 625, 624, 623/1, 623/2, 622, 570, 569, 568, 567/1, 567/2, 567/3, 566/1000, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 562/1002, 559, 555, 554, 553, 552, 551, 402, 400, 399, 397, 398, 396, 395, 394, 358, 321, 322, 323,	155, 156, 157, 158, 167, 168, 166, 169, 170, 176, 177, 178, 174, 184, 183, 185, 186, 187, 188, 193, 192, 194, 196, 199, 234, 247, 287, 292, 294, 295, 296, 317, 319, 314, 649, 648, 647, 646, 642, 641, 627, 628, 626, 625, 624, 623/2, 622, 570, 569, 576, 568, 578, 567/1, 567/2, 567/3, 566/1000, 566, 565, 564, 563, 561, 560, 559, 556, 557, 558, 554, 553, 552, 551, 402, 473, 430, 403, 400, 399, 383, 384, 398, 396, 391, 395, 394, 358, 321, 322, 326, 325, 323,
Dewas	Sonkatch	Araniya Jagir	346/765, 304/1, 303, 302, 301, 290, 282/5/1, 268, 363, 362, 359, 355, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 393/4, 393/3, 393/2, 387, 395, 391, 392, 390, 389, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 315, 312, 313, 310, 309, 305, 308, 311, 307, 298, 299, 292, 282/3, 271, 266, 267, 254, 253, 252, 251, 239, 349, 237, 236, 235, 466, 227, 468, 471, 472, 474, 477, 479	346/765, 347, 304/1, 303, 302, 301, 290, 266, 265, 364, 363, 362, 359, 355, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 393/4, 393/3, 393/2, 394, 387, 395, 391, 392, 390, 337, 389, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 315, 312, 313, 310, 309, 305, 308, 311, 111, 307, 297, 298, 299, 296, 292, 293, 282/3, 271, 266, 265, 254, 253, 252, 251, 239, 349, 237, 236, 235, 227, 468, 469, 470, 471, 475, 477, 476, 478, 479
Dewas	Sonkatch	Khonpipariya	197, 195, 194, 192, 188, 187/1, 187/2, 186/1, 186/2, 177/2, 177/3, 176, 175, 174, 171, 170, 169, 166, 165, 164, 154/4, 154/1, 152, 151, 146, 145, 128, 127, 96, 97, 95, 87, 86, 88, 85, 81, 80, 38, 743, 755, 756/1, 756/2, 757, 768, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 751/1	197, 195, 194, 192, 188, 187/1, 186/1, 186/2, 177/2, 177/3, 176, 175, 174, 171, 169, 166, 165, 164, 154/4, 154/1, 152, 151, 146, 145, 128, 127, 96, 97, 95, 87, 88, 85, 81, 80, 38, 743, 755, 756/1, 756/2, 757, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 751/1

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dewas	Sonkatch	Bhourasa	462, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 793/2, 493/3, 493/4, 675, 664/2, 665/5, 664/3, 664/4, 646/1, 464/2, 644-645, 643, 638, 629/1, 628/1, 627, 618/4, 618/7, 618/5, 618/1, 619/1, 622/1, 619, 619/3/2, 620/1, 621/2, 622/1, 602, 601/2, 601/1, 600, 598, 1911, 1912/1, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1905/2, 1905/1, 1904, 1980, 1979, 1974/2, 1974/1, 1967/1, 1967/2	462, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 793/2, 493/3, 493/4, 675, 664/2, - , 664/3, 664/4, 646/1, 464/2, 644-645, 643, 638, 629/6, 628/1, 627, 618/4, 618/7, 618/5, 618/1, 619/1, 622/1, 619, 619/3/2, 620/1, 621/2, 622/1, 602, 600, 598, 1911, 1912/1, 1910, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1905/2, 1905/1, 1904, 1980, 1967/1, 1967/2
Dewas	Sonkatch	Sumrakhedi	480, 481, 482, 492, 493/1, 500/1, 500/2, 500/3, 501, 647, 645, 665	456, 480, 481, 482, 492, 493/1, 500/1, 500/2, 500/3, 499, 501, 647, 645, 665, 664, 663, 662, 661
Dewas	Sonkatch	Pipalya	199/2, 200/3, 199/1, 203, 204/1, 205/1, 205/3, 208, 209, 290, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 361, 382/1, 382/2, 390, 391, 392, 393, 496, 494, 516, 517, 518, 521, 524, 525, 536, 537, 538, 737/1, 737/2, 740, 741, 802, 811, 800, 812, 799, 798, 781, 782, 783, 785/2, 784	200/2, 200/1, 200/3, 203, 204/1, 205/1, 205/3, 205/2, 207, 224, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 362, 361, 364/1, 382/1, 382/2, 390, 383, 391, 392, 394, 393, 496, 497, 494, 517, 518, 521, 524, 525, 536, 537, 538, 535, 737/1, 737/2, 738, 740, 741, 803, 802, 811, 800, 812, 813, 799, 798, 781, 782, 783, 785/2, 784
Dewas	Dewas	Jamgod	468, 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 777/2, 777/1, 778, 752, 753, 751, 750/5, 750/4, 750/3, 749/1101, 749, 747/2, 746, 745, 744, 740, 739, 738, 736, 735, 734, 733/1, 100/1, 101, 102, 103, 105, 106, 126/1, 127, 128, 129, 125, 130, 131, 132, 134, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 343, 342, 341, 197, 198, 199, 200, 196, 195, 194/2, 193/1, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 190/2, 190/1, 189/1, 189/2, 188/1, 188/2, 187/1, 187/2, 180/4, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 229, 230, 343, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 795, 794, 793, 792, 790, 789/2/2, 789/2/1, 789/2/3, 788, 781/1, 781/2, 785, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 779/2	468, 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 777/2, 777/1, 778, 752, 753, 751, 750/5, 750/4, 750/3, 749/1101, 749, 747/1, 746, 745, 744, 740, 739, 738, 736, 735, 734, 733/1, 100/1, 101, 102, 103, 105, 106, 126/1, 125, 130, 131, 132, 134, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 343, 342, 341, 197, 198, 199, 200, 196, 195, 194/2, 194/1, 193/1, 205, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 190/2, 190/1, 189/1, 189/2, 188/2, 187/2, 180/4, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 229, 230, 343, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 795, 794, 793, 792, 790, 789/2/2, 789/2/1, 789/2/3, 788, 787, 781/1, 781/2, 785, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 779/2
Dewas	Dewas	Khatanba	409/1, 405, 408/2, 407/1, 407/3, 392/4, 392/1, 392/2, 392/3, 391/2, 391/3/2, 387, 393/2, 364/3, 364/4, 365/4, 363/1, 363/2, 361/1, 357/2, 360, 359/1, 359/2, 358/2, 339/2, 338/1, 337/1, 334/2/1, 334/1, 332/1, 331, 314/1, 315, 313, 312/1, 309/1, 308/1, 307/1, 311/1, 311/2, 310, 306/2, 275/2, 274/1, 273/1, 272, 271, 278, 269/1, 267/1, 266/2, 266/9, 248, 278/1/3, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/6, 413/5, 413/3, 413/4, 413/2, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 443/2, 443/1, 447, 448, 449, 450, 463, 464, 465, 466, 463, 474, 475/2, 476, 477, 662, 766, 678/1/1, 680/2/1, 680/2/2, 681/1, 682/1, 682/2/1, 697/1/1, 697/4/1, 697/2/1, 698/2, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 762, 753, 752, 755/2, 751, 750, 747/5, 747/2, 749/1,	405, 408/2, 407/1, 407/3, 407/4, 392/1, 392/2, 392/3, 391/2, 391/3/1, 391/3/2, 387, 393/2, 365/2, 364/3, 364/4, 365/1, 365/3, 365/4, 363/1, 363/2, 361/1, 357/2, 360, 359/1, 358/1, 339/2, 339/1, 338/1, 337/1, 334/1, 335, 332/1, 331, 315, 313, 312/1, 309/1, 308/1, 307/1, 311/1, 311/2, 310, 306/2, 305, 276, 277, 278, 269/1, 267/1, 266/2, 266/9, 248, 278/1/3, 278/1/2, 411/1, 411/2, 412, 428, 429/1, 229/2, 413/1, 413/6, 413/5, 413/3, 426, 425, 413/4, 413/2, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 443/2, 443/1, 447, 446, 450, 451, 463, 462, 464, 465, 466, 463, 474, 475/2, 476, 477, 478, 662, 766, 678/1/1, 680/2/1, 680/2/2, 681/1, 682/2/1, 697/1/1, 697/4/1, 697/2/1, 698/2, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 762, 753, 752, 755/2, 751, 750, 747/5, 747/2, 749/1,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			749/2, 748, 747/1, 747/4, 747/3, 747/2, 742, 741, 740, 737/4/1, 737/4/2/2, 737/4/2/3, 737/4/2/4, 737/4/2/5, 738/1, 738/2, 738/5, 735, 731, 730, 728, 727, 726/2, 726/3, 725, 724, 723, 722, 960/1, 960/2	682/1, 682/2/1, 697/1/1, 697/4/1, 697/2/1, 698/1, 712/1, 717/1, 719/2, 719/1, 720/1, 765, 763, 762, 753, 754, 755/1, 755/2, 751, 746, 745, 747/2, 747/1, 747/4, 747/3, 747/2, 742, 741, 740, 737/4/1, 737/4/2/2, 737/4/2/3, 737/4/2/4, 737/4/2/5, 738/1, 738/2, 738/5, 735, 736/2, 736/1, 734, 733, 732/1, 732/2, 731, 730, 728, 727, 726/2, 726/3, 725, 724, 723, 722, 960/1, 960/2
Dewas	Dewas	Jaitpura	88/3, 88/4, 89, 90, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/1, 106/2, 106/3, 106/4, 105, 146/2, 147/1, 147/3, 147/2, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 151/1, 151/2, 153/2, 154/5, 154/2, 156, 372/509, 372/2, 372/1, 372/3, 368/1, 368/2, 367, 365, 364, 357, 350, 349, 348/2, 348/1, 348/1/1, 348/1/2, 348/1/4, 348/1/3, 347/1, 345/2, 345/1, 344/1, 380/2, 380/3, 380/4, 379/2, 380/6, 379/2, 379/1, 379/2, 379/5, 378, 376, 375, 374, 382/7, 384, 411, 413, 414, 416, 417/1, 380/5, 417, 433, 432, 434, 435, 471/3, 471/2, 472, 474, 475, 497, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 501/5, 502/4, 502/1/1, 502/2/1, 502/3, 506	88/1, 88/3, 88/4, 88/2, 89, 90, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/1, 106/2, 106/3, 106/4, 105, 146/2, 146/1, 147/1, 147/3, 147/2, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 151/1, 151/2, 153/2, 154/5, 153/3, 154/2, 154/4, 156, 372/509, 372/2, 372/1, 372/3, 368/1, 368/2, 367, 365, 364, 357, 350, 349, 348/2, 348/1, 348/1/1, 348/1/2, 348/1/4, 347/1, 345/2, 345/3, 345/1, 344/1, 380/2, 380/3, 380/4, 379/2, 380/6, 379/2, 379/1, 379/2, 379/5, 378, 376, 377, 375, 374, 382/7, 384, 411, 413, 414, 416, 417/1, 380/5, 417, 418, 432, 434, 435, 471/2, 471/1, 472, 474, 476, 475, 497, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 501/5, 502/4, 502/1/1, 502/2/1, 502/3, 506

V)

Part-“A”

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Lebad-Manpur Four lane (SH-31)	34.30	Dhar, Indore

Part-“B”

Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40 m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Dhar	Lebad	256/1, 255, 253/4, 253/3	256/1, 255, 253/4, 253/3
Dhar	Dhar	Kalsada Khurd	332/1, 329/2, 398/1, 399, 400, 401, 1, 2, 3/1, 4/1, 404/1, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 323, 324, 288, 279/2, 279/2/1/1, 279/2/2, 279/1/1/2, 279/1, 285/1, 287, 289/2, 331	285/2, 332/1, 329/2, 394/1, 398/1, 399, 400, 401, 1, 2, 3/1, 4/1, 404/1, 404/2, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 323, 324, 288, 279/1, 285/1, 287, 289/2, 331, 279/2/क/4, 279/2/ग/1, 279/2/ख/1/1/1, 279/2/ख/1/1/2, 279/2/ख/1/2

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Dhar	Aikalduna	1, 3, 15/1, 29/1/1, 22, 72, 58, 55/1, 73/3/1, 186/1, 186/2/1, 186/2/2, 83/1, 185, 182, 177, 146, 157, 159/2/2, 159/2/1, 122, 18/1, 4/1, 20/1, 20/2, 70/2, 70/1, 65, 57, 73/3/2, 74/1, 74/2, 188, 187, 83/2, 184, 183, 58, 85/2, 180/1, 180/2, 176/1, 175, 152/1, 152/2, 153, 154, 155,	1, 3, 29/1/1, 24/2, 22, 73/1/1, 72, 69, 56, 58, 55/1, 55/2, 73/1/2, 73/3/1, 189, 186/1, 186/2/1, 186/2/2, 186/2/3, 83/1, 185, 182, 145/5, 178, 177, 176/2, 146, 151, 157, 159/2/1, 122, 2, 18/1, 4/1, 20/1, 20/2, 24/1, 71, 70/2, 70/1, 65, 57, 73/3/2, 74/1, 188, 187, 184, 183, 58, 85/2, 180/1, 180/2, 176/1, 175, 152/2, 153, 155, 154,
Dhar	Dhar	Najdeek Badoda	130/2, 130/1, 132/1/2, 136, 82, 81, 28, 34/1, 34/2, 33, 20/1/6, 21, 9/4, 8/4, 7/4, 9/2, 9/3, 22, 32, 78, 81, 137, 136, 135/1, 133/1, 132/2, 132/3, 219/3, 220, 221/1, 131/2, 135/2/1	130/2, 130/1, 132/1/2, 123/6, 136, 82, 34/1, 34/2, 34/3, 20/2/2, 20/2/1, 33, 20/1/6, 20/1/2, 21, 9/4, 8/3, 8/4, 7/4, 9/2, 9/3, 22, 32, 34/3, 78, 60, 81, 137, 136, 135/1, 133/1, 132/2, 132/3, 209, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221/1, 131/2, 135/2/1
Dhar	Dhar	Karondiya	105/2, 105/3, 105/4, 106, 103/2, 102/1, 103/5, 143/2, 143/1, 143/4, 175, 176/1, 176/2, 172, 171, 169/4, 168/1, 203, 204/1/1, 204/2/2/2, 204/2/1, 204/2/3, 210/2, 211, 206/2, 206/1, 165, 167, 169/2, 168, 173, 145, 142/2, 143/3/1, 142/1, 141, 103/1/1, 108/3, 108/2, 108/1, 109, 140, 143/3/2, 169/3, 204/2/1/1, 166/1, 170/1	105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 103/2, 103/5, 143/1, 143/4, 175, 176/2, 172, 171, 169/4, 168/1, 203, 204/1/1, 204/2/2/2, 204/2/1, 204/2/3, 210/2, 211, 216, 206/2, 206/1, 165, 167, 169/1, 169/2, 173, 145, 142/1, 103/1/1, 108/3, 108/2, 108/1, 109, 140, 143/3/2, 169/3, 204/2/1/1
Dhar	Dhar	Digthan	48, 49/1, 47, 46, 45, 12/1, 37, 43, 44, 13, 31, 39, 35, 33, 56/1, 56/2, 66, 64, 56/2, 59/1, 62, 60, 108, 109, 110, 114/1, 243, 162, 208, 193, 189, 222, 224, 680/2, 676, 670/2, 672, 670/1, 678, 643, 642, 636, 637, 635, 424, 425, 618, 427, 433, 406, 405, 455, 454, 456, 404, 449, 460, 461, 452, 468, 465, 467, 403, 177, 226, 189, 179/2, 223, 224, 222, 164, 106, 466/1, 466/2, 645, 680/1, 674	48, 49/1, 47, 46, 45, 12/1, 43, 44, 14, 13, 42/39, 35, 56/1, 52, 56/2, 66, 64, 56/2, 59/1, 62, 108, 109, 110, 114/1, 243, 210/2, 162, 208, 172, 171, 193, 217, 216, 189, 222, 224, 680/2, 676, 675, 670/2, 672, 670/1, 678, 637, 643, 642, 636, 635, 424, 425, 618, 427, 433, 467, 406, 405, 455, 454, 456, 404, 449, 460, 461, 452, 468, 465, 467, 403, 177, 226, 189, 179/2, 223, 224, 222, 164, 106, 674, 680/1, 645, 190, 634, 191/2
Dhar	Dhar	Piplyakhas	312/5, 311, 308, 258, 251, 252, 253, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 111, 86, 89, 90, 312, 87, 83, 84, 80, 79, 109/3, 112, 116, 115, 129, 130, 133, 134, 256, 254, 137/1, 137/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 246, 247, 312/3	312/5, 312/4, 311, 310/1, 308, 258, 251, 252, 253, 271, 260, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 107/2, 110, 111, 109/1, 86, 89, 90, 91, 312, 87, 83, 82, 84, 80, 79, 78, 109/3, 112, 117, 120, 115, 129, 130, 132, 133, 134, 256, 254, 137/1, 137/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 246, 247, 312/3
Dhar	Dhar	Aabukhedi	25/1, 24/1, 24/2, 30, 26/3, 32, 34, 31, 26/1, 26/2	25/1, 24/1, 24/2, 30, 26/3, 32, 34, 35, 31, 26/1, 26/2
Dhar	Dhar	Maharajkhedi	331/2/2, 331/3, 331/2/1, 339/1, 331/4, 347/4, 342/1, 343, 355/1, 346, 331/1	331/2/2, 331/3, 331/2/1, 339/1, 331/4, 347/4, 342/1, 343, 355/1, 346, 331/1
Dhar	Dhar	Rayand	118/1, 129, 128, 130/2/1/1, 130/2/1/2, 130/2/2, 131, 132/2, 136/1, 137, 138/3/2, 149, 150, 151/1, 152, 163/1, 163/2, 166, 168, 169/2, 169/1, 170, 125, 126/1, 120/2, 119/1, 120/1,	118/1, 129, 128, 130/2/1/1, 130/2/1/2, 130/2/2, 131, 132/2, 136/1, 137, 138/3/2, 149, 150, 151/1, 152, 163/1, 163/2, 166, 168, 169/2, 169/1, 170, 125, 126/1, 120/2, 119/1, 120/1

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Dhar	Billod	16/1, 15/2, 18, 20, 15/1, 15/5/1, 39, 15/5/2, 33, 34, 28/2, 70, 69, 67, 63, 55/2, 73, 66, 64, 109, 110, 121, 112, 118, 116, 119/2, 120, 111, 113, 114, 148, 149, 151, 156, 160, 146, 145/1, 144, 153, 154, 143/1, 161, 163/2, 164/1, 362/1, 361/1, 360, 359, 357, 356, 355/1, 355/2, 352, 351/4, 351/2, 570, 689/1, 689/5, 690, 349, 147, 343/3,	16/1, 15/2, 18, 20, 15/1, 15/5/1, 39, 15/5/2, 33, 34, 28/2, 70, 69, 67, 63, 55/2, 73, 66, 64, 109, 110, 121, 112, 118, 117, 116, 122, 119/1, 119/2, 111, 113, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 159, 160, 146, 145/1, 144, 153, 154, 143/1, 161, 163/2, 164/1, 362/1, 361/1, 360, 359, 357, 356, 355/1, 355/2, 344/2/1/1, 352, 351/1/1, 351/1/2, 351/4, 351/2, 689/1, 689/2, 689/4, 689/5, 690, 349, 147, 343/3,
Dhar	Dhar	Naibaroda Mandoli	1, 2, 3/2, 4, 5, 18, 38/3, 17/1/2, 17/1/3, 37, 36, 35, 33, 20/1, 21, 22, 28, 52, 6, 29, 53, 51, 55, 30/1, 115, 116, 117, 120, 32, 54	1, 2, 3/2, 4, 5, 18, 38/3, 17/1/2, 17/1/3, 37, 36, 35, 33, 20/1, 21, 22, 28, 52, 6, 29, 53, 51, 55, 30/1, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 32, 54
Dhar	Dhar	Naibaroda Kanoongo	91, 96/1, 98/1, 100, 112/2, 113, 211/2, 211/1, 209, 207/1, 207/2, 239, 242/1, 210, 93, 94, 89, 242/2, 207/3, 95, 97, 114, 212, 208, 201, 240, 241, 99, 175, 243/1, 243/2, 214, 112/3	91, 96/1, 98/1, 100, 112/2, 113, 211/2, 211/1, 209, 207/1, 207/2, 239, 242/1, 210, 93, 94, 89, 242/2, 207/3, 95, 97, 114, 212, 208, 201, 240, 241, 99, 175, 191/2, 243/1, 243/2, 214, 112/3
Indore	Mhow	Khedi	325/1, 23/3, 23/2, 324/1, 24, 14, 93, 28, 90/2, 91, 282, 283/1, 283/2, 284, 288, 281, 277, 275, 271, 272, 270/3, 269, 268/2, 268/1, 263/1/1, 381/1, 382/1, 377, 363/1/1, 263/1/1, 285, 264/1, 284/5, 284/5/1, 285/4, 272, 285/3, 285/2, 324/2, 327/1, 303, 23/4, 269/527	325/1, 23/3, 23/2, 324/1, 24, 93, 28, 90/2, 90/3, 91, 284, 281, 277, 276, 275, 271, 272, 270/2, 270/3, 269, 268/2, 268/1, 263/1/1, 381/1, 382/1, 377, 363/1/1, 285, 264/1, 264/2, 287, 286, 288/2/2, 324/3, 325/2, 325/3, 339, 327/1, 23/4, 302, 303,
Indore	Mhow (Dr. Ambedkar Nagar)	Sehod	294/3, 294/1, 298, 300, 301, 302, 303, 293/6, 293/16, 293/2/2, 293/17, 293/14, 293/15, 294/1/अ, 293/1/क, 293/1/1/ख, 293/1/1/ग, 293/1/1/घ, 293/1/1/प, 293/1/1/द, 293/1/1/न,	294/3, 294/1, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 293/6, 293/16, 293/2/2, 293/17, 293/14, 293/15, 294/1/अ, 293/1/क, 293/1/1/ख, 293/1/1/ग, 293/1/1/घ, 293/1/1/प, 293/1/1/द, 293/1/1/न,
Indore	Mhow	Durjanpura	19/370/3, 196/1/1/3, 196/4, 196/1/2, 191/2/1, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 139/1/1, 139/1/2, 139/1/3, 140, 141, 136/1/2, 136/2, 136/1/3, 136/1/4, 136/1/1, 130, 133/1/1, 128/1, 128/2, 126/1, 126/2, 123/2, 123/1, 119/1, 83/4, 81/2, 81/1, 80/2, 79/369, 30/376, 29/2, 29/1, 28/2, 28/1, 20/3, 20/2, 19/370/2, 191/2/2, 125, 80/1,	19/370/3, 196/1/1/3, 196/4, 196/1/2, 191/2/1, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 139/1/1, 139/1/2, 139/1/3, 140, 136/1/2, 136/2, 136/1/3, 136/1/4, 136/1/1, 130, 133/1/1, 128/1, 128/2, 126/1, 126/2, 123/2, 123/1, 119/1, 81/2, 81/1, 80/2, 79/369, 30/376, 29/2, 29/1, 28/2, 28/1, 20/3, 20/2, 18, 191/2/2, 125, 80/1,
Indore	Mhow	Sherpur	102/1, 102/2, 101/1/2, 98, 95/1, 95/2, 96, 79, 80, 74, 70, 207, 209, 208, 212/2, 214, 215, 216/2, 221/2, 222, 224, 223, 234, 241/2, 243, 245, 248/4, 248/3, 248/2, 252, 253, 267, 213, 54, 57, 69, 68, 67, 66, 62/2, 83, 89, 90, 91/2, 93, 85, 100, 50/1, 50/3, 62/1, 216/1, 219/3,	102/1, 102/2, 102/3, 101/1/2, 103, 98, 95/1, 95/2, 96, 121, 122, 125, 79, 80, 77, 74, 71, 70, 207, 209, 205, 206, 212/2, 196, 214, 215, 216/2, 221/2, 222, 224, 223, 233, 234, 241/2, 243, 248/4, 248/3, 248/2, 252, 253, 267, 213, 54, 56, 57, 69, 68, 67, 66, 62/2, 83, 89, 90, 91/2, 93, 85, 100, 50/1, 50/3, 62/1, 216/1, 219/3

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Indore	Mhow	Manpur	162, 161, 159, 158, 160, 157/2, 155, 181, 150/1, 149, 216/6, 216/3, 216/4, 216/5/1, 216/5/2, 217, 212, 210, 207, 201/1, 208/1, 199, 200, 198, 308/1, 308/2, 308/4, 315/1, 171, 182, 307, 308/3,	162, 161, 159, 158, 160, 157/2, 155, 181, 150/1, 149, 222, 183/3, 216/6, 216/3, 216/4, 216/5/1, 216/5/2, 217, 212, 211/1, 210, 209, 207, 201/1, 208/1, 199, 200, 198, 308/1, 308/2, 308/4, 315/1, 171, 182, 307, 308/3,

VI)

Part-"A"

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Mhow-Ghata-Billod Four lane (SH-27)	27.00	Dhar, Indore

Part-"B"

Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40 m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Indore	Mhow	Mhowgaon	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 710, 709, 708, 707, 706, 727, 728, 720, 717, 712, 713, 714, 715, 714/868, 679, 70, 704, 703, 702, 701, 690, 691, 692, 693, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 438, 437, 440, 439, 678, 784, 676, 674, 673, 582, 581, 583, 579, 578, 442, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 577, 573, 574, 515, 514, 511, 510, 509, 503, 489, 490, 494, 493, 491, 486, 487, 488, 359, 502, 498, 461, 504, 580, 675, 455	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 710, 709, 708, 707, 706, 727, 728, 720, 717, 712, 713, 714, 715, 714/868, 679, 70, 704, 703, 702, 701, 690, 691, 692, 693, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 438, 437, 440, 439, 678, 784, 676, 674, 673, 582, 581, 583, 579, 578, 442, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 577, 573, 574, 515, 514, 516, 518, 513, 511, 510, 509, 503, 489, 490, 494, 493, 491, 486, 487, 488, 359, 502, 506, 498, 461, 504, 580, 675, 455
Indore	Mhow	Bhatkhedi	317, 316, 318, 319, 332, 331, 330, 316, 314/3, 314/7, 336/1/1, 336/1/3, 336/1/2/1, 336/1/2/2, 334, 333, 440/1, 441, 442/1, 450, 459/1, 459/2, 451, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 533/1, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 322/2, 321/2/5, 321/3/2, 320, 321/1/2,	317, 316, 318, 319, 332, 331, 330, 316, 314/3, 314/7, 336/1/1, 336/1/3, 336/1/2/1, 336/1/2/2, 334, 333, 440/1, 441, 442/1, 450, 459/1, 459/2, 451, 467/2, 468/1, 468/2, 467/2, 468/1, 468/2, 468/3, 533/1, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 322/2, 321/2/5, 321/3/2, 320, 321/1/2, 321/1/1, 335
Dhar	Dhar	Pithampur	422, 421/1/1, 421/3/1, 420/1/1, 420/2/1, 415, 416, 414, 413, 402, 400, 399, 392/1/1, 392/1/2, 392/1/3, 391/2/1, 391/2/2, 376, 377, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 324, 325/1, 325/2, 326, 369, 368, 367, 366, 364, 363, 522, 523, 524, 521, 518, 519, 517, 515, 514, 513, 322, 301, 308, 111, 114, 115, 140, 142, 143, 144, 145, 97	422, 421/1/1, 421/3/1, 420/1/1, 420/2/1, 415, 416, 414, 413, 402, 400, 399, 392/1/1, 392/1/2, 392/1/3, 391/2/1, 391/2/2, 376, 377, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 323, 324, 325/1, 325/2, 326, 369, 368, 367, 366, 364, 365, 363, 522, 523, 524, 521, 518, 519, 517, 515, 514, 513, 322, 301, 308, 111, 114, 115, 140, 142, 143, 144, 145, 97
Dhar	Dhar	Aakolya	1/1, 3, 4/1/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 19/1, -, 18, 19, 20/1, 21, 24, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 52, 81, 88/1/1, 90, 91, 93, 96, 109, 97, 98, 99, 100, 101	1/1, 2, 3, 4/1/1, 10/1, 10/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 19/1, 16, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 52, 81, 88/1/1, 89, 90, 91, 93, 96, 109, 97, 98, 99, 100, 101

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Dhar	Dhar	Bardari	58/1, 59, 61, 63, 64, 70/1, 75, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 220, 328, 327, 420, 421, 422, 423, 329, 418, 419, 416, 417, 415, 414, 413, 330, 331, 326, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 364	58/1, 59, 61, 63, 64, 65, 70/1, 71, 78, 75, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 220, 328, 327, 420, 421, 422, 423, 329, 418, 419, 416, 417, 415, 414, 413, 412, 330, 331, 326, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 363, 364
Dhar	Dhar	Kheda	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 30, 31, , 32, 33, 34, 35, 42, 51, 54, 59, 168, 169, 171, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 96, 122, 123, 121, 124, 119, 118, 126, 125, 134, 136, 137, 135, 880, 879, 138, 139, 140, 142, 143, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 97, 95	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 22, 32, 33, 34, 35, 42, 50, 51, 54, 59, 168, 169, 170, 171, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 96, 122, 123, 121, 120, 124, 119, 118, 126, 125, 134, 136, 137, 135, 880, 879, 138, 139, 140, 142, 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 168, 97, 95
Dhar	Dhar	Sagaur	130, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139/1, 139/3, 145, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142, 143, 147, 136, 121, 122	130, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139/1, 139/2, 139/3, 145, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142, 143, 147, 148, 136, 121, 122
Indore	Depalpur	Kali Billod	45, 44, 46, 66	45, 44, 46, 66
Dhar	Dhar	Bagdoon	242, 241, 243, 244, 251/1, 251/2, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 271, 274, 278, 279/2, 279/1, 279/3, 282/2, 280, -, 281, 310, 311, 312, 324, 325, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 342	242, 241, 243, 244, 251/1, 251/2, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 271, 273, 274, 278, 279/2, 279/1, 279/3, 95/2, 95/3, 95/7, 95/9, 282/2, 280, 283, 281, 310, 311, 312, 324, 325, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Dhar	Dhar	Mandlawda	154/1, 156, 157/1, 158, 159, 161/1, 161/2, 162/2/1, 162/2/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 244, 245, 246, 242, 243, 241, 240, 236, 231, 279, 278, 277, 275, 273, 272, 270/1/1/1, 260, 247/1/1, 248, 249, 229, 230, 154/2	154/1, 154/2, 155, 156, 157/1, 158, 159, 161/1, 161/2, 162/2/1, 162/2/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 244, 245, 246, 242, 243, 241, 240, 236, 231, 279, 280, 278, 277, 275, 273, 272, 270/1/1/1, 260, 247/1/1, 248, 249, 282, 283, 229, 230
Indore	Depalpur	Methwada	28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/8, 41, 44, 45, 385, 378, 370, 369, 368, 371, 367, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 452, 559, 561, 560, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 548/1, 578/1, 578/2/6, 578/2/7, 577, 576, 562, 447, 448, 450, 451, 426, 425, 423, 377, 376, 374, 373, 372, 382	26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 41, 44, 45, 385, 378, 370, 369, 368, 371, 366, 49, 367, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 452, 557, 559, 561, 560, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 548/1, 550/3, 578/1, 578/2/5, 578/2/8, 578/2/6, 578/2/7, 577, 576, 562, 447, 448, 450, 451, 426, 425, 424, 423, 377, 376, 374, 375, 373, 372, 382

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
Indore	Depalpur	Ghatabilod	1, 2/1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 22/1, 22/5, 22/2/1, 22/6, 22/2/2, 22/2/3, 22/8, 21, 18/1, 167, 45, 44/1, 43/1, 42, 41, 37, 36, 30, 29,27, 25, 24, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 26,186/5	1, 2/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22/1, 22/5, 22/2/1, 22/6, 22/2/2, 22/2/3, 22/8, 18/1, 167, 45, 44/1, 44/4, 44/2, 43/1, 42, 41, 37, 36, 30, 29,27, 25, 24, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 26, 65,186/5,21

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

रीवा, दिनांक 16 जून 2014

क्र. 154-भू-अर्जन-2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

यह वाराणसी-नागपुर मार्ग बहुत पहले से ही निर्मित है, केवल फ्लाई ओव्हर के कारण चौड़ाई बढ़ाना है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खुटेही 135	0.0066	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा	सिरमौर चौराहा फ्लाई ओव्हर के सर्विस रोड का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय से देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 9 मई 2014

संशोधित अधिसूचना

क्र. क-भू.अ.वि. अ.-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ	बटियागढ	6.21	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सागर (म.प्र.)	दमोह-बटियागढ-बक्सवाहा-हीरापुर मार्ग के बटियागढ बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य बाबत्.
		योग . .	<u>6.21</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सागर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 28 मई 2014

प्र. क्र. 227-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेंदूखेड़ा	नरगुवां	1.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	नरगुवां जलाशय में नहर निर्माण हेतु.
		तेंदूखेड़ा	0.38		
		भौंडी	0.10		
		योग . .	<u>2.47</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालनयंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 30 मई 2014

पत्र क्र. 390-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्वहन योजना की बघमड़ा शाखा नहर एवं उप शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बघमड़ा 410	0.983	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रमांक 2, देवलोद मु. गोविन्दगढ़, रीवा.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर एवं उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 12 जून 2014

पत्र क्र. 521-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथंडा वितरक नहर की गजगवां माइनर नं. 1 का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गौरइया	0.780	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	पथंडा वितरक नहर की गजगवां माइनर नं. 1 का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 जून 2014

पत्र क्र. 532-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथंडा वितरक नहर की खम्हरीया एवं बम्हौरी माइनर की निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	बम्हौरी	5.46	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथंडा वितरक नहर के बम्हौरी एवं खम्हरीया माइनर 5.46 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 534-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथण्डा वितरक नहर की मलगांव माइनर की निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	मझियार	2.87	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथंडा वितरक नहर के मलगांव माइनर 2.87 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 536-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथण्डा वितरक नहर की खम्हरीया एवं बम्हौरी माइनर की निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	मलगांव	6.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथण्डा वितरक नहर के मलगांव माइनर 6.80 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 538-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	धुंधचिहाई	4.10	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथण्डा वितरक नहर के 4.10 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 540-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथण्डा वितरक नहर की मलगांव माइनर की निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	चूली	2.20	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथण्डा वितरक नहर के मलगांव माइनर 2.20 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 542-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गोरइया	2.115	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथण्डा वितरक नहर के 2.115 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 544-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	खम्हरिया	4.15	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	पथण्डा वितरक नहर के 4.15 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 जून 2014

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरवंशपुरा	निजी भूमि रकबा 1.72 है एवं शासकीय भूमि रकबा 16.88 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब सिंचाई योजना अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 18.60 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मझगावां छक्का	निजी भूमि रकबा 9.02 है एवं शासकीय भूमि रकबा 2.41 है। <u>कुल रकबा 11.43 है।</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पिपरिया दौन	निजी भूमि रकबा 18.96 है एवं शासकीय भूमि रकबा 5.39 है। <u>कुल रकबा 24.35 है।</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	बोदा	निजी भूमि रकबा 14.36 है एवं शासकीय भूमि रकबा 2.05 है। <u>कुल रकबा 16.41 है।</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दांथी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 012-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	घैरी	निजी भूमि रकबा 13.79 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 12.96 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 26.75 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सिमरा बहादुर	निजी भूमि रकबा 26.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.68 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 32.63 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 9 जून 2014

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष-12-13-भू-अर्जन-4148.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	माण्डवी	1.285	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल.	ढोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष-12-13-भू-अर्जन-4149.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	ढोडखेड़ा	1.420	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल.	ढोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष-12-13-भू-अर्जन-4150.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	सावंगी	3.383	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल.	ढोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष-12-13-भू-अर्जन-4151.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	गुनखेड़ा	2.510	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल.	ढोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष-12-13-भू-अर्जन-4152.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	घुटीगढ़	0.202	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल.	बैतूल-आठनेर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सदर बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष-13-14-भू-अर्जन-4153.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	बडोरा	0.020	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल.	बैतूल-आठनेर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सदर बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 8 मई 2014

रा.मा.प्र. क्र. 30 अ-82-वर्ष-2013-14-पत्र क्र. 164-165-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—सडूमर, नं. बं. 424, प. ह.नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.370 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
304	0.220 (यूबवैल एक)
301/1	0.150
योग : 0.370	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सडूमर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कलेक्टर नरसिंहपुर के कक्ष क्रं. 84 (भू-अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 9 मई 2014

क्र. भू-अर्जन-12-(अ-82) 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नैनपुर
(ग) ग्राम—सरापिपरिया, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.21 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
442	0.06
444	0.06
454	0.09
योग . . . 0.21	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुल-पहुंच मार्ग के उन्नयन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 27 मई 2014

क्र. भू-अर्जन-14-82-83-एस.डी.ओ. शाजापुर-प्र. क्रं. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—गुलाना

(ग) ग्राम—पोलायखुर्द		(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—3.542 हेक्टेयर.			
सर्वे	क्षेत्रफल जो		
क्रमांक	अर्जन होना है		
	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
554/1	0.105	1647	0.038
557/1	0.050	1648	0.003
557/1	0.050	1635	0.058
1061	0.015	1636	0.037
1065/2	0.027	1704	0.005
1065/3	0.028	1706/1/2	0.008
1066	0.010	1707	0.012
1067	0.005	1708	0.146
1069	0.065	1716	0.021
1071	0.010	1700	0.031
1076	0.005	1858, 1859	0.041
1077	0.012	1860	0.033
1079	0.062	1867/2	0.079
1080/1	0.005	1875/2	0.010
1092, 1093	0.037	1866/2	0.104
1094	0.054	1869/2	0.021
1096	0.071	1868	0.020
1105/2	0.062	1887/2/2	0.008
1283	0.054	1890/3/1	0.047
1285	0.048	1896	0.008
1289	0.070	1897/2	0.020
1290/1	0.072	1908/2	0.018
1316	0.035	1910/2	0.010
1317/1	0.038	1911/2, 1912/2	0.025
1317/2	0.015	1928/1/2	0.075
1323/3, 1328/3	0.125	1928/3	0.025
1390/2	0.012	1909/3	0.010
1391/2	0.105	2645/1, 2646/1	0.050
1392	0.042	2645/2, 2646/2	0.075
1389/2	0.005	2650/2/1	0.050
1396/2	0.005	2650/2/2	0.050
1396/4	0.020	2647	0.033
1396/3	0.217	2648/1	0.104
1397	0.021	2643	0.020
1623	0.027	2722/1	0.021
1637/1, 1638/1	0.083	2722/2	0.020
1643/3	0.104	2723/1	0.038
1644/2/1	0.059	2723/2	0.039
1644/2/4	0.058	2765	0.096
1642	0.041	2766	0.010
1650	0.062	1888/3/1	0.021
1651	0.038	कुल योग . .	3.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खाम तालाब की नहर हेतु, ग्राम पोलायखुर्द की नहर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 29 मई 2014

प्र. क्र. 147-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—चकरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
854	0.07	निजी भूमि
842	0.01	निजी भूमि
793/1	0.02	निजी भूमि
844	0.01	निजी भूमि
845	0.08	निजी भूमि
847/1	0.02	निजी भूमि
848	0.02	निजी भूमि
850	0.04	निजी भूमि
793/2	0.02	निजी भूमि
851	0.02	निजी भूमि
822	0.02	निजी भूमि
823	0.02	निजी भूमि
826	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
821	0.01	निजी भूमि
792	0.01	निजी भूमि
793/3	0.02	निजी भूमि
776/2	0.15	निजी भूमि
354	0.03	निजी भूमि
355	0.12	निजी भूमि
364	0.02	निजी भूमि
365	0.02	निजी भूमि
366	0.09	निजी भूमि
367	0.12	निजी भूमि
311	0.01	निजी भूमि
394/1	0.01	निजी भूमि
395/1	0.02	निजी भूमि
461	0.07	निजी भूमि
394/2	0.02	निजी भूमि
395/2	0.05	निजी भूमि
399	0.07	निजी भूमि
404	0.08	निजी भूमि
433	0.09	निजी भूमि
485	0.09	निजी भूमि
486	0.02	निजी भूमि
488	0.02	निजी भूमि
489	0.02	निजी भूमि
494	0.02	निजी भूमि
495	0.07	निजी भूमि
496	0.01	निजी भूमि
497	0.05	निजी भूमि
501	0.02	निजी भूमि
505	0.02	निजी भूमि
504	0.11	निजी भूमि
510	0.03	निजी भूमि
511	0.01	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किय जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 31 मई 2014

क्र. क्यू-भू-अर्जन-891.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—छिरारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.48 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

492

0.10

507/1

0.04

515

0.08

516

0.05

517

0.01

782/1, 782/2

0.10

804

0.10

योग . . 0.48

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-892.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—नरौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.67 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

44

0.28

45

0.04

46

0.11

68

0.03

76

0.06

77

0.10

78

0.10

375

0.04

376

0.03

377

0.07

379

0.18

381

0.065

382

0.065

383

0.07

388

0.20

389

0.11

392

0.13

429/1, 429/2

0.04

430

0.02

432

0.08

433

0.14

511

0.06

907

0.34

910

0.20

933

0.01

934

0.02

935

0.05

945

0.25

946

0.32

956

0.09

957

0.09

970

0.19

972

0.16

989

0.26

995

0.18

996

0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
997/1	0.02	286	0.04
1000	0.30	287	0.04
1066	0.18	288	0.03
1067	0.08	312	0.02
1068	0.03	355	0.02
1070	0.07	357	0.14
1071	0.08	363	0.22
1072	0.13		
1076	0.22		
1091	0.11		
1092	0.18		
1093	0.08		
1095/2	0.11		
1113/17	0.04		
1125/2	0.21		
2260	0.03		
2264	0.03		
2309/2	0.12		
2311/1, 2311/2	0.33		
2311/3/2 मिन-1			
	योग . .	योग . .	0.54
	6.67		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-893.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—संलग्न

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—कूबरी (ग्वालिया)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.54 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
285	0.03

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-894.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—संलग्न

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—छिरारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.20 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
296	0.11
298	0.05
299	0.01
302	0.04
314	0.03
315	0.08
316/1	0.33
316/2	0.20
317/2	0.01
316/4	0.33
316/3	0.17

(1)	(2)
316/5	0.11
316/6	0.37
348/1	0.01
365	0.08
371/2	0.02
372	0.05
373	0.09
374	0.12
375	0.04
376	0.02
715	0.08
732	0.19
733	0.12
744	0.05
1097	0.14
1099	0.22
1101	0.11
1121	0.02
योग . .	3.20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 जून 2014

क्र. 484-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—ऊसरगाँव 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.800 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)
(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

162 0.800
योग . . 0.800

(ब) शासकीय भूमि

निरंक
महायोग . . 0.800

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 488-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—देउपा 266
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.398 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)
(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1 0.706
2 0.256
3 0.230
38 0.240

(1)	(2)
42	0.270
48	0.282
57	0.279
58	0.075
योग . .	<u>2.338</u>

(ब) शासकीय भूमि

39	0.060
योग . .	<u>0.060</u>
महायोग . .	<u>2.398</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 486-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—बघेड़ी 377
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.738 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

(अ) निजी पट्टे की भूमि

94	0.138
95	0.150
96	0.450
योग . .	<u>0.738</u>

(ब) शासकीय भूमि

निरंक

महायोग . . 0.738

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 490-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—खटिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.340 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

(अ) निजी पट्टे की भूमि

77	0.160
योग . .	<u>0.160</u>

(ब) शासकीय भूमि

76	0.180
योग . .	<u>0.180</u>
महायोग . .	<u>0.340</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 492-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योथर

(ग) ग्राम—पंछा 293

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.450 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

144

0.450

योग . . 0.450

(ब) शासकीय भूमि

निरंक

महायोग . . 0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 12 जून 2014

क्र. 496-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—पिपराछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.00 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया

(हे. में)

(1)

(2)

184

0.040

185

0.112

188

0.053

189

0.290

190

0.065

164

0.124

192

0.036

193

0.130

197

0.222

195

0.304

196

0.040

246

0.177

248

0.036

249

0.085

245

0.004

247

0.850

241

0.012

257

0.077

258

0.053

256

0.155

255

0.159

282

0.061

281

0.085

280

0.142

265

0.016

266

0.049

267

0.065

268

0.024

269

0.065

279

0.117

276

0.113

277

0.111

275

0.128

योग . . 4.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 500-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के
अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—पिपरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.244 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया

(हे. में)

(1)

(2)

223

0.142

222

0.028

227

0.036

228

0.112

506

0.024

349

0.135

348

0.024

505

0.024

350

0.056

342

0.166

340

0.125

338

0.158

337

0.012

336

0.102

319

0.178

320

0.101

321

0.117

322

0.101

323

0.151

(1)

(2)

308

0.113

327

0.056

328

0.135

306

0.090

305

0.101

297

0.098

304

0.004

300

0.044

298

0.218

299

0.004

295

0.060

287

0.120

286

0.092

263

0.040

264

0.239

265

0.255

282

0.092

276

0.120

275

0.020

277

0.551

योग . . 4.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 502-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के
अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—झकौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.215 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
390	0.049
70	0.449
71	0.166
101	0.377
103	0.020
72	0.182
102	0.166
100	0.227
109	0.117
110	0.040
111	0.644
112	0.040
124	0.045
402	0.040
125	0.061
126	0.247
205	0.085
204	0.170
202	0.004
203	0.154
186	0.134
187	0.101
183	0.097
181	0.166
214	0.004
180	0.085
-	0.028
213	0.012
178	0.020
177	0.036
176	0.004
175	0.004
-	0.061
171	0.004
172	0.174
योग . .	<u>4.215</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 504-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के
अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—खम्हरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.053 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
359	0.105
365	0.316
364	0.105
380	0.020
411	0.036
410	0.518
236	0.085
237	0.126
234	0.291
235	0.012
233	0.283
231	0.644
230	0.036
436	0.474
योग . .	<u>3.053</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 506-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—रिमारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.179 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
5	0.069
59	0.119
6	0.036
7	0.183
8	0.104
14	0.126
9	0.069
13	0.062
10	0.085
11	0.106
50	0.085
51	0.057
27	0.077
49	0.178
66	0.134
65	0.143
64	0.151
47	0.073
45	0.036
76	0.121
77	0.133
79	0.008
78	0.160
80	0.012

(1)	(2)
96	0.024
95	0.109
97	0.090
93	0.121
98	0.081
99	0.045
92	0.080
91	0.100
100	0.024
89	0.024
90	0.154
योग . .	<u>3.179</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 508-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—मेहुती
(घ) क्षेत्रफल लगभग—18.22 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
3	0.392
4	0.173
5	0.302
6	0.232
13	0.591

(1)	(2)	(1)	(2)
14	0.020	2152	0.190
15	0.166	2090	0.044
16	0.072	2083	0.201
17	0.250	2073	0.072
19	0.048	2077	0.072
1	0.032	2053	0.385
2	0.036	1940	0.372
18	0.084	1941	0.218
22	0.084	1945	0.328
23	0.064	1959	0.324
39	0.060	2050	0.024
35	0.092	2048	0.036
36	0.008	1960	0.275
2612	0.020	1961	0.328
2611	0.170	1963	0.396
2609	0.068	2046	0.024
2608	0.096	2045	0.084
2607	0.100	2036	0.469
2610	0.068	1974	0.623
2619	0.100	1978	0.072
2472	0.016	1977	0.275
2473	0.186	1979	0.137
2474	0.271	1980	0.303
2475	0.040	1982	0.101
2426	0.120	1857	0.259
2427	0.056	1856	0.392
2428	0.040	1985	0.364
2463	0.060	1844	0.048
2461	0.109	1987	0.109
2460	0.036	1988	0.052
2459	0.024	1843	0.271
2458	0.076	1986	0.020
2457	0.060	1989	0.012
2453	0.024	1839	0.141
2127	0.060	1841	0.060
2128	0.036	1840	0.170
2129	0.020	1838	0.109
2130	0.040	1837	0.068
2131	0.238	1836	0.149
2146	0.162	1824	0.448
2147	0.120	1826	0.020

(1)	(2)
1825	0.092
1807	0.307
1817	0.145
1806	0.028
1805	0.238
1804	0.206
1803	0.137
1808	0.097
1809	0.008
1780	0.133
1802	0.064
1604	0.417
1605	0.040
1602	0.452
1603	0.044
1614	0.494
1613	0.036
1625	0.056
1628	0.097
1633	0.328
1635	0.020
1634	0.190
1636	0.016
1672	0.125
1674	0.150
1670	0.085
1671	0.008
1669	0.214
1667	0.076
1707	0.255
1617	0.076
1626	0.291
1835	0.060
1834	0.028
1823	0.040

योग . . 18.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 510-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—कुबरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.910 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
17	0.02
16	0.26
15	0.14
14	0.16
13	0.31
12	0.02
योग . .	0.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 512-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—कलबलिया	358	0.50
(घ) क्षेत्रफल लगभग—6.64 हेक्टेयर.	1	0.17
खसरा नं.	102	0.17
एरिया (हे. में)		योग . . 6.64

(1) (2)

467 0.47

714 0.09

468 0.05

469 0.01

470 0.41

713 0.08

712 0.07

719 0.01

705 0.02

707 0.11

708 0.43

710 0.12

709 0.05

703 0.09

795/703 0.07

701 0.05

726 0.15

488 0.11

700 0.17

699 0.26

698 0.02

495 0.16

494 0.43

496 0.03

498 0.07

429/794/468 0.22

430 0.02

425 0.14

431 0.10

427 0.27

426 0.11

395 0.07

384 0.01

385 0.08

386 0.17

375 0.26

373 0.37

354 0.25

355 0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 514-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के
अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—बिहरा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.016 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
----------	--------------------

(1)	(2)
-----	-----

2115/1	0.008
--------	-------

2115/2	0.008
--------	-------

योग . .	0.016
---------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 9 जून 2014

क्र. 1902-भू-अर्जन-2013-14-प्र.क्र. 01-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—सिंगोली
(ग) नगर/ग्राम—बोरदिया, बाण्डा
(घ) क्षेत्रफल— 4.600 + 1.097=5.697

ग्राम—बोरदिया

सर्वे नम्बर	प्रभावित रकबा
(1)	(2)
523	1.100
524	0.500
525	1.000
526	1.750
513	0.250
योग . .	4.600

ग्राम—बाण्डा

180	1.097
योग . .	1.097
कुल रकबा . .	5.697

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम बोरदिया, बाण्डा तहसील सिंगोली, जिला नीमच में बोरदिया सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 10 जून 2014

प्र. क्र. 20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.957 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
203/2	0.288
205/1	0.041
205/2	0.040
200	0.063
192/1	0.180
198/2	0.036
192/2/2	0.028
192/2/1ख	0.028
192/2/1क	0.049
194	0.060
193	0.144
कुल योग . .	0.957

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के

लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—भैरोबाग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.315 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36	0.130
35	0.126
26/2क	0.198
28/1	0.378
32/3	0.050
140/2ख	0.072
32/2	0.010
26/2ख	0.126
32/1/1	0.061
32/1/2	0.061
32/1/3	0.038
32/1/4	0.038
29	0.027
कुल योग . .	1.315

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 एवं भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा

- (ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—हिनोतिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.733 हेक्टेयर.

ख. नं.	रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
3/1	0.116	कार्यपालन यंत्री,
3/2	0.021	संजय सागर परियोजना
7	0.116	बाह नदी संभाग
8/1	0.052	गंजबासौदा
8/2/1	0.052	
10/1	0.220	
5/1/1	0.136	
4	0.010	
9	0.010	
कुल योग . .	0.733	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जून 2014

प. क्र. 148-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि, रतहरा—सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छोटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण

अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म.प्र.)

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—रतहरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.628 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
201	0.063
340	0.061
343/2	0.012
344	0.007
355/3	0.005
355/3/1	0.004
353/1	0.002
355/9	0.009
374	0.065
375	0.014
377	0.346
381	0.040
योग . .	<u>0.628</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— रीवा रिंग रोड के फोरलेन निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम संभाग क्र. 2, रीवा में देखा जा सकता है.

प. क्र. 149-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक परियोजन के लिए है.

चूंकि, रतहरा—सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म.प्र.)

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—रतहरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.312 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
315/1	0.026
316/2	0.110
322/2	0.045
584/2	0.045
599	0.086
योग . .	<u>0.312</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— रीवा रिंग रोड के फोरलेन निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम संभाग क्र. 2, रीवा में देखा जा सकता है.

प. क्र. 150-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक परियोजन के लिए है.

चूंकि, रतहरा—सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण

अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

(ग) ग्राम—गड़रिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.381 हेक्टर.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म.प्र.)

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—जोरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.127 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
555	1.100
229	0.027
योग . .	<u>1.127</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— रीवा रिंग रोड के फोरलेन निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम संभाग क्र. 2, रीवा में देखा जा सकता है.

प. क्र. 151-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक परियोजन के लिए है.

चूंकि, रतहरा—सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म.प्र.)

(ख) तहसील—हुजूर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
89/6	0.102
99	0.708
106/1	0.178
106/2	0.080
106/3	0.080
108/1	0.120
113/1	0.095
114/1	0.015
589	0.030
587/2	0.240
777/1	0.039
799/2	0.209
803/1	0.137
824/1	0.241
824/2	0.122
917	0.041
979	0.004
980	0.002
994/1	0.333
994/2	0.219
994/3	0.162
994/4	0.214
1003/2	0.006
1004/1	0.004
योग . .	<u>3.381</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— रीवा रिंग रोड के फोरलेन निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम संभाग क्र. 2, रीवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

क्रमांक 23-01-2014-119- भू-अर्जन - एम.पी.आर.डी.सी. - 014 मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अंतर्गत निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

I)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग, एस.एच.-31	124.150	धार, रतलाम

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	धार	कलसाड़ा खुर्द	36, 22, 37, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 33, 34, 64, 65, 66, 67, 62, 68, 73, 74, 32, 20, 18, 17, 2, 1, 71, 63	36, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 62, 68, 73, 74, 69, 32, 20, 18, 17, 2, 1, 71, 63
धार	धार	बग्गड	1, 82, 64/2, 133, 320	1, 82, 64/2, 133, 320
धार	धार	माचकदा	-	274, 279,
धार	धार	हरसोरा	258/1, 218, 137	258/1, 218, 137, 274, 279, 201/3
धार	धार	सादलपुर	94, 70, 128, 123, 153, 166, 225/2/2 क, 226	94, 70, 128, 123, 153, 166, 225/2/2 क, 226, 142
धार	धार	संगेसारा	79/1, 79/2	48, 79/1, 79/2, 77
धार	धार	मुसावदा	2, 4, 189/1, 189/2, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 42, 51	2, 3/2 4, 28, 189/1, 189/2, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 42, 51
धार	धार	खेरोद	56, 88, 84, 389, 36, 45	56, 88, 84, 389, 36, 45
धार	बदनावर	मनारा	113, 94, 95	113, 94, 95, 109, 413/2, 413/3
धार	बदनावर	गाकनी	51, 53, 62, 33, 203, 71, 7	51, 53, 62, 33, 203, 71, 7
धार	बदनावर	नागदा	52, 53, 57, 60, 59, 62, 63	52, 53, 57, 60, 59, 62, 63, 6
धार	बदनावर	सनोली	407/526/2	407/526/2
धार	बदनावर	खजुरीया	27, 41,	27, 41,
धार	बदनावर	खंडीगारा	274, 59, 73, 74, 95, 57, 156, 157, 160, 161, 162, 19	274, 59, 73, 74, 95, 57, 156, 157, 160, 161, 162, 19
धार	बदनावर	कानवन	335, 6, 252, 121, 120, 118, 116, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 106, 104, 691, 82, 81, 80, 79,	335, 6, 252, 121, 120, 118, 116, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 106, 104, 691, 82, 81, 80,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
			25, 30, 33, 692, 695, 696, 697, 698, 99, 98, 97, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 83	79, 25, 30, 33, 692, 695, 696, 697, 698, 99, 98, 97, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 83
धार	बदनावर	छोकला	375, 377, 1, 121	375, 377, 1, 121
धार	बदनावर	बोराली	287	-
धार	बदनावर	घटगारा	35, 39, 74, 75/1, 73, 589, 84, 86, 87, 88, 602, 601, 603, 608, 694/583, 90	39, 57, 70, 74, 75/1, 73, 593, 601, 608, 694/583, 90, 131
धार	बदनावर	खेड़ा	1380, 1379, 2161, 2186, 1387, 1380, 2180, 2080, 2087, 2089, 2091, 2112, 2110, 2111, 2113, 2098	1380, 1379, 2161, 2186, 1387, 1380, 2080, 2087, 2089, 2091, 2112, 2110, 2111, 2113, 2098, 1390
धार	बदनावर	मुलथान	2889, 2890, 2853	2889, 2890, 2853
रतलाम	रतलाम	सिमलावदा	109, 750, 340, 372, 371, 476, 475	109, 750, 340, 372, 371, 476, 475
रतलाम	रतलाम	रत्तागढ़ खेड़ा	471	471
रतलाम	रतलाम	लोचीतारा	88/1, 89	88/1, 89,
रतलाम	रतलाम	सरवड	345, 17, 23, 25, 263	345, 17, 23, 25, 263
रतलाम	रतलाम	जमुनिया	513/609, 512, 405/615, 455, 475/645	513/609, 455, 475/645
रतलाम	रतलाम	रेण	48/528, 79, 75, 76, 68,	30, 48/528, 40, 79, 76, 68
रतलाम	रतलाम	बिलपाक	50, 126, 85	-
रतलाम	रतलाम	चिकलिया	97	97
रतलाम	रतलाम	धराड	238, 535, 613/1, 613/5, 613/2, 656, 646	238, 535, 613/1, 613/5, 613/2, 656, 189, 200/1
रतलाम	रतलाम	मंगरोल	757	757
रतलाम	रतलाम	खाराखेड़ी	173, 257	257
रतलाम	रतलाम	साला खेड़ी	57, 62, 71/4, 71/5, 71/2, 71/3, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 68/296/1, 82, 83, 84, 89, 141/2, 141/7, 141/15, 141/16, 141, 142, 146, 147	57, 70, 91, 162, 163/3, 71/4, 71/5, 71/2, 71/3, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 68/296/1, 82, 83, 84, 89, 141/2, 141/7, 141/15, 141/16, 141, 142, 146, 147
रतलाम	रतलाम	सनावदा	1, 82/5, 89,	1, 2/2, 19/7, 82/5, 89, 38
रतलाम	रतलाम	भाटखेड़ी	-	40
रतलाम	रतलाम	घटला	-	209, 205
रतलाम	रतलाम	सेजावता	263/520	263/520
रतलाम	रतलाम	धौसवास	33, 34, 35, 28/2, 286, 156, 68, 586, 548/1, 548/2, 522/3	28/2, 379, 252, 253, 254, 255, 156, 37/1, 68, 586, 548/1, 548/2, 522/3
रतलाम	रतलाम	नामली	1052/1, 1051, 1050, 1049, 1045, 1043, 1041, 1042, 1053/3, 1056/5, 1056/3, 1056/4, 1056/2, 1057, 1069/1151, 1067/1191, 1036, 1040/1, 1039, 1038, 1037, 664, 665, 663, 667, 672, 673, 671, 674, 613, 604, 676, 603, 680, 261, 268, 269, 266, 265, 263/1103, 262, 278, 292, 291, 289, 1174, 281, 287, 283, 286, 284, 369, 368, 367, 366, 377, 375, 171, 162, 163, 171/1, 165/1208, 177, 178, 176, 184, 185, 180, 190, 184/1143, 190/1209, 195, 189/3, 144/3, 145, 845, 846, 873, 875/2, 876/1/3, 879, 878/1,	1052/1, 1051, 1050, 1049, 1045, 1043, 1042, 1053/3, 1056/5, 1056/3, 1056/4, 1056/2, 1057, 1067/1191, 664, 263/1103, 278, 291, 1174, 375, 171, 177, 185, 144/3, 845, 875/2, 879, 878/1, 1048, 1056/1, 1058, 1063, 1064, 662, 263/1185, 263/1186, 276, 161, 144/2, 846, 1069/1191, 1048
रतलाम	रतलाम	मेवासा	71, 249, 125, 156, 128, 129, 342, 339/1, 339/2, 339/3,	125, 156, 128, 129, 342, 339/1, 339/2, 339/3, 276/2, 238, 71, 289, 249, 206, 299, 240, 238, 249, 250
रतलाम	पिपलोदा	पाडलिया हसन	160, 152/2/4, 157, 282, 284, 286/1, 286/2, 286/5, 286/6, 287, 330, 308/6, 402	160, 152/2/4, 157, 286/1, 286/2, 330, 402, 117, 114, 268/6, 268/7
रतलाम	पिपलोदा	शौहनगढ़	1858	1785, 1858

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	पिपलोदा	पाडलिया उमर	118/3, 118/1, 208, 182,	118/3, 118/1, 208, 182,

II)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
	जावरा-नयागाँव फोरलेन मार्ग, एस.एच.-31	127.81	रतलाम, मन्दसौर, नीमच

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
रतलाम	जावरा	लुहारी	206	206
रतलाम	जावरा	कुम्हारी	3	3
रतलाम	जावरा	बन्नाखेड़ा	182/51, 125, 135, 221,	182/51, 125, 135, 221, 124, 220
रतलाम	जावरा	कस्बा जावरा(जावरा)	22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/9, 24/10, 24/11, 58/9, 505	213, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 58/9, 505
रतलाम	जावरा	बागाखेड़ा	33, 34, 3	33, 34, 3
रतलाम	जावरा	भैसाना	140/2	140/2
रतलाम	जावरा	रीछाचांदा	611/620	483, 611/620
रतलाम	जावरा	रूपनगर	239, 240/8, 241, 220	240/8, 239, 242
रतलाम	जावरा	परवलिया	88, 139, 134	138, 139, 134
रतलाम	पिपलोदा	लसूडियानाथी	73/2	-
मन्दसौर	दलोदा	कचनारा	515, 271, 290	515, 271, 290
मन्दसौर	(दलोदा)	आक्याउमाहेड़ा	12, 39 1235, 1314, 1315, 1304, 1352, 1353, 135, 133	17, 1272, 1355, 1354, 181, 1366
मन्दसौर	दलोदा	लखमाखेड़ी	164/3	164/3, 520
मन्दसौर	दलोदा	दलोदा	145, 242, 239, 262, 488, 495, 536, 545, 547, 548, 549, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 735/1, 766, 720, 713, 712, 650, 565, 569, 923, 924, 925, 942, 945, 1106, 1115, 1123, 1128,	104, 119, 145, 222, 231, 232, 233, 236, 288, 239, 240, 245, 261, 259, 474, 478, 476, 484, 489, 488, 509, 510, 513, 536, 545, 547, 548, 737, 738, 736, 739, 740, 741, 742, 734, 735/1, 720, 713, 650, 646, 1128, 1123, 552, 565, 579, 580, 912, 919, 648, 924, 925, 942, 946, 1115, 1120
मन्दसौर	(दलोदा)	बानीखेड़ी	41	41
मन्दसौर	दलोदा	फतेहगढ़ रोजा	423, 433	423
मन्दसौर	मन्दसौर	सोनगरी	36, 67, 72, 299	67, 71, 204
मन्दसौर	मन्दसौर	रिछा बच्चा	556, 559, 560, 561, 562, 563, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 628, 667, 668, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 682, 683, 684, 685, 686, 815, 813, 814, 812,	556, 559, 561, 562, 563, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 628, 667, 668, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 815, 813, 814, 812,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
मन्दसौर	मन्दसौर	अजीजखेडी	130, 122, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 250, 255, 256, 242, 119, 222, 223, 224, 225, 226	130, 131, 122, 124, 123, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 246, 250, 255, 256, 242, 119, 222, 223, 224, 225, 226
मन्दसौर	मन्दसौर	खिलवीपूरा	625	-
मन्दसौर	मन्दसौर	नालछा	272	263, 272
मन्दसौर	मन्दसौर	कस्बा मन्दसौर	33	33
मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	57, 218, 220, 213/1, 219, 222, 64, 65	222, 229, 213/1, 219, 64, 65
मन्दसौर	मन्दसौर	मुल्तानपूरा	1174,	1174
मन्दसौर	मन्दसौर	भुनियाखेडी	95	-
मन्दसौर	मन्दसौर	गुराडिया देवा	59, 587,	599, 1548, 686, 598, 612, 603
मन्दसौर	मल्हारगढ	बोतलगंज	257/1, 257/2	257/1, 257/2
मन्दसौर	मल्हारगढ	धजौद	524, 158, 251	524
मन्दसौर	मल्हारगढ	बही	1192	1192
मन्दसौर	मल्हारगढ	सौकड़ी	-	169/1, 169/2
मन्दसौर	मल्हारगढ	पिपलीया पंथ	349/1, 123/4	349/1, 123/4
मन्दसौर	मल्हारगढ	बरखेडा पंथ	278, 566	-
मन्दसौर	मल्हारगढ	सुजौद	489/1, 141, 163, 198, 624/1	489/1, 163, 198, 624/1
मन्दसौर	मल्हारगढ	चनोरी	860, 817	821, 819/2, 828, 853, 858, 815, 822, 857, 825
नीमच	जीरन	बरखेडा सोधिया	-	106, 111
नीमच	जीरन	कचौली	-	383
नीमच	जीरन	कैलुखेडा	155, 156, 157, 158, 462, 462/721	155, 156, 157, 159, 462, 463, 475, 476, 477, 498, 525, 526
नीमच	जीरन	गाटखेडा	655/2, 655/1	655/2, 477
नीमच	नीमच	सेमली चौधरी	-	151
नीमच	नीमच	बरखेडा हाडा	308, 309	308, 309
नीमच	नीमच	वौथखेडा	-	448
नीमच	नीमच	मालखेडा	-	855,
नीमच	नीमच	बरुखेडा	-	288, 553
नीमच	नीमच	भरभडीया	1117, 1176, 2427, 2881/1, 2881/2	1114, 1115, 1176, 1076, 2427, 2490, 2881/1, 2881/2, 1978, 1983, 1984, 1153, 2742, 2743, 2767, 2855, 2299, 2811, 2910, 1985, 1140
नीमच	नीमच	डूंगलावदा	-	5
नीमच	नीमच	चनोरा	-	147
नीमच	नीमच	सगराना	767, 765	767, 765
नीमच	नीमच	धसुन्डी	-	646
नीमच	जावद	कानका	295, 338	269, 295, 298, 299

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
नीमच	जावद	नयागाँव	1590, 1572, 41, 81, 87, 78	1572, 1536, 65, 78

III)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	संपूर्ण मार्ग की लंबाई (किमी. में)	मार्ग में आने वाले जिले
1	इन्दौर-उज्जैन फोरलेन एस.एच. क्र.-27	48.900	इन्दौर-उज्जैन

“खण्ड - ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
इन्दौर	सांवेर	भंवरासला	14/1/2, 18	18, 21, 181/1/2, , 112/2/6, 14/1/2
इन्दौर	सांवेर	जाख्या	45/2/1/1	45/2/1/1
इन्दौर	सांवेर	रेवती	4,126/1,129,130	4,126/1,127,128,129,130,131/2
इन्दौर	सांवेर	बाशेली	22, 12/2, 143, 149, 147/1, 74	12/2,81, 143, 149, ,147/1, 74
इन्दौर	सांवेर	रिंगनोदिया	180	-
इन्दौर	सांवेर	जेतपुरासोलसिन्दा	423, 5/1/1, 213,428, 107/126/2, ,329	351,352, 5/1/1,213, 428, 107/196/1, 107/126/2, 329, 423
इन्दौर	सांवेर	राजोदा	360/1,358/1,358/2,284,351,368,370,354,355,372/1,356/365,323,324,311/1,311/2,311/3,311/4,311/5,379/1,379/3,373,374,377/1, 377/2, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 353,356/1, 356/2, 356/3, 356/6, 373/394, 360/2, 362/1, 325, , 322, , 310, 309/1, 309/2, 361, 367, 371/1, 371/2, 373/394/1, 373/394/2, , 373/2/3, 373/3, 373/4, 373/394/3, 376, 375	360/1
इन्दौर	सांवेर	सिलोदा	163,100,145	124,163,100,146/1,145
इन्दौर	सांवेर	तराना	124,228,226,182/1/2,182/1/3,182/1/1,182/1/4	228,186,182/1/2,182/1/3,182/1/1,182/1/4
इन्दौर	सांवेर	कजलाना	136	137,136,95
इन्दौर	सांवेर	कस्बा सांवेर	876	876,
इन्दौर	सांवेर	रांवेर	-	359/1/1, 359/1/2, 359/2/1, 359/2/2, 359/2/3,
इन्दौर	सांवेर	बड़ोदिया खान	523	345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6
उज्जैन	उज्जैन	पथपिपलई	161/1, 161/2	239
उज्जैन	उज्जैन	रामवासा	-	483
उज्जैन	उज्जैन	निनोरा	-	4,37,44,486,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
उज्जैन	उज्जैन	मैंडिया	112	112,129,96/1, 96/2/1/1, 96/2/1/2, 96/2/2
उज्जैन	उज्जैन	ढेंडिया	38, 62	38
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द		145,138,139

IV)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	कुल लंबाई (किमी. में)	राजमार्ग में आने वाले जिले में)
1	लेबड़-मानपुर एस.एच.-31-ए	34.30	धार, इन्दौर

“खण्ड-ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	लेबड़	254/1	254/1
धार	धार	कलसाडा खुर्द	279/2/ग/1, 279/2/ख/1/1/1, 279/2/ख/1/1/2, 279/2/ख/1/2, 279/2/क/2, 279/2/क/4, 343/7, 343/8, 419, 420, 290, 322, 321, 320, 414, 325, 326, 396, 397, 412, 407, 408, 409, 410, 411, 412	279/2/ग/1, 279/2/ख/1/1/1, 279/2/ख/1/1/2, 279/2/ख/1/2, 279/2/क/2, 279/2/क/4, 343/7, 343/8, 419, 420, 290, 322, 321, 320, 414, 325, 326, 396, 397, 412, 407, 408, 409, 410, 411, 412
धार	धार	एकलदुना	24/1, 158/3, 158/1/4, 158/1/2, 158/1/1, 75, 189, 19	15/1, 83/2, 158/3, 158/1/4, 158/1/2, 158/1/1, 73 /2, 85/1/2, 158/1/2/क
धार	धार	नजदीक बलौदा	219/1, 219/2, 232/1, 31/2/1, 34/1/2, 34/1/3, 80, 233/1/3	20/1/4, 10, 232/1, 31/2/1, 34/1/1, 34/1/2, 34/1/3, 80, 221/2, 233/1/3
धार	धार	करोड़िया	210/1, 170/2, 166/2/2, 208, 207, 110, 144, 174, 209	102/1, 210/1, 166/1, 170/3, 166/2/2, 208, 207, 142/2, 141, 110, 144, 174, 209
धार	धार	दिग्गान	1, 2, 4, 5, 30, 61, 197, 40, 160, 165, 169, 681, 620, 65, 161, 107, 260, 209, 161, 207, 206, 205, 202/2, 204/2, 203/1, 169/52, 202/1, 204/1, 203/1169/1, 198, 196, 195, 218, 217, 220, 221, 159, 163, 166, 167, 168, 170, 192, 188, 187, 186, 184, 183, 182, 181/1, 180/1, 180/2, 38, 426, 194, 158, 185, 178, 462, 459, 617, 669, 677, 699, 453, 451, 450, 448, 447, 446/1, 446/2, 432, 429, 430, 428, 679, 179/1, 644	1, 2, 4, 5, 30, 61, 197, 40, 160, 165, 169, 681, 620, 65, 111, 107, 260, 209, 161, 207, 206, 205, 202/2, 204/2, 203/2, 169/2, 169/1, 202/1, 204/1, 203/1, 198, 196, 195, 218, 219, 220, 221, 159, 163, 166, 167, 168, 170, 192, 188, 187, 186, 184, 182, 181/1, 180/1, 182/2, 38, 37, 60, 426, 194, 158, 185, 178, 462, 459, 617, 669, 677, 699, 453, 451, 450, 448, 447, 446/1, 446/2, 432, 430, 428, 679, 179/1, 644, 211/2, 464
धार	धार	पिपल्या खास	250, 109/2, 85, 77, 95	250, , 85, 77, 95, 116, 3/2/8, 88
धार	धार	आबुखेडी	25/2, 27, 33, 35	25/2, 27, 33, 35

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	महाराजखेडी	334, 338, 339/2, 336, 322, 333, 344/1, 345,	334, 338, 339/2, 336, 322, 333, 344/1, 345,
धार	धार	रायण	127, 165	127, 165
धार	धार	बिल्लौद	32, 68, 17/2, 17/3, 343/3, 351/3, 689/4, 742, 361/2, 358/3, 569/2, 343/1, 353, 350, 571, 688/4	120, 114, 32, 68, 76, 17/2, 17/3, 343/1, 351/3, 570, 742, 361/1, 358/3, 569/2, 353, 550, 571, 688/4, 152/2/2/क, 193, 194, 367, 31, 569/1/1, 74/2, 115, 155, 19
धार	वजिला	नाई बरोदा मण्डलोई	17/1/1, 34, 114	17/1/1, 34, 114
धार	धार	नाई बरोदा कानुनगो	49, 50, 53, 174,	49, 50, 53, 174, 119/2
इन्दौर	महू	खेडी	22/522, 92, 94, 95, 323/1, 323/2, 324/3, 326, 325/2, 325/3, 328, 300/1, 301/1, 302, 299/2, 299/1, 293/1, 90/3, 385, 288/2/2, 279, 280, 373/1, 373/2, 373/3, 265, 266, 267/1, 270/2, 273, 274, 262/1, 262/2, 278, 293/1, 293/2, 339, 378/1, 379, 381/3, 264/2, 292/1, 292/2, 292/3	92, 94, 95, 385, 279, 280, 373/1, 373/2, 373/3, 265, 266, 267/2, 273, 274, 262/1, 262/2, 293/1, 293/2, 378/1, 379, 381/3, 292/1, 292/2, 292/3, 25, 328, 283, 287, 384, 376/1, 293/3
इन्दौर	(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर	सिहोद	293/3, 293/1/1/भ, 293/1/1/क, 293/1/1/त, 292, 293/1/1/फ, 293/1/1/ब	293/3, 293/1/1/भ, 293/1/1/क, 293/1/1/त, 292, 293/1/1/फ, 293/1/1/ब
इन्दौर	(महू)	दुर्जनपुरा	75, 19/1, 19/2, 189, 129/1, 129/2, 124, 82/2, 82/1, 137/1, 137/2, 137/3, 138, 133/1/1, 19/371, 30, 136/363, 136/313, 82/1, 82/2, 123/1, 123/2, 196/1/2, 129	75, 19/1, 19/2, 189, 129/1, 129/2, 124, 82/2, 82/1, 137/1, 137/2, 137/3, 138, 133/1/1, 19/371, 30, 136/363, 136/313, 82/1, 82/2, 123/1, 123/2, 196/1/2, 129, 131, 83/1, 16, 127
इन्दौर	(महू)	शेरपुर	1, 99, 103, 101/1/1, 101/1/1, 101/1/3, 101/1/4, 101/1/5, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 58, 61/1, 62/1, 63, 64, 65, 75, 81, 82, 92, 94, 206, 211, 212/1, 217, 218, 220, 233, 235, 242, 244, 55, 84	1, 99, 103, 101/1/1, 101/1/1, 101/1/3, 101/1/4, 101/1/5, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 58, 61/1, 62/1, 63, 64, 65, 75, 81, 82, 92, 94, 206, 211, 212/1, 217, 218, 220, 233, 235, 242, 244, 87, 91/1, 236, 246, 266
इन्दौर	महू	मानपुर	315/2, 1, 3, 154, 152/2, 150/2, 208/1, 208/2, 208/3, 201/2,	315/2, 1, 3, 154, 152/2, 150/2, 208/2, 208/3, 201/2, 218/2, 122, 156, 305, 163, 183/2

V)

“खण्ड-अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	कुल लंबाई (किमी. में)	राजमार्ग में आने वाले जिले
1	महू-घाटाबिल्लौद एस.एच.-1-ए	27.00	धार, इन्दौर

“खण्ड-ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
------	-------	-------	--	---

7

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर)
धार	धार	पीथमपुर	-	520, 508, 321, 300, 309, 507, 141, 146
धार	धार	खेडा	-	270

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.